



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 2019/ज्येष्ठ 9, 1941

No. 330]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2019/JYAISTHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2019

सा.का.नि. 394(अ).—सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) की धारा 3 के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्कीम बनाती है, नामतः:

1. संक्षिप्त नाम और आरंभ:

- इस स्कीम का नाम सॉवरन स्वर्ण बांड स्कीम, 2019-20 होगा।
- प्रत्येक ट्रांश के लिए भिन्न-भिन्न शृंखलाएं (शृंखला-I से आरंभ) होंगी जिन्हें निवेशकों को जारी बांडों में दर्शाया जाएगा।
- यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:

इस स्कीम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो, -

- "प्रपत्र" का अर्थ है, इस स्कीम के साथ संलग्न प्रपत्र;
- "प्राप्तकर्ता कार्यालय" का अर्थ है लघु वित्तीय बैंक और भुगतान बैंक को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के कार्यालय या शाखा (इस अधिसूचना के अनुबंध I में यथाविनिर्दिष्ट) नामोद्दिष्ट डाकघर (इस अधिसूचना के अनुबंध-II में यथा विनिर्दिष्ट), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और इस अधिसूचना के अनुबंध III में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज;
- "स्टॉक प्रमाणपत्र" का अर्थ है, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 3 के अनुसार भारत सरकार स्टॉक के रूप में निर्गमित स्वर्ण बांड।

3. निवेश हेतु पात्रता:

इस स्कीम के अंतर्गत, स्वर्ण बांडों को एक न्यास, एच.यू.एफ., धर्मार्थ संस्था, विश्वविद्यालय अथवा भारत में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति की हैसियत से, ऐसे व्यक्ति के रूप में अथवा नाबालिग की ओर से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से धारित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ-

- (i) "व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (प) में यथापरिभाषित है;
- (ii) शब्द "भारत में निवासी व्यक्ति" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (फ) में यथापरिभाषित है।
- (iii) "न्यास" का अर्थ होगा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अनुसार गठित/बनाया गया न्यास अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी केंद्रीय अथवा राज्य के विधान के उपबंधों के तहत गठित अथवा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी न्यास और लोक धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन या दोनों प्रयोजनों हेतु गठित अभिव्यक्त या रचनात्मक न्यास भी, जिसमें मंदिर, मठ, वक्फ, चर्च, साइनागॉग, एनाजियरी अथवा सार्वजनिक धार्मिक पूजा की अन्य जगह अथवा धर्मादा अथवा धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन अथवा दोनों के लिए गठित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारत में उस समय लागू किसी विधान के तहत पंजीकृत कोई अन्य धार्मिक या धर्मार्थ वृत्तिदान और सोसायटी।
- (iv) "धर्मार्थ संस्था" का अर्थ है भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत अथवा लागू विधान के अनुसार धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त की हुई संस्था; या कोई भी संस्था जिसने आय कर अधिनियम की धारा 80छ के प्रयोजन से आयकर प्राधिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है।
- (v) 'विश्वविद्यालय' का अर्थ है केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या सम्मिलित विश्वविद्यालय और इसमें उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 (1956 की 3) के तहत घोषित संस्था शामिल है।

4. मूल्यवर्ग, अभिदान सीमा और मूल्य निर्धारण:

- (i) बांड एक ग्राम स्वर्ण अथवा इसके गुणजों के मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा:

परंतु यह कि जारी बांड में अभिदान की न्यूनतम सीमा 1 ग्राम और अभिदान की अधिकतम सीमा प्रति वित्त वर्ष व्यष्टि के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम होगी;

परंतु यह भी कि संयुक्त धारिता के मामले में, उपर्युक्त सीमाएं केवल प्रथम आवेदक पर ही लागू होंगी;

परंतु यह भी कि वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा आरंभिक निर्गम के दौरान विभिन्न ट्रांश में अभिदत्त और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बांड शामिल होंगे; और

परंतु यह भी कि निवेश पर सीमा, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक के रूप में धारिता में शामिल नहीं होगी।

- (ii) स्वर्ण बांडों का अंकित मूल्य अभिदान अवधि से पिछले सप्ताह के अंतिम 3 कार्य दिवसों के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता के स्वर्ण के बंद भाव के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपए में होगा।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन करने वाले और उसका भुगतान डिजिटल माध्यम से करने वाले निवेशकों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य, अंकित मूल्य से ₹ 50 प्रति ग्राम कम होगा।

5. स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया:

- (i) स्वर्ण बांडों के अभिदान हेतु आवेदन करने के इच्छुक प्रत्येक अभिदाता को प्रपत्र 'क' अथवा उसी के समान किसी अन्य प्रपत्र में किसी भी प्राप्तकर्ता कार्यालय को आवेदन करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से स्वर्ण के ग्राम में वजन और आवेदक का पूरा नाम और पता देना होगा।
- (ii) प्रत्येक आवेदन में ऐसे दस्तावेज और ब्यौरे होंगे जैसेकि आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- (iii) प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक(कों) को जारी पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) संलग्न किया जाना अत्यावश्यक है।
- (iv) उप-पैराग्राफ (i) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता कार्यालय, प्रपत्र 'ख' में पावती जारी करेगा, यदि आवेदन की सभी अपेक्षाएं पूरी की गई हों।
- (v) अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

6. स्वर्ण बांडों के निर्गम की तिथि और स्वरूप:

- (i) स्वर्ण बांड प्रपत्र 'ग' में यथा विनिर्दिष्ट "स्टॉक प्रमाणपत्र" के रूप में निर्गमित किए जाएंगे।
- (ii) स्वर्ण बांड डी-मैट रूप में रूपांतरित किए जाने के लिए पात्र होंगे।

7. अभिदान की अवधि:

इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांड का अभिदान नीचे खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार खुलेगा;
परंतु केंद्रीय सरकार पूर्व नोटिस देकर, उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले स्कीम को बंद कर सकती है।

8. निर्गमन का कैलेंडर-

क्र.सं.	द्रांश	अभिदान की अवधि	निर्गम की तारीख
1	2019-20 शृंखला I	03-07 जून, 2018	11 जून, 2019
2	2019-20 शृंखला II	08-12 जुलाई, 2019	16 जुलाई, 2019
3	2019-20 शृंखला III	05-09 अगस्त, 2019	14 अगस्त, 2019
4	2019-20 शृंखला IV	09-13 सितम्बर, 2019	17 सितम्बर, 2019

9. ब्याज:

- (i) स्वर्ण बांडों पर ब्याज इसके निर्गम की तारीख से प्रभारित होगा और 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की नियत ब्याज दर अंकित मूल्य पर लगायी जाएगी।
- (ii) यह ब्याज अर्ध-वार्षिक रूप में देय होगा तथा अंतिम ब्याज परिपक्वता होने पर मूल के साथ देय होगा।

10. प्राप्तकर्ता कार्यालय- प्राप्तकर्ता कार्यालय, सीधे अथवा एजेंटों के जरिए बांडों के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होंगे।**11. भुगतान के विकल्प:**

- (i) स्वर्ण बांड के लिए सभी भुगतान नकद में (अधिकतम ₹ 20,000 तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रुपए में स्वीकृत किए जाएंगे।
- (ii) जहां भुगतान बैंक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाते हों, उन्हें प्राप्तकर्ता कार्यालय के पक्ष में आहरित किया जाएगा।

12. मोचन:

- (i) स्वर्ण बांड, इनके निर्गम की तारीख से आठ वर्ष की समाप्ति पर अदायगी योग्य होंगे:
परंतु स्वर्ण बांड का परिपक्वता पूर्व मोचन, स्वर्ण बांड के निर्गम की तारीख से, पांचवें वर्ष की समाप्ति पर अनुमत किए जा सकते हैं और ऐसे भुगतान अगले ब्याज भुगतान की तारीख को देय होंगे।
- (ii) परिपक्वता पर, स्वर्ण बांडों का मोचन भारतीय रुपए में होगा और मोचन का मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्यूल्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित पिछले 3 कार्य दिवसों की 999 शुद्धता के स्वर्ण के समापन मूल्य की साधारण औसत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक/निक्षेपागार निवेशक को, स्वर्ण बांड की परिपक्वता की तारीख के बारे में, परिपक्वता से एक माह पूर्व सूचित करेगा।

13. सांविधिक नकदी अनुपात हेतु पात्रता:

केवल ग्रहणाधिकार (लियन)/आडमान (हाइपोथिकेशन)/गिरवी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए बांड सांविधिक नकदी अनुपात हेतु पात्र होंगे।

14. बांडों के एवज में ऋण:

- (i) इस स्कीम के अंतर्गत स्वर्ण बांडों को किसी भी ऋण के संबंध में संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित किसी भी सामान्य स्वर्ण ऋण पर यथा प्रयोज्य ऋण-मूल्य अनुपात इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्ण बांड पर भी लागू होगा।

टिप्पणी: एसजीवी के प्रति ऋण उधार देने वाले बैंक/संस्था के निर्णय के अध्यक्षीन होंगे और एसजीवी धारक द्वारा अधिकार के रूप में अनुमित नहीं किए जा सकते हैं।

15. कर उपाय:

स्वर्ण बांड पर मिलने वाला ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार कर योग्य होगा। इन बांडों के मोचन पर पूंजी प्रतिलाभ कर में व्यष्टि के लिए छूट है। बांडों के हस्तांतरण पर किसी व्यक्ति को प्राप्त दीर्घावधिक पूंजी प्रतिलाभ को सूचीयन लाभ प्रदान किया जाएगा।

16. नामांकन:

- (i) नामांकन और इसका निरसन क्रमशः प्रपत्र 'घ' और प्रपत्र 'ङ' में किया जाएगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग III खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ii) एक व्यष्टि अनिवासी भारतीय अपने नाम पर प्रतिभूति का अंतरण दिवंगत निवेशक के नामिती होने के नाते करवा सकता है; परंतु यह कि उस अनिवासी भारतीय को समय-पूर्व मोचन अथवा परिपक्वता तक प्रतिभूति का धारक बने रहना आवश्यक है; परंतु यह भी कि निवेश पर ब्याज और परिपक्वता आय स्वदेश भेजने योग्य नहीं होगी।

17. स्वर्ण बांडों का अंतरण:

स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में स्वर्ण बांडों को प्रपत्र 'च' में निहित अंतरण लिखत के निष्पादन से हस्तांतरित किया जा सकेगा, जो सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का 38) और तारीख 01 दिसंबर, 2007 के भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4, में प्रकाशित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

18. स्वर्ण बांडों में कारोबार:

स्वर्ण बांड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से कारोबार किए जाने हेतु पात्र होंगे।

19. अभिदान जुटाने के लिए कमीशन:

इन बांडों के लिए अभिदान जुटाने के कमीशन का भुगतान, प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों पर, प्राप्त कुल अभिदान के प्रति सौ पर एक रुपए की दर से की जाएगी और प्राप्तकर्ता कार्यालय इस प्रकार प्राप्त कमीशन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा एजेंटों या उप-एजेंटों के साथ, उनके जरिए प्राप्त कारोबार के लिए हिस्सेदारी करेंगे।

- 20. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना फा. सं. 4(2) डब्ल्यूएंडएम/2018, तारीख 27 मार्च, 2018 में विनिर्दिष्ट अन्य सभी निबंधन और शर्तें इस स्कीम के अंतर्गत निर्गमित स्वर्णबांड पर लागू होंगी।

[फा. सं. 4(7)बी-डब्ल्यूएंडएम/2019]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

अरविन्द श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पत्र 'क'
[पैराग्राफ 5(।)देखें]

**सौवरेन स्वर्ण बांड 2019-20 के लिए आवेदन पत्र**

(आवश्यकतानुसार ✓ का निशान लगाएं)

[illegible]

अंशदान का माध्यम ☐ नकद ☐ चेक/डीडी ☐ इलेक्ट्रॉनिक अंतरण

	आवेदन किया गया सोना ग्रा. में	मैचैक/डिमांडड्राफ (बैंक और शाखा का नाम)	चैक/डिमांडड्राफ संख्या	दिनांक
(अंकों में)				
(शब्दों में)				

राशि: रु. (अंकों में) (शब्दों में)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

आवेदक की स्थिति: निवासी व्यष्टि [], न्यास [], धर्मार्थ संस्था [], विश्वविद्यालय, अन्य [], कृपया विनिर्दिष्ट करें:

आवेदक(कों)ब्यौरा(साफ अक्षरों में)

मौजूदा आरबीआई निवेशक आईडी, यदि कोई हो

पहला /एकल आवेदक का पूरा नाम

[illegible]

दूसरा का पूरा नाम

[illegible]

अभिभावक (नाबालिग के मामले में)

[illegible]

पहला/एकल आवेदक का/अभिभावक का पूरा पता (दोबारा नाम न लिखें)

[illegible]

संपर्क का ब्यौरा

[illegible]

ब्याज वॉरंट/मोचन के भुगतान हेतु बैंक का विवरण

बैंक का नाम		
शाखा का नाम/पता	खाता संख्या	
आईएफएसीकोड		
खाता का प्रकार	बचत बैंक खाता	चालूखाता
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

नामिती का ब्यौरा -नामांकन फार्म (यथा प्रयोज्य) भरा जाए और संलग्न किया जाए

निष्पेपागार भागीदार का ब्यौरा (डी-मैट रूप में बांड को धारित करने के विकल्प का चयन करने के लिए)

निष्पेपागार का नाम ☐ एनएसडीएल ☐ सीडीएसएल (एनएसडीएल के लिए 8 अंकीय डीपी आईडी लिखें, उसके बाद 8 अंकीय क्लाइंट आईडी लिखें, सीडीएसएल के लिए 16 अंकी क्लाइंट आईडी लिखें)

डीपी/क्लाइंट आईडी																	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

घोषणा: मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं एवं शपथ लेता हूँ/लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सॉवरेन गोल्ड बांड 2019-20 श्रृंखला I/II/III/IV में मेरा/हमारा कुल निवेश प्रति वित्त वर्ष व्यष्टि के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम से अधिक नहीं हुआ है, (ii) आवेदन प्रपत्र में दी गई सूचना सही है, और (iii) मैंने निवेशकों के लिए दी गई सूचना के ब्यौरे तथा उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों को पढ़ और समझ लिया है (प्रति संलग्न). एजेंट/बैंक ने स्कीम के विशेषताओं को समझा दिया है।

हस्ताक्षर (पहला आवेदक)	हस्ताक्षर (दूसरा आवेदक)	हस्ताक्षर अभिभावक
तारीख <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px;"></table>	स्थान <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"></table>	

बैंक/डाकघर के प्राधिकृत अधिकारी की तारीख सहित बैंक स्टॉप और हस्ताक्षर

अंगूठे का निशान दो गवाहों द्वारा अनुप्रमाणित हो

अंगूठे का निशान

गवाह:

प्रथम गवाह का नाम _____ द्वितीय गवाह का नाम _____

पता _____ पता _____

हस्ताक्षर _____ हस्ताक्षर _____

हिंदू अविभाजित परिवार (एच.यू.एफ.) घोषणा (अनिवार्य, अगर आवेदक एच.यू.एफ. का कर्ता है)

मैं,, प्रथम आवेदक के समक्ष दिए गए पते का निवासी, सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि मैं अविभाजित हिंदू परिवार का कर्ता हूँ और इस कारण मुझे एच.यू.एफ. के नाम के चलते सॉवरन स्वर्ण बाण्ड, 2019-20 शृंखला I/II/III/IV में बेचने, पुष्टि करने, हस्तांतरित करने और किसी अन्य तरह से लेनदेन करने की पूरी शक्तियाँ हैं।

एच.यू.एफ. के लिए और उसकी ओर से नमूना हस्ताक्षर (एच.यू.एफ. का नाम)

स्थान _____

दिनांक _____

(एच.यू.एफ. की मोहर सहित कर्ता के हस्ताक्षर)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन प्राप्ति की तारीख	बीएएल सं.	सीआईएफ सं.	सरकारी खाते में जमा करने की तारीख	नामांकन पंजीकरण की तारीख	एच.यू.एफ. घोषणा मिली (हां/नहीं)	प्राप्त घोषणा की कुल सीमा	नेफ्ट/ईसीएस मैनडेट मिला (हां/नहीं)	कोई अन्य सूचना

प्रपत्र का भाग क**साँवरन स्वर्ण बांड, 2019-20 शृंखला I/II/III/IV में निवेशों हेतु निवेशकों के लिए सूचना**

मद	साँवरन स्वर्ण बांड, 2019-20 शृंखला I/II/III/IV
1. निवेशक की श्रेणी	इस स्कीम के अंतर्गत, स्वर्ण बांडों को एक निवासी न्यास, एच.यू.एफ., धर्मार्थ संस्था, विश्वविद्यालय अथवा व्यक्ति द्वारा धारित किया जा सकेगा।
2. निवेश की सीमा	प्रति निवेशक, प्रति वर्ष, न्यूनतम अभिदान 1 ग्राम और अधिकतम निवेश व्यष्टि के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित कुटुम्ब के लिए 4 किलोग्राम और न्यासों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित इसी तरह की संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम होगा।
3. बांडों के निर्गम की तारीख	बांड प्राप्ति की तारीख वही होगी जो धारिता प्रमाणपत्र पर अंकित है।
4. बांडों के प्रकार	डिमेट और वास्तविक (धारिता प्रमाणपत्र)
5. ब्याज का विकल्प	अर्धवार्षिक अंतराल ब्याज, आवेदन फॉर्म में उल्लिखित खाते अथवा डिमेट खाते से जुड़े खाते में सीधे जमा कराया जाएगा।
6. पश्च - परिपक्वता ब्याज	पश्च- परिपक्वता ब्याज देय नहीं है।
7. बैंक खाता	निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि ब्याज/परिपक्वता मूल्य का भुगतान सुसाध्य बनाने के लिए बैंक खाते का ब्यौरा दें।
8. नामांकन सुविधा	एकल धारक अथवा सभी संयुक्त धारक, नामांकित के रूप में अधिकतम दो व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
9. परिपक्वता अवधि	निर्गम की तारीख से 8 वर्ष।
10. पूर्व- परिपक्वता उन्मोचन	निर्गमन के 5वें वर्ष से कूपन तारीखों पर।
11. विक्रेयता	एक्सचेंजों/एनडीएस-ओएम पर इन बांडों की विक्रेयता अधिसूचित की जाएगी।
12. इन बचत बांडों की जमानत पर बैंकों से ऋण	उक्त प्रतिभूतियों के धारक अनुसूचित बैंकों में गिरवी रखने, रेहन अथवा ग्रहणाधिकार करने के हकदार होंगे।
13. आवेदन प्रपत्र	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं और नामोद्दिष्ट डाक घर, एसएचसीआईएल और प्राधिकृत स्टॉक एक्सचेंज।

निवेशक/आवेदकों के लिए अनुदेश

- (क) आवेदन सभी दृष्टियों से पूर्ण होना चाहिए।
- (ख) अधूरे आवेदनों को पूरे विवरण उपलब्ध होने तक नामंजूर किया जा सकता है या उनकी तिथि बढ़ायी जा सकती है।
- (ग) यदि मुख्तारनामा धारक आवेदन पत्र जमा करता है तो मुख्तारनामे की अनुप्रमाणित प्रति के साथ उसकी मूल प्रति प्रस्तुत करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (घ) यदि आवेदन नाबालिक की ओर से किया जाता है तो कृपया विद्यालय या नगर निगम प्राधिकरणों द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाणपत्र और उसकी अनुप्रमाणित प्रति जमा करें ताकि उसका सत्यापन किया जा सके।
- (ङ) कृपया ध्यान दें कि नामांकन सुविधा सावरन स्वर्ण योजना (एसजीवी) के एक मात्र धारक या सभी संयुक्त धारकों (निवेशकों) के लिए उपलब्ध है।
- (च) यदि नामिती नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि का उल्लेख करें और उसका अभिभावक नियुक्त किया जा सकता है।
- (छ) यदि निवेश नाबालिक की ओर से किया जाए तो नामांकन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- (ज) इलेक्ट्रानिक रीति से भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाता का विवरण दें।

- (झ) कृपया बैंक खाते का बदलाव करने पर, यदि ऐसा है, उसे अविलंब अधिसूचित करें।
- (ञ) परिपक्वता पश्च ब्याज देय नहीं है।
- (ट) अपनी जन्मतिथि का उल्लेख करें।

निवेशक के अधिकार

- (क) बांड (धारक प्रमाणपत्र) निवेशक को जारी किया जाएगा।
- (ख) बांड पर ब्याज की अदायगी अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाती है। ब्याज का शोधन आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते या डीमेट से जुड़े खाते, जैसा भी मामला हो, के जरिए किया जाएगा।
- (ग) निवेशों, सावरेन स्वर्ण बांड 2019-20 शृंखला I/II/III/IV हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।
- (घ) एकल धारक या सभी संयुक्त धारक, बांडों के अधिकारों के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकते हैं।
- (ङ) नामांकन को निर्गम कार्यालय में पंजीकृत किया जाएगा तथा धारक को पंजीकृत प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (च) नए सिरे से नामांकन को पंजीकृत कराकर इसे बदला जा सकता है।
- (छ) मौजूदा नामांकन को निवेश कार्यालय को अनुरोध करके निरस्त कराया जा सकता है।
- (ज) निवेशक प्रत्येक निर्मोचन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पांच स्पष्ट कार्य दिवसों के भीतर धनराशि की अदायगी प्राप्त करने के लिए पात्र है।

यदि बैंक उपर्युक्त का अनुपालन नहीं करता है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक के निकटतम कार्यालय में निम्नलिखित को शिकायत कर सकते हैं:

**क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
ग्राहक सेवा विभाग/
बैंकिंग लोकपाल
(पता)**

आप अपनी शिकायत निम्नलिखित को भी भेज सकते हैं:

**मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी
आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग
केंद्रीय कार्यालय
फोर्ट, मुम्बई - 400 008, महाराष्ट्र**

घोषणा: मैंने निवेशकों के लिए सूचना के ब्यौरे और निवेशकों के अधिकार और कर्तव्य पढ़ और समझ लिए हैं। एजेंट/बैंक ने स्कीम की विशेषताओं की जानकारी दे दी है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ख'

[पैराग्राफ 5 (4) देखें]

प्राप्ति की रसीद

आवेदन सं.....

दिनांक...../...../.....

श्री/श्रीमती/सुश्री.....सेरुपये
 (मात्र.....रुपये) के अंकित मूल्य के आधार पर देय ब्याज
 पर, 8 वर्ष की अवधि हेतु सॉवरेन स्वर्ण बाण्ड 2019-20 शृंखला I/II/III/IV के क्रय के लिए रु.
 (मात्र.....रुपये) की कुल राशि के ग्राम हेतु (बैंक
 और शाखा) के नाम आहरित नकद/डिमांड ड्राफ्ट/चेक संख्या/ इलेक्ट्रॉनिक अंतरण.....दिनांक
प्राप्त हुए।

(प्राप्तकर्ता कार्यालय की मुहर/सील)

Form 'C'

[See paragraph 6 (1)]



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड) 2019-20 – सीरिज़ I/II/III/IV

SOVEREIGN GOLD BOND 2019-20– Series I/II/III/IV

Certificate Number-

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/ श्रीमती _____ यूनिट राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड) 2019-20 – सीरिज़ I/II/III/IV के कुल प्रारंभिक निवेश ₹ _____ के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूँ। राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2019-20 – सीरिज़ I/II/III/IV के प्रारंभिक निवेश पर प्रति वर्ष _____ प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका संदाय प्रति छह माह पर ----- तारीख और ----- तारीख को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बंधपत्र ---- को उन्मोचनीय होगा और बंधपत्र के समय पूर्व उन्मोचन का विकल्प पांच वर्ष बाद ब्याज भुगतान की तारीखों को उपलब्ध होगा।

I hereby certify that, Smt. /Shri -----

is the registered holder of ----- units of Sovereign Gold Bond 2019-20 – Series I/II/III/IV. The Sovereign Gold Bond 2019-20 – Series –I/II/III/IV will bear interest at ----- percent per annum on initial investment of ₹-----, payable at half yearly intervals on ----- and ----- every year. The Bonds are redeemable on ----- with the option for early redemption after fifth year on interest payment dates.

आवेदन प्राप्तकर्ता कार्यालय

Application Receiving Office

यह प्रमाणपत्र प्रणाली आधारित है अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।

This is a system generated certificate and does not require any signature.

प्रपत्र 'घ'

[पैरा 16 देखें]

नामांकन

मैं/हम ----- (नाम और पता), ऋण ----- के लिए स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या ----- के धारक एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करते हैं जिनके पास मेरी/हमारी मृत्यु होने पर सरकारी प्रतिभूति/बांड का अधिकार होगा और जो सरकारी प्रतिभूतियों/ बांडों पर देय राशि का तत्समय भुगतान प्राप्त करेंगे:

नामिती का विवरण:

जारी करने के तारीख	राशि रुपए में	भुगतान की तारीख	नामिती का पूरा और पता	यदि अवयस्क है तो जन्म तिथि	धारक/कों के साथ रिश्ता	बैंक खाते का विवरण

नामिती अवयस्क होने पर भरा जाएगा: जैसा कि ----- उपर्युक्त मुख्य नामिती इस तारीख को अवयस्क है, मैं/हम ----- उपर्युक्त नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु होने की स्थिति में श्री/श्रीमती/कुमारी----- को सरकारी प्रतिभूति/बांडों पर देय राशि तत्समय प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

यदि नामांकन पहले किए हुए नामांकन का प्रतिस्थापन है तो: यह नामांकन मेरे/हमारे द्वारा किए गए नामांकन तारीख ----- का प्रतिस्थापन है और आपकी पुस्तक ----- में पंजीकृत है, जो इस नामांकन के पंजीकरण पर रद्द माना जाएगा।

स्थान:-----

(स्टॉक प्रमाणपत्र/ बीएलए धारक के हस्ताक्षर)

तारीख -----

गवाहों के नाम, पता और हस्ताक्षर

1-----

2-----

पावती

हम ----- (नामिती का नाम) के पक्ष में स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या -----, ऋण ----- हेतु और ----- पंजीकृत नामांकन करने की अभिस्वीकृति देता हूँ और नामांकन पंजीकरण ----- है।

कृपया नामांकन में बदलाव या निरसन के संप्रेषण में उपर्युक्त नामांकन का उल्लेख करें।

दिनांक -----

प्राधिकृत अधिकारी -----

प्रपत्र 'ड'

(पैराग्राफ 16 देखें)

नामांकन का निरसन

मैं/हम (नाम और पता) एतद्वारा तारीख का मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित स्टॉक प्रमाणपत्र/बांड लेजर खाता संख्या और अभिकरण बैंक के लोक ऋण कार्यालय/शाखा द्वारा (तारीख) की पंजीकरण संख्या द्वारा पंजीकृत किए गए नामांकन को रद्द करता हूँ/करते हैं।

स्टॉक प्रमाणपत्र/बांडों के विवरण

निर्गम की तारीख	उधार का शीर्षक	स्टॉक प्रमाणपत्र/ बीएलए संख्या	धनराशि (रुपए)

स्थान:

(स्टॉक प्रमाणपत्र धारक(कों)/

तारीख:

बीएलए धारक (कों) के हस्ताक्षर)

गवाहों के नाम सहित हस्ताक्षर और उनका पता:

1.

2.

अभिस्वीकृति

हम, उधार के लिए स्टॉक प्रमाणपत्र/बीएलए संख्या के लिए हमारी नामांकन पंजीकरण संख्या तारीख द्वारा दर्ज किए गए ----- (नामितियों के नाम) के पक्ष में नामांकन को रद्द करने की अभिस्वीकृति करते हैं।

तारीख:

अधिकृत अधिकारी

प्रपत्र 'च'

(पैराग्राफ 17 देखें)

स्टॉक प्रमाणपत्रों का हस्तांतरण

मैं/हम* (अंतरक) एतद्वारा अंतर्लिखित स्टॉक प्रमाणपत्र संख्या की में, के सरकारी ऋण में प्रतिशत, जो रुपए बैठता है, रुपए की धनराशि होने पर/..... रुपए के लिए शेयर का भाग इस लिखत के मुख पृष्ठ पर यथा विनिर्दिष्ट उस पर अर्जित ब्याज के साथ अपना/हमारा* हिस्सा या शेयर (अंतरिती/यों), उसके/उनके* निष्पादनकर्ताओं, प्रशासकों या समनुदेशकों को सुपुर्द और अंतरित करता हूँ/करते हैं, और मैं/हम* स्टॉक प्रमाणपत्र संख्या ----- को मुझे/हमें* हस्तांतरित किए गए आशय तक मुक्त रूप से स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम* अंतरिती एतद्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें हस्तांतरित किए स्टॉक के मेरे/हमारे पंजीकृत शेयर धारक होने के कारण*, मुझे/हमें हस्तांतरित किए गए आशय तक उपर्युक्त स्टॉक प्रमाणपत्र मेरे/हमारे* नाम(मों) पर नवीकरण कर दिया जाए/ मेरे/हमारे* नाम(मों) पर परिवर्तित कर दिया जाए।

@ मैं/हम* (अंतरक) एतद्वारा यह अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त अंतरिती(यों) के संबंध में उसे/उन्हें* एतद्वारा हस्तांतरित किए गए स्टॉक के पंजीकृत शेयर धारक होने के कारण, उसे/उन्हें* हस्तांतरित नहीं किए गए आशय तक उपर्युक्त स्टॉक प्रमाणपत्र मेरे/हमारे* नाम(मों) पर नवीकृत कर दिया जाए।

गवाह के रूप में, आज (दिन) (माह) दो हजार को हस्ताक्षर किए/अंगूठा लगाया।

..... ** की उपस्थिति में उपर्युक्त नामतः अंतरक द्वारा हस्ताक्षर किए गए।	अंतरक के हस्ताक्षर पता.....
..... ** की उपस्थिति में उपर्युक्त नामतः अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किए गए।	अंतरिती के हस्ताक्षर

*: जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

@: इस पैराग्राफ का प्रयोग केवल तभी किया जाना है जब इस प्रमाणपत्र का आंशिक रूप से हस्तांतरण हो।

**: गवाह के हस्ताक्षर, व्यवसाय और पता। गवाह अंतरक और अंतरिती से अलग होना चाहिए।

अंतरित:

स्टॉक प्रमाणपत्र जारी किया गया संख्या तारीख

प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध I

राष्ट्रीयकृत बैंक		अनुसूचित निजी बैंक	
1	भारतीय स्टेट बैंक	1	एक्सिस बैंक लिमिटेड
2	इलाहाबाद बैंक	2	कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
3	आंध्रा बैंक	3	सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
4	बैंक ऑफ़ बडौदा	4	डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड
5	बैंक ऑफ़ इंडिया	5	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
6	बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र	6	फेडरल बैंक लिमिटेड
7	केनरा बैंक	7	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
8	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया	8	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
9	कॉर्पोरेशन बैंक	9	इंडसइंड बैंक लिमिटेड
10	देना बैंक	10	जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड
11	इंडियन बैंक	11	कर्नाटक बैंक लिमिटेड
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	12	करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
13	ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स	13	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
14	पंजाब नेशनल बैंक	14	लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
15	पंजाब एंड सिंध बैंक	15	नैनीताल बैंक लिमिटेड
16	सिंडिकेट बैंक	16	रत्नाकर बैंक लिमिटेड
17	यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया	17	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
18	यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया	18	तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक लिमिटेड
19	यूको बैंक	19	यस बैंक लिमिटेड
20	विजया बैंक	20	बंधन बैंक
21	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	21	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड

अनुसूचित विदेशी बैंक			
1	दा रॉयल बैंक स्कॉटलैंड एनवी	23	मिजुहो कारपोरेट बैंक लिमिटेड
2	अबू धाबी कमर्शियल बैंक लिमिटेड	24	ओमान इंटरनेशनल बैंक
3	एंटरप्राइज डायमंड बैंक एनवी	25	सोसाइटी जेनरल
4	अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड (एबी बैंक)	26	सोनाली बैंक
5	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	27	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
6	बैंक ऑफ अमेरिका	28	स्टेट बैंक आफ मॉरीशस
7	बैंक आफ बहरीन और कुवैत बीएससी	29	जेएससी - वीटीबी बैंक
8	बैंक आफ सीलोन	30	यूबीएस एजी
9	बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया	31	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन
10	बैंक ऑफ टोक्यो-मिजुबिशी लिमिटेड	32	फस्ट रैंड बैंक लिमिटेड
11	बार्कलेस बैंक	33	कॉमनवेल्थ बैंक आफ ऑस्ट्रेलिया
12	बीएनपी पारिबास	34	यूनाइटेड ओवरसीज बैंक लिमिटेड
13	चीन ट्रस्ट बैंक	35	क्रेडिट सुइस एजी
14	शिनहन बैंक	36	सबेर बैंक
15	सिटीबैंक एनए	37	ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप लिमिटेड
16	क्रेडिट एग्रीकोल कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक	38	राबोबैंक इंटरनेशनल
17	ड्यूश बैंक	39	नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक
18	डीबीएस बैंक लिमिटेड	40	वूरी बैंक
19	हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	41	इंडस्ट्रियल एंड कामर्सियल बैंक आफ चाइना
20	जेपी मॉर्गन चेस बैंक एनए	42	सुमितोमो मिजुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
21	क्रुंग थाई बैंक	43	वेस्टपैक बैंकिंग कॉर्पोरेशन
22	मशरेक बैंक	44	दोहा बैंक

अनुबंध II

गिन्नी के गोल्ड बॉन्ड की बिक्री के लिए पहचान डाकघरों की सूची							
क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र	डिविजन	मुख्यालय	कार्यालय के नाम	कार्यालय प्रकार	पिन
1	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	एचओ	532,001
2	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	श्रीकाकुलम	तेकल्ली	तेकल्ली	एचओ	532,201
3	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	नेल्लोर	नेल्लोर	नेल्लोर	एचओ	524,001
4	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	अमलापुरम	अमलापुरम	अमलापुरम	एचओ	533,201
5	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	अमलापुरम	राजोल	राजोल	एचओ	533,242
6	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	हैदराबाद दक्षिण पूर्व	हैदराबाद जयंती	हैदराबाद जयंती	एचओ	500,002
7	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	सिकंदराबाद	सिकंदराबाद	सिकंदराबाद	एचओ	500003
8	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा	एचओ	520,001
9	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	तिरुपति	तिरुपति	तिरुपति	एचओ	517,501
10	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	भीमावरम	टनुकु	टनुकु	एचओ	534,211
11	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	नरसरावपेट	नरसरावपेट	नरसरावपेट	एचओ	522,601
12	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	राजमंदरी	राजामंदरी	राजामंदरी	एचओ	533,101
13	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	राजमंदरी	रामचंद्रपुरम	रामचंद्रपुरम	एचओ	533,255
14	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	खम्मम	खम्मम	खम्मम	एचओ	507,001
15	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	नेल्लोर	कवाली	कवाली	एचओ	524,201
16	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	गुंटूर	मंगलागिरी	मंगलागिरी	एचओ	522,503
17	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	तेनाली	तेनाली	तेनाली	एचओ	522,201
18	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	विशिनोग्राम	विशिनोग्राम	विशिनोग्राम	एचओ	535,002
19	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुरनूल	कुरनूल	कुरनूल	एचओ	518001
20	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	तिरुपति	श्री कालहस्ती	श्री कालहस्ती	एचओ	517,644
21	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	काकीनाडा	काकीनाडा	काकीनाडा	एचओ	533,001
22	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	मछलीपतनम	मछलीपतनम	मछलीपतनम	एचओ	521,001
23	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	गुडिवाडा	गुडिवाडा	गुडिवाडा	एचओ	521,301
24	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	गुंटूर	गुंटूर	गुंटूर	एचओ	522,002
25	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	भीमावरम	पालाकोल	पालाकोल	एचओ	534,260
26	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	आदिलाबाद	आदिलाबाद	आदिलाबाद	एचओ	504,001
27	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निजामाबाद	निजामाबाद	निजामाबाद	एचओ	503,001
28	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	नांदयाल	नांदयाल	नांदयाल	एचओ	518,501
29	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	नरसरावपेट	सत्तेनापल्ली	सत्तेनापल्ली	एचओ	522,403
30	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुडप्पा	राजमपेट	राजमपेट	एचओ	516,115
31	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुरनूल	अदोनी	अदोनी	एचओ	518,301
32	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	गुडिवाडा	नुज्विद	नुज्विद	एचओ	521,201
33	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	मछलीपतनम	अवनीगाड्डा	अवनीगाड्डा	एचओ	521,121
34	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मेडक	मेडक	मेडक	एचओ	502,110

35	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	नलगोंडा	नलगोंडा	नलगोंडा	एचओ	508,001
36	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निजामाबाद	कामारेड्डी	कामारेड्डी	एचओ	503,111
37	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	अनन्तपुर	गुंतकल	गुंतकल	एचओ	515,801
38	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	महबूबनगर	महबूबनगर	महबूबनगर	एचओ	509,001
39	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	नलगोंडा	भोंगीर	भोंगीर	एचओ	508,116
40	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	वारंगल	वारंगल	वारंगल	एचओ	506,002
41	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	अनन्तपुर	अनंतपुर	अनंतपुर	एचओ	515,001
42	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	तिरुपति	चंद्रगिरी	चंद्रगिरी	एचओ	517,101
43	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हनमकोंडा	हनमकोंडा	हनमकोंडा	एचओ	506,001
44	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	करीमनगर	करीमनगर	करीमनगर	एचओ	505,001
45	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	निजामाबाद	अरमूर	अरमूर	एचओ	503,224
46	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	ताडेपल्लीगुडेम	ताडेपल्लीगुडेम	ताडेपल्लीगुडेम	एचओ	534,101
47	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हनमकोंडा	जंगों	जंगों	एचओ	506,167
48	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पेद्दापल्ली	पेद्दापल्ली	पेद्दापल्ली	एचओ	505,172
49	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	संगारेड्डी	संगारेड्डी	संगारेड्डी	एचओ	502,001
50	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	वानापारथी	वानापारथी	वानापारथी	एचओ	509,103
51	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	वारंगल	महबुबाबाद	महबुबाबाद	एचओ	506,101
52	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	एलुरु	एलुरु	एलुरु	एचओ	534,001
53	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा	भूकिंगमपेट	भूकिंगमपेट	एचओ	520,002
54	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	करीमनगर	जगतीयल	जगतीयल	एचओ	505,327
55	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सूर्यपिट	सूर्यपिट	सूर्यपिट	एचओ	508,213
56	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	हैदराबाद शहर	खैरताबाद	खैरताबाद	एचओ	500,004
57	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	कुडप्पा	कुडप्पा	कुडप्पा	एचओ	516,001
58	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	भीमावरम	भीमावरम	भीमावरम	एचओ	534,201
59	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	खम्मम	भद्राचलम	भद्राचलम	एचओ	507,111
60	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पार्वतीपुरम	बोव्विली	बोव्विली	एचओ	535,558
61	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	पार्वतीपुरम	पार्वतीपुरम	पार्वतीपुरम	एचओ	535,501
62	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मेडक	सिद्दीपेट	सिद्दीपेट	एचओ	502,103
63	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	पेद्दापल्ली	हुजुराबाद	हुजुराबाद	एचओ	505,468
64	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	चित्तूर	चित्तूर	चित्तूर	एचओ	517,001
65	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	प्रकाशम	चिरला	चिरला	एचओ	523,155
66	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	काकीनाडा	समालकोट	समालकोट	एचओ	533,440
67	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	एचओ	530,001
68	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	प्रकाशम	कांडुकुर	कांडुकुर	एचओ	523,105
69	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	संगारेड्डी	जहीराबाद	जहीराबाद	एचओ	502,220
70	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	सिकंदराबाद	त्रिमुलघेरी	त्रिमुलघेरी	एचओ	500,015
71	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	प्रकाशम	ओंगोल	ओंगोल	एचओ	523,001
72	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	ताडेपल्लीगुडेम	कोव्वुर	कोव्वुर	एचओ	534,350

73	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	तेनाली	बापतला	बापतला	एचओ	522,101
74	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	अनाकापाले	अनाकापाले	अनाकापाले	एचओ	531001
75	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	अनाकापाले	नरसीपत्तनम	नरसीपत्तनम	एचओ	531,116
76	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हनमकोंडा	पारकल	पारकल	एचओ	506,164
77	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	सूर्यपिट	मिर्यालगुडा	मिर्यालगुडा	एचओ	508,207
78	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	हैदराबाद जीपीओ	हैदराबाद जीपीओ	हैदराबाद जीपीओ	एचओ	500,001
79	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	हिन्दुपुर	धर्मावरम	धर्मावरम	एचओ	515,671
80	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	एलुरु	जंगरेड्डीगुडेम	जंगरेड्डीगुडेम	एचओ	534,447
81	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	खम्मम	कोठागुडम काल्स	कोठागुडम काल्स	एचओ	507,101
82	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	श्रीकाकुलम	अमादालावालासा	अमादालावालासा	एचओ	532,185
83	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	आदिलाबाद	मनचेरियल	मनचेरियल	एचओ	504,208
84	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	महबूबनगर	गडवाल	गडवाल	एचओ	509,125
85	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	वानापारथी	स्टेशन। जदचेरला	स्टेशन। जदचेरला	एचओ	509,301
86	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	नांदयाल	मरकापुर	मरकापुर	एचओ	523,316
87	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	गुडुर	गुडुर	गुडुर	एचओ	524,101
88	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	प्रकाशम	कानिगिरी	कानिगिरी	एचओ	523,230
89	आंध्र प्रदेश	विशाखापत्तनम	विशाखापत्तनम	वाल्टेयर आर.एस.	वाल्टेयर आर.एस.	एचओ	530,004
90	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	हैदराबाद दक्षिण पूर्व	स्टेशन। कांचीगुडा	स्टेशन। कांचीगुडा	एचओ	500027
91	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद शहर	सिकंदराबाद	विकाराबाद	विकाराबाद	एचओ	501,101
92	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	हिन्दुपुर	हिन्दुपुर	हिन्दुपुर	एचओ	515,201
93	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	प्रोद्दुतुर	पुलीवेंदला	पुलीवेंदला	एचओ	516,390
94	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	चितूर	मदनपल्ली	मदनपल्ली	एचओ	517,325
95	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	प्रोद्दुतुर	प्रोद्दुतुर	प्रोद्दुतुर	एचओ	516,360
96	असम	गुवाहाटी मुख्यालय	गुवाहाटी	गुवाहाटी	गुवाहाटी	एचओ	781,001
97	असम	डिब्रूगढ़	दरांग	तेजपुर	तेजपुर	एचओ	784,001
98	असम	डिब्रूगढ़	नागांव	नागांव	नागांव	एचओ	782,001
99	असम	डिब्रूगढ़	तिनसुकिया	तिनसुकिया	तिनसुकिया	एचओ	786125
100	असम	डिब्रूगढ़	दरांग	मंगलदोई	मंगलदोई	एचओ	784,125
101	असम	डिब्रूगढ़	शिवसागर	गोलाघाट	गोलाघाट	एचओ	785,621
102	असम	डिब्रूगढ़	शिवसागर	जोरहाट	जोरहाट	एचओ	785,001
103	असम	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	एचओ	786,001
104	असम	डिब्रूगढ़	शिवसागर	शिवसागर	शिवसागर	एचओ	785,640
105	असम	गुवाहाटी मुख्यालय	नलबाड़ी	नलबाड़ी	नलबाड़ी	एचओ	781,335
106	असम	गुवाहाटी मुख्यालय	गुवाहाटी	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	एचओ	781,014
107	असम	गुवाहाटी मुख्यालय	नलबाड़ी	बारपेटा	बारपेटा	एचओ	781,301
108	असम	डिब्रूगढ़	डिब्रूगढ़	लखीमपुर	लखीमपुर	एचओ	787,001

109	असम	डिब्रूगढ़	कछार	सिलचर	सिलचर	एचओ	788,001
110	असम	डिब्रूगढ़	नागांव	दिफू	दिफू	एचओ	782,460
111	असम	डिब्रूगढ़	कछार	करीमगंज	करीमगंज	एचओ	788,710
112	असम	गुवाहाटी मुख्यालय	गोलपाड़ा	कोकराझार	कोकराझार	एचओ	783,370
113	असम	गुवाहाटी मुख्यालय	गोलपाड़ा	धुबरी	धुबरी	एचओ	783,301
114	असम	डिब्रूगढ़	कछार	हैलाकांडी	हैलाकांडी	एचओ	788,151
115	बिहार	पटना मुख्यालय	पटना	बांकीपुर	बांकीपुर	एचओ	800,004
116	बिहार	पटना मुख्यालय	भोजपुर	आरा	आरा	एचओ	802,301
117	बिहार	पटना मुख्यालय	भागलपुर	भागलपुर	भागलपुर	एचओ	812,001
118	बिहार	पटना मुख्यालय	मुंगेर	मुंगेर	मुंगेर	एचओ	811,201
119	बिहार	पटना मुख्यालय	नालंदा	बिहारशरीफ	बिहारशरीफ	एचओ	803,101
120	बिहार	मुजफ्फरपुर	मधुबनी	मधुबनी	मधुबनी	एचओ	847,211
121	बिहार	मुजफ्फरपुर	दरभंगा	दरभंगा	दरभंगा	एचओ	846,004
122	बिहार	मुजफ्फरपुर	सहरसा	सहरसा	सहरसा	एचओ	852,201
123	बिहार	पटना मुख्यालय	भागलपुर	बांका	बांका	एचओ	813,102
124	बिहार	पटना मुख्यालय	पटना जीपीओ	पटना जीपीओ	पटना जीपीओ	एचओ	800001
125	बिहार	मुजफ्फरपुर	पूर्णिया	कटिहार	कटिहार	एचओ	854,105
126	बिहार	मुजफ्फरपुर	पूर्णिया	पूर्णिया	पूर्णिया	एचओ	854,301
127	बिहार	मुजफ्फरपुर	सरन	छपरा	छपरा	एचओ	841,301
128	बिहार	मुजफ्फरपुर	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	एचओ	843,301
129	बिहार	मुजफ्फरपुर	सीवान	सीवान	सीवान	एचओ	841,226
130	बिहार	पटना मुख्यालय	औरंगाबाद (बिहार)	औरंगाबाद (बिहार)	औरंगाबाद (बिहार)	एचओ	824,101
131	बिहार	पटना मुख्यालय	भोजपुर	बक्सर	बक्सर	एचओ	802,101
132	बिहार	पटना मुख्यालय	गया	जहानाबाद	जहानाबाद	एचओ	804,408
133	बिहार	पटना मुख्यालय	मुंगेर	जमुई	जमुई	एचओ	811,307
134	बिहार	मुजफ्फरपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर	समस्तीपुर	एचओ	848,101
135	बिहार	मुजफ्फरपुर	बेगूसराय	बेगूसराय	बेगूसराय	एचओ	851,101
136	बिहार	मुजफ्फरपुर	सरन	मरहोबरा	मरहोबरा	एचओ	841,418
137	बिहार	मुजफ्फरपुर	पूर्वी चंपारण	मोतिहारी	मोतिहारी	एचओ	845,401
138	बिहार	मुजफ्फरपुर	पश्चिम चंपारण	बेतिया	बेतिया	एचओ	845,438
139	बिहार	पटना मुख्यालय	नवादा	नवादा	नवादा	एचओ	805,110
140	बिहार	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	एचओ	842,001
141	बिहार	मुजफ्फरपुर	सीवान	गोपालगंज	गोपालगंज	एचओ	841,428
142	बिहार	पटना मुख्यालय	गया	गया	गया	एचओ	823,001
143	बिहार	मुजफ्फरपुर	दरभंगा	लहेरीसराय	लहेरीसराय	एचओ	846,001
144	बिहार	पटना मुख्यालय	रोहतास	सासाराम	सासाराम	एचओ	821,115
145	बिहार	पटना मुख्यालय	वैशाली	हाजीपुर	हाजीपुर	एचओ	844,101
146	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायपुर	रायपुर	रायपुर	एचओ	492,001

147	छत्तीसगढ़	रायपुर	बिलासपुर	बिलासपुर -बिलासपुर) सीजीएच)	बिलासपुर -बिलासपुर) सीजीएच)	एचओ	495,001
148	छत्तीसगढ़	रायपुर	बस्तर	जगदलपुर	जगदलपुर	एचओ	494,001
149	छत्तीसगढ़	रायपुर	दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग	एचओ	491,001
150	छत्तीसगढ़	रायपुर	बिलासपुर	कोरबा	कोरबा	एचओ	495,677
151	छत्तीसगढ़	रायपुर	बस्तर	कांकेर	कांकेर	एचओ	494,334
152	छत्तीसगढ़	रायपुर	दुर्ग	राजनांदगांव	राजनांदगांव	एचओ	491,441
153	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़	एचओ	496,001
154	छत्तीसगढ़	रायपुर	रायगढ़	अंबिकापुर	अंबिकापुर	एचओ	497,001
155	छत्तीसगढ़	रायपुर	दुर्ग	आईबीएसबी भिलाईएचओ	आईबीएसबी भिलाई	एचओ	490,001
156	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली जीपीओ	दिल्ली जीपीओ	दिल्ली जीपीओ	एचओ	110006
157	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली केंद्रीय	इंद्रप्रस्थ	इंद्रप्रस्थ	एचओ	110002
158	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली केंद्रीय	संसद मार्ग	संसद मार्ग	एचओ	110001
159	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली पूर्व	झिलमिल	झिलमिल	एचओ	110,095
160	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली दक्षिण पश्चिम	सरोजिनी नगर	सरोजिनी नगर	एचओ	110,023
161	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली पश्चिमी	नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट	नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट	एचओ	110,028
162	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली दक्षिण	लोदी रोड	लोदी रोड	एचओ	110003
163	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली पूर्व	कृष्णा नगर	कृष्णा नगर	एचओ	110051
164	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली पश्चिमी	रमेश नगर	रमेश नगर	एचओ	110015
165	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली जीपीओ	नई दिल्ली जीपीओ	नई दिल्ली जीपीओ	एचओ	110001
166	दिल्ली	दिल्ली	नई दिल्ली दक्षिण	कालकाजी	कालकाजी	एचओ	110019
167	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली उत्तर	अशोक विहार	अशोक विहार	एचओ	110052
168	गुजरात	राजकोट	भावनगर	भावनगर	भावनगर	एचओ	364,001
169	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	गांधीनगर	गांधी नगर	गांधी नगर (गुजरात)	एचओ	382,010
170	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	अहमदाबाद शहर	नवरंगपुरा	नवरंगपुरा	एचओ	380009
171	गुजरात	वडोदरा	खेड़ा	खेड़ा	खेड़ा	एचओ	387,411
172	गुजरात	राजकोट	जूनागढ़	जूनागढ़	जूनागढ़	एचओ	362,001
173	गुजरात	वडोदरा	भरूच	भरूच	भरूच	एचओ	392,001
174	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	मेहसाणा	मेहसाणा	मेहसाणा	एचओ	384,001
175	गुजरात	राजकोट	गोंडल	गोंडल	गोंडल	एचओ	360,311
176	गुजरात	वडोदरा	आनन्द	आनंद	आनंद	एचओ	388,001
177	गुजरात	राजकोट	सुरेंद्रनगर	सुरेंद्रनगर	सुरेंद्रनगर	एचओ	363,001
178	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा पूर्व	दभोई	दभोई	एचओ	391,110
179	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	साबरकांठा	हिम्मतनगर	हिम्मतनगर	एचओ	383,001
180	गुजरात	राजकोट	पोरबंदर	पोरबंदर	पोरबंदर	एचओ	360,575
181	गुजरात	वडोदरा	खेड़ा	नाडियाद	नाडियाद	एचओ	387001

182	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	गांधीनगर	कलोल	कलोल	एचओ	382,721
183	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	पाटन	पाटन	पाटन	एचओ	384,265
184	गुजरात	वडोदरा	नवसारी	नवसारी	नवसारी	एचओ	396,445
185	गुजरात	वडोदरा	वारदोली	वारदोली	वारदोली	एचओ	394,601
186	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	अहमदाबाद शहर	रेवड़ीबाजार	रेवड़ीबाजार	एचओ	380,002
187	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	गांधीनगर	ढोलका	ढोलका	एचओ	382,225
188	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	वनसंकटा	पालनपुर	पालनपुर	एचओ	385,001
189	गुजरात	अहमदाबाद मुख्यालय	अहमदाबाद जीपीओ	अहमदाबाद जीपीओ	अहमदाबाद जीपीओ	एचओ	380,001
190	गुजरात	राजकोट	जामनगर	जामनगर	जामनगर	एचओ	361,001
191	गुजरात	राजकोट	कच्छ	भुज	भुज	एचओ	370,001
192	गुजरात	राजकोट	राजकोट	राजकोट	राजकोट	एचओ	360001
193	गुजरात	वडोदरा	सूरत	ननपुरा	ननपुरा	एचओ	395,001
194	गुजरात	वडोदरा	सूरत	सूरत	सूरत	एचओ	395,003
195	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा पूर्व	वडोदरा	वडोदरा	एचओ	390001
196	गुजरात	राजकोट	अमरेली	अमरेली	अमरेली	एचओ	365,601
197	गुजरात	वडोदरा	नवसारी	बिलिमोरा	बिलिमोरा	एचओ	396,321
198	गुजरात	वडोदरा	पंचमहल	दाहोद	दाहोद	एचओ	389,151
199	गुजरात	वडोदरा	पंचमहल	गोधरा	गोधरा	एचओ	389,001
200	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा पश्चिम	फतेगनी	फतेगनी	एचओ	390,002
201	गुजरात	वडोदरा	वलसाड	वलसाड	वलसाड	एचओ	396,001
202	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	अम्बाला	अंबाला जीपीओ	अंबाला जीपीओ	एचओ	133,001
203	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	कुरुक्षेत्र	एचओ	136,118
204	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	फरीदाबाद	फरीदाबाद एनआईटी	फरीदाबाद एनआईटी	एचओ	121,001
205	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	करनाल	करनाल	करनाल	एचओ	132,001
206	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	अम्बाला	अंबाला शहर	अंबाला शहर	एचओ	134,003
207	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	गुडगाँव	गुडगाँव	गुडगाँव	एचओ	122001
208	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	रोहतक	रोहतक	रोहतक	एचओ	124,001
209	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	सोनीपत	सोनीपत	सोनीपत	एचओ	131,001
210	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	रोहतक	बहादुरगढ़	बहादुरगढ़	एचओ	124,507
211	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	हिसार	हिसार	हिसार	एचओ	125001
212	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	भिवानी	भिवानी	भिवानी	एचओ	127,021
213	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	करनाल	पानीपत	पानीपत	एचओ	132,103
214	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	करनाल	जींद	जींद	एचओ	126,102
215	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	हिसार	सिरसा	सिरसा	एचओ	125,055
216	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	अम्बाला	यमुनानगर	यमुनानगर	एचओ	135,001
217	हरियाणा	अम्बाला मुख्यालय	गुडगाँव	नारनौल	नारनौल एचओ	एचओ	123,001
218	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	शिमला	शिमला जीपीओ	शिमला जीपीओ	एचओ	171,001

219	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	धर्मशाला	धर्मशाला	धर्मशाला	एचओ	176,215
220	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	मंडी	मंडी	मंडी	एचओ	175,001
221	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	देहरादून गोपीपुर	देहरादून	देहरादून	एचओ	177,101
222	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	देहरादून गोपीपुर	कांगड़ा	कांगड़ा	एचओ	176,001
223	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	धर्मशाला	पालमपुर	पालमपुर	एचओ	176,061
224	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	हमीरपुर	बरसार	बरसार	एचओ	174,305
225	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	हमीरपुर	बिलासपुर बिलासपुर) - एचपी(बिलासपुर बिलासपुर) - एचपी(एचओ	174,001
226	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	सोलन	एक प्रकार का हंस	एक प्रकार का हंस	एचओ	173,212
227	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	रामपुर बुशहर	रामपुर बुशहर	रामपुर बुशहर	एचओ	172,001
228	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	मंडी	कुल्लू	कुल्लू	एचओ	175,101
229	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	सोलन	नाहन	नाहन	एचओ	173,001
230	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	हमीरपुर	हमीरपुर	हमीरपुर	एचओ	177,001
231	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	ऊना	ऊना	ऊना	एचओ	174,303
232	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	मंडी	सुंदर नगर टाउन शिप	सुंदर नगर टाउन शिप	एचओ	175,019
233	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	चंबा	चंबा	चंबा एचओ	एचओ	176,310
234	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	मंडी	केलांग	केलांग एचओ	एचओ	175,132
235	हिमाचल प्रदेश	शिमला मुख्यालय	रामपुर बुशहर	रिकांग पिओ	रिकांग पिओ एचओ	एचओ	172,107
236	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	जम्मू	गांधी नगर	गांधी नगर (जम्मू)	एचओ	180,004
237	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	जम्मू	कठुआ	कठुआ	एचओ	184,101
238	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	बारामूला	बारामूला	बारामूला	एचओ	193,101
239	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	श्रीनगर	अनंतनाग	अनंतनाग	एचओ	192,101
240	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	उधमपुर	उधमपुर	उधमपुर	एचओ	182,101
241	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	जम्मू	जम्मू	जम्मू	एचओ	180,001
242	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	श्रीनगर	श्रीनगर जीपीओ	श्रीनगर जीपीओ	एचओ	190,001
243	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	राजौरी	राजौरी	राजौरी	एचओ	185,131
244	जम्मूकश्मीर-	श्रीनगर मुख्यालय	लद्दाख	लेह	लेह	एचओ	194,101
245	झारखंड	रांची	रांची	डोरंडा	डोरंडा	एचओ	834,002
246	झारखंड	रांची	रांची	रांची जीपीओ	रांची जीपीओ	एचओ	834001
247	झारखंड	रांची	धनबाद	धनबाद	धनबाद	एचओ	826,001
248	झारखंड	रांची	सिंहभूम	चाईबासा	चाईबासा	एचओ	833,201
249	झारखंड	रांची	धनबाद	बोकारो स्टील सिटी	बोकारो स्टील सिटी	एचओ	827,001
250	झारखंड	रांची	सिंहभूम	जमशेदपुर	जमशेदपुर	एचओ	831001
251	झारखंड	रांची	हजारीबाग	हजारीबाग	हजारीबाग	एचओ	825,301
252	झारखंड	रांची	हजारीबाग	रामगढ़ कैट	रामगढ़ कैट	एचओ	829,122
253	झारखंड	रांची	पलामू	डाल्टनगंज	डाल्टनगंज	एचओ	822101
254	झारखंड	रांची	रांची	गुमला	गुमला	एचओ	835,207
255	झारखंड	रांची	गिरिडीह	गिरिडीह	गिरिडीह	एचओ	815,301

256	झारखंड	रांची	संथाल परगना	दुमका	दुमका	एचओ	814,101
257	झारखंड	रांची	संथाल परगना	बी.देवघर	बी.देवघर	एचओ	814,112
258	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	बेंगलूर पूर्व	एचएएल द्वितीय स्टेज	एचएएल द्वितीय स्टेज	एचओ	560,008
259	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	बेंगलूर पूर्व	आर टी नगर	आर टी नगर	एचओ	560,032
260	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	कारवार	कारवार	कारवार	एचओ	581,301
261	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	कोलार	कोलार	कोलार	एचओ	563,101
262	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	हसन	हसन	हसन	एचओ	573,201
263	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	सिरसी	सिरसी	सिरसी	एचओ	581,401
264	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	मांड्या	मांड्या	मांड्या	एचओ	571,401
265	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	नंजनगुड	नंजनगुड	नंजनगुड	एचओ	571,301
266	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	कोलार	चिकवालापुर	चिकवालापुर	एचओ	562,101
267	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	नंजनगुड	कोल्लेगल	कोल्लेगल	एचओ	571,440
268	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	धारवाड़	धारवाड़	धारवाड़	एचओ	580,001
269	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	हसन	अर्सिकेरे	अर्सिकेरे	एचओ	573,103
270	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	चन्नापटना	चन्नापटना	चन्नापटना	एचओ	562,160
271	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बेल्लारी	बेल्लारी	बेल्लारी	एचओ	583,101
272	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	बेंगलुरु जीपीओ	बंगलौर जीपीओ	बंगलौर जीपीओ	एचओ	560001
273	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	बेंगलुरु दक्षिण	जयनगर	जयनगर	एचओ	560,041
274	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	पुत्तूर	पुत्तूर (डीके)	पुत्तूर (डीके)	एचओ	574,201
275	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	उडुपी	उडुपी	उडुपी	एचओ	576,101
276	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	मंगलौर	मंगलौर	मंगलौर	एचओ	575,001
277	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	बेंगलुरु दक्षिण	बास्वांगुडी	बास्वांगुडी	एचओ	560004
278	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	मैसूर	मैसूर	मैसूर	एचओ	570,001
279	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	बेंगलुरु पश्चिम	जलाहल्ली	जलाहल्ली	एचओ	560,013
280	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	रायचूर	रायचूर	रायचूर	एचओ	584,101
281	कर्नाटक	बेंगलुरु मुख्यालय	बेंगलुरु पश्चिम	राजाजी नगर	राजाजी नगर	एचओ	560,010
282	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बागलकोट	बागलकोट	बागलकोट	एचओ	587,101
283	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	धारवाड़	हुबली	हुबली	एचओ	580,020
284	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	हावेरी	हावेरी	हावेरी	एचओ	581,110
285	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	एचओ	577,501
286	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	तुमकुर	तिसूर	तिसूर	एचओ	572,201
287	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	तुमकुर	तुमकुर	तुमकुर	एचओ	572,101
288	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बागलकोट	जमखंडी	जमखंडी	एचओ	587,301
289	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बेलगाम	बेलगाम	बेलगाम	एचओ	590001
290	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	मैसूर	सरस्वतीपुरम	सरस्वतीपुरम	एचओ	570,009
291	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	शिमोगा	भद्रावती	भद्रावती	एचओ	577,301
292	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	एचओ	586,101
293	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	कारवार	कुमटा	कुमटा	एचओ	581,343

294	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	शिमोगा	सागर	सागर	एचओ	577,401
295	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बेलगाम	बैलोगल	बैलोगल	एचओ	591,102
296	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बेलगाम	रामदुर्ग	रामदुर्ग	एचओ	591,123
297	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बीदर	बीदर	बीदर	एचओ	585,401
298	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	चिकोडी	चिकोडी	चिकोडी	एचओ	591,201
299	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	गडग	गडग	गडग	एचओ	582,101
300	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	गडग	कोप्पल	कोप्पल	एचओ	583,231
301	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	गोकक	गोकक	गोकक	एचओ	591,307
302	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	चित्रदुर्ग	दावणगेरे	दावणगेरे	एचओ	577,001
303	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	शिमोगा	शिमोगा	शिमोगा	एचओ	577,201
304	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	उडुपी	मणिपाल	मणिपाल	एचओ	576,104
305	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	गुलबर्गा	यादगिरी	यादगिरी	एचओ	585,201
306	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	कोडागू	मैडीकेरी	मैडीकेरी	एचओ	571,201
307	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	मांड्या	श्रीरंगपट्टनम	श्रीरंगपट्टनम	एचओ	571,438
308	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	चिकमगलूर	कोप्पा	कोप्पा	एचओ	577,126
309	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	पुनूर	करकला	करकला	एचओ	574,104
310	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	बेल्लारी	होसपेट	होसपेट	एचओ	583,201
311	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	गुलबर्गा	गुलबर्गा	गुलबर्गा	एचओ	585,101
312	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	चिकमगलूर	चिकमगलूर	चिकमगलूर	एचओ	577,101
313	कर्नाटक	उत्तरी कर्नाटक	चिकोडी	अथनी	अथनी	एचओ	591,304
314	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	मंगलौर	कुलशेखर	कुलशेखर	एचओ	575,005
315	कर्नाटक	दक्षिण कर्नाटक	उडुपी	कुन्दपुरा	कुन्दपुरा	एचओ	576,201
316	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	तिरुवनंतपुरम दक्षिण	नयातीनकारा	नयातीनकारा	एचओ	695,121
317	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	क्विलोन	कोटारकारा	कोटारकारा	एचओ	691,506
318	केरल	कोच्चि	इडुक्की	तुडुपुझा	तुडुपुझा	एचओ	685,584
319	केरल	कोच्चि	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	एर्नाकुलम	एचओ	682,011
320	केरल	कोच्चि	एर्नाकुलम	कोच्चि	कोच्चि	एचओ	682,001
321	केरल	कालिकट	कालिकट	कालीकट	कालीकट	एचओ	673,001
322	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	पथानामथिट्टा	पुनालुर	पुनालुर	एचओ	691,305
323	केरल	केन्द्रीय	अलुवा	अलुवा	अलुवा	एचओ	683,101
324	केरल	कोच्चि	त्रिशूर	त्रिशूर	त्रिशूर	एचओ	680,001
325	केरल	कालिकट	कालिकट	कालीकट सिविल स्टेशन	कालीकट सिविल स्टेशन	एचओ	673,020
326	केरल	उत्तरी	ओट्टापलम	ओट्टापलम	ओट्टापलम	एचओ	679,101
327	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	पथानामथिट्टा	पथानामथिट्टा	पथानामथिट्टा	एचओ	689,645
328	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	तिरुवल्ला	चिंगानुर	चिंगानुर	एचओ	689,121
329	केरल	कालिकट	के पालघाट	पलक्कड	पलक्कड	एचओ	678,001

330	केरल	कोच्चि	अलेपी	चेरथला	चेरथला	एचओ	688,524
331	केरल	कोच्चि	इडुक्की	कटपन्ना	कटपन्ना	एचओ	685,508
332	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	क्विलोन	करुणागापल्ली	करुणागापल्ली	एचओ	690,518
333	केरल	कोच्चि	अलवाए	पेरमबवूर	पेरमबवूर	एचओ	683,542
334	केरल	कोच्चि	मवेलीकारा	मवेलीकारा	मवेलीकारा	एचओ	690,101
335	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	तिरुवल्ला	तिरुवल्ला	तिरुवल्ला	एचओ	689,101
336	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	तिरुवनंतपुरम उत्तर	तिरुवनंतपुरम जीपीओ	तिरुवनंतपुरम जीपीओ	एचओ	695,001
337	केरल	कोच्चि	अलवाए	मूवाट्टुपुषा	मूवाट्टुपुषा	एचओ	686,661
338	केरल	कोच्चि	अलेपी	अलाप्पुझा	अलाप्पुझा	एचओ	688,001
339	केरल	कालिकट	के पालघाट	ओवाकोट	ओवाकोट	एचओ	678,002
340	केरल	कालिकट	कन्नानूर	तालीपराम्बा	तालीपराम्बा	एचओ	670,141
341	केरल	कालिकट	कालिकट	कालपेट्टा	कालपेट्टा	एचओ	673,121
342	केरल	कालिकट	कन्नानूर	कन्नूर	कन्नूर	एचओ	670,001
343	केरल	कालिकट	कासरगोड	कासरगोड	कासरगोड	एचओ	671,121
344	केरल	कालिकट	के पालघाट	अलातुरएमबीआर	अलातुरएमबीआर	एचओ	678,541
345	केरल	कोच्चि	चांगनाचेरी	चांगनाचेरी	चांगनाचेरी	एचओ	686,101
346	केरल	कोच्चि	चांगनाचेरी	कंजिरापायली	कंजिरापायली	एचओ	686,507
347	केरल	कोच्चि	कोटायाम	पैलाई	पैलाई	एचओ	686,575
348	केरल	कोच्चि	कोटायाम	वाईकॉम	वाईकॉम	एचओ	686,141
349	केरल	कालिकट	मंजेरी	मलप्पुरम	मलप्पुरम	एचओ	676,505
350	केरल	कालिकट	मंजेरी	मंजेरीकला-	मंजेरीकला-	एचओ	676,121
351	केरल	कालिकट	तिरूर	तिरूर (केरल)	तिरूर (केरल)	एचओ	676,101
352	केरल	कालिकट	वडकरा	वडकरा	वडकरा	एचओ	673,101
353	केरल	कोच्चि	इरिन्जालाकुडा	चलाकुडी	चलाकुडी	एचओ	680,307
354	केरल	कोच्चि	इरिन्जालाकुडा	इरिन्जालाकुडा	इरिन्जालाकुडा	एचओ	680,121
355	केरल	कोच्चि	त्रिचूर	कुन्नम्कुलम	कुन्नम्कुलम	एचओ	680,503
356	केरल	कोच्चि	त्रिचूर	वाडाकनचेरी-टीसी	वाडाकनचेरी-टीसी	एचओ	680,582
357	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	पथानामथिट्टा	अदुर (कला)	अदुर (कला)	एचओ	691,523
358	केरल	कोच्चि	मवेलीकारा	कन्यागुलाम	कन्यागुलाम	एचओ	690,502
359	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	तिरुवनंतपुरम उत्तर	अत्तिगल	अत्तिगल	एचओ	695,101
360	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	तिरुवनंतपुरम दक्षिण	पूजापुरा	पूजापुरा	एचओ	695,012
361	केरल	कोच्चि	कोटायाम	कोट्टायम	कोट्टायम	एचओ	686,001
362	केरल	कालिकट	वडकरा	कोईलंदी	कोईलंदी	एचओ	673,305
363	केरल	कालिकट	कासरगोड	कान्हागाड	कान्हागाड	एचओ	671,315
364	केरल	कालिकट	थालास्सेरी	थालास्सेरी	थालास्सेरी	एचओ	670,101
365	केरल	तिरुवनंतपुरम मुख्यालय	क्विलोन	कोल्लम	कोल्लम	एचओ	691,001
366	केरल	कालिकट	तिरूर	पोनानी	पोनानी	एचओ	679,577

367	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	भोपाल	भोपाल जीपीओ	भोपाल जीपीओ	एचओ	462,001
368	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर शहर	इंदौर नगर	इंदौर नगर	एचओ	452,007
369	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर मोफूसिल	धार	धार	एचओ	454,001
370	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	विदिशा	विदिशा	विदिशा	एचओ	464,001
371	मध्य प्रदेश	इंदौर	मंदसौर	मंदसौर	मंदसौर	एचओ	458,001
372	मध्य प्रदेश	इंदौर	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	एचओ	456,001
373	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	भोपाल	सीटीटी नगर	सीटीटी नगर	एचओ	462,003
374	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	होशंगाबाद	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	एचओ	487,001
375	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	सागर	सागर कैट	सागर कैट	एचओ	470,001
376	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	भोपाल	भेल	भेल	एचओ	462,022
377	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	सागर	दमोह	दमोह	एचओ	470,661
378	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	एचओ	461,001
379	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	गुना	अशोकनगर	अशोक नगर	एचओ	473,331
380	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	गुना	शिवपुरी	शिवपुरी	एचओ	473,551
381	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	छतरपुर	टीकमगढ़	टीकमगढ़	एचओ	472,001
382	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	एचओ	480,001
383	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर	मोरार	मोरार	एचओ	474,006
384	मध्य प्रदेश	इंदौर	रतलाम	रतलाम	रतलाम	एचओ	457,001
385	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	एचओ	471,001
386	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	छिंदवाड़ा	बैतूल	बैतूल	एचओ	460,001
387	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	विदिशा	रायसेन	रायसेन	एचओ	464,551
388	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर	लशकर	लशकर	एचओ	474,001
389	मध्य प्रदेश	इंदौर	खंडवा	खंडवा	खंडवा	एचओ	450,001
390	मध्य प्रदेश	इंदौर	सीहोर	सीहोर	सीहोर	एचओ	466,001
391	मध्य प्रदेश	इंदौर	उज्जैन	शाजापुर	शाजापुर	एचओ	465,001
392	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	बालाघाट	बालाघाट	बालाघाट	एचओ	481,001
393	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	रीवा	रीवा	रीवा	एचओ	486,001
394	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर मोफूसिल	देवास	देवास	एचओ	455,001
395	मध्य प्रदेश	इंदौर	खंडवा	खरगोन	खरगोन	एचओ	451,001
396	मध्य प्रदेश	इंदौर	मंदसौर	नीमच	नीमच	एचओ	458,441
397	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	शहडोल	शहडोल	शहडोल	एचओ	484,001
398	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	बालाघाट	सिवनी	सिवनी	एचओ	480,661
399	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	रीवा	सतना	सतना	एचओ	485,001
400	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	गुना	गुना	गुना	एचओ	473,001
401	मध्य प्रदेश	इंदौर	सीहोर	राजगढ़ बीआईए))	राजगढ़ बीआईए))	एचओ	465,661
402	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	बालाघाट	मंडला	मंडला	एचओ	481,661
403	मध्य प्रदेश	भोपाल मुख्यालय	शहडोल	सीधी	सीधी	एचओ	486,661
404	मध्य प्रदेश	इंदौर	रतलाम	झाबुआ	झाबुआ	एचओ	457,661

405	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	मुरैना	मुरैना	मुरैना	एचओ	476,001
406	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	मुरैना	भिण्ड	भिण्ड	एचओ	477,001
407	मध्य प्रदेश	इंदौर	जबलपुर	कटनी	कटनी	एचओ	483,501
408	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर शहर	इंदौर जीपीओ	इंदौर जीपीओ	एचओ	452001
409	मध्य प्रदेश	इंदौर	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	एचओ	482,001
410	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई शहर पूर्वोत्तर	चेंबूर	चेंबूर	एचओ	400,071
411	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	धुले	धुले	धुले	एचओ	424,001
412	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	एचओ	431,001
413	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	सांगली	सांगली	सांगली	एचओ	416,416
414	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई शहर से उत्तर	अंधेरी	अंधेरी	एचओ	400053
415	महाराष्ट्र	नागपुर	बुलढाणा	खमगांव	खमगांव	एचओ	444,303
416	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर शहर	नागपुर जीपीओ	नागपुर जीपीओ	एचओ	440,001
417	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर मुफोसिल	गोंदिया	गोंदिया	एचओ	441,601
418	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	रत्नागिरी	रत्नागिरी	रत्नागिरी	एचओ	415,612
419	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर शहर	नागपुर शहर	नागपुर शहर	एचओ	440,002
420	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	बीड	बीड	बीड	एचओ	431,122
421	महाराष्ट्र	पुणे	पंढरपुर	पंढरपुर	पंढरपुर	एचओ	413,304
422	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	सिंधुदुर्ग	मालवन	मालवन	एचओ	416,606
423	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई शहर दक्षिण	कालवादेवी	कालवादेवी	एचओ	400002
424	महाराष्ट्र	नागपुर	यवतमाल	यवतमाल	यवतमाल	एचओ	445,001
425	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर पूर्व	पुणे	पुणे	एचओ	411,001
426	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई शहर पश्चिम	माहिम	माहिम	एचओ	400,016
427	महाराष्ट्र	नागपुर	वर्धा	वर्धा	वर्धा	एचओ	442,001
428	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई जीपीओ	मुंबई	मुंबई जीपीओ	एचओ	400001
429	महाराष्ट्र	पुणे	सतारा	सतारा	सतारा	एचओ	415,001
430	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई शहर से पूर्व	चिंचबुंडेर	चिंचबुंडेर	एचओ	400,009
431	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	कोल्हापुर	इचलकरंजी	इचलकरंजी	एचओ	416,115
432	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचओ	416,003
433	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई शहर उत्तर पश्चिम	बोरीवली	बोरीवली	एचओ	400,091
434	महाराष्ट्र	मुंबई	ठाणे सेंट्रल	थाइन	थाइन	एचओ	400601
435	महाराष्ट्र	नागपुर	चंद्रपुर	चंद्रपुर	चंद्रपुर	एचओ	442,401
436	महाराष्ट्र	नागपुर	अकोला	अकोला	अकोला	एचओ	444,001
437	महाराष्ट्र	नागपुर	बुलढाणा	बुलढाणा	बुलढाणा	एचओ	443,001
438	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई शहर से पूर्व	दादर	दादर	एचओ	400,014
439	महाराष्ट्र	मुंबई	ठाणे सेंट्रल	कल्याण शहर	कल्याण शहर	एचओ	421,301
440	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	मालेगांव	मालेगांव	मालेगांव	एचओ	423,203
441	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	जालना	जालना	एचओ	431,203

442	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	जलगांव	चालीसगांव	चालीसगांव	एचओ	424,101
443	महाराष्ट्र	नागपुर	अमरावती	अमरावती	अमरावती	एचओ	444,601
444	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	गोवा	मडगांव	मडगांव	एचओ	403,601
445	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	नासिक	नासिक रोड	नासिक रोड	एचओ	422,101
446	महाराष्ट्र	पुणे	श्रीरामपुर	श्रीरामपुर	श्रीरामपुर	एचओ	413,709
447	महाराष्ट्र	मुंबई	ठाणे पश्चिम	पालघर	पालघर	एचओ	401,404
448	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर पश्चिम	पुणे शहर	पुणे शहर	एचओ	411,002
449	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	भुसावळ	भुसावळ	भुसावळ	एचओ	425,201
450	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	सांगली	मिराज	मिराज	एचओ	416,410
451	महाराष्ट्र	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	अहमदनगर	एचओ	414,001
452	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	जलगांव	जलगाँव	जलगाँव	एचओ	425,001
453	महाराष्ट्र	मुंबई	नई मुंबई	पनवेल	पनवेल	एचओ	410,206
454	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	परभणी	परभणी	परभणी	एचओ	431,401
455	महाराष्ट्र	मुंबई	मुंबई पश्चिम	मुंबई सेंट्रल	मुंबई सेंट्रल	एचओ	400,008
456	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	रत्नागिरि	चिपलून	चिपलून	एचओ	415,605
457	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड	नांदेड	एचओ	431,601
458	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	लातूर	लातूर	एचओ	413,512
459	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	कोल्हापुर	कोल्हापुर शहर	कोल्हापुर शहर	एचओ	416,012
460	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर मोफूसिल	भंडारा	भंडारा	एचओ	441,904
461	महाराष्ट्र	पुणे	सतारा	कराड	कराड	एचओ	415,110
462	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	नासिक	नासिक	नासिक	एचओ	422,001
463	महाराष्ट्र	मुंबई	रायगड	अलीबाग	अलीबाग	एचओ	402,201
464	महाराष्ट्र	पुणे	सोलापुर	सोलापुर	सोलापुर	एचओ	413,001
465	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	एचओ	413,501
466	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	गोवा	पणजी	पणजी	एचओ	403,001
467	महाराष्ट्र	गोवापणजी -	सिंधुदुर्ग	सावंतवाडी	सावंतवाडी	एचओ	416,510
468	महाराष्ट्र	नागपुर	अमरावती	पाराटवाडा	पाराटवाडा	एचओ	444,805
469	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर मोफूसिल	कामथी	कामथी	एचओ	441,001
470	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर मोफूसिल	शिवाजी नगर	शिवाजी नगर	एचओ	411,005
471	उत्तर पूर्व	शिलांग मुख्यालय	मेघालय	शिलांग जीपीओ	शिलांग जीपीओ	एचओ	793,001
472	उत्तर पूर्व	पूर्वोत्तर	नगालैंड	कोहिमा	कोहिमा	एचओ	797,001
473	उत्तर पूर्व	पूर्वोत्तर	मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल	एचओ	795,001
474	उत्तर पूर्व	शिलांग मुख्यालय	अगरतला	अगरतला	अगरतला	एचओ	799,001
475	उत्तर पूर्व	शिलांग मुख्यालय	अगरतला	राधाकिशोरीपुर	राधाकिशोरीपुर	एचओ	799,120
476	उत्तर पूर्व	शिलांग मुख्यालय	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	ईटानगर	एचओ	791,111
477	उत्तर पूर्व	शिलांग मुख्यालय	धर्मनगर	धर्मनगर	धर्मनगर	एचओ	799,250
478	उत्तर पूर्व	पूर्वोत्तर	मिजोरम	आइजोल	आइजोल	एचओ	796,001
479	उत्तर पूर्व	पूर्वोत्तर	मेघालय	तुरा	तुरा	एचओ	794,001

480	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	भुवनेश्वर	भुवनेश्वर जीपीओ	भुवनेश्वर जीपीओ	एचओ	751,001
481	ओडिशा	बरहामपुर	अस्का	अस्का	अस्का	एचओ	761,110
482	ओडिशा	बरहामपुर	अस्का	बांजानगर	बांजानगर	एचओ	761,126
483	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	कटक शहर	चांदनी चौक	चांदनी चौक	एचओ	753,002
484	ओडिशा	बरहामपुर	बरहामपुर	बहरामपुर (जीएम)	बहरामपुर (जीएम)	एचओ	760001
485	ओडिशा	बरहामपुर	कोरापुट	जेयपुरी (कश्मीर)	जेयपुरी (कश्मीर)	एचओ	764,001
486	ओडिशा	बरहामपुर	कोरापुट	रायगढ़ (कश्मीर)	रायगढ़ (कश्मीर)	एचओ	765,001
487	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	कटक दक्षिण	अथागढ़	अथागढ़	एचओ	754,029
488	ओडिशा	संबलपुर	ढेंकनाल	ढेंकनाल	ढेंकनाल	एचओ	759,001
489	ओडिशा	संबलपुर	सुंदरगढ़	राउरकेला	राउरकेला	एचओ	769,001
490	ओडिशा	बरहामपुर	कालाहांडी	भवानीपटना	भवानीपटना	एचओ	766,001
491	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	कटक शहर	कटक जीपीओ	कटक जीपीओ	एचओ	753,001
492	ओडिशा	संबलपुर	संबलपुर	संबलपुर	संबलपुर	एचओ	768,001
493	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	बालासोर	बालासोर	बालासोर	एचओ	756,001
494	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	भद्रक	भद्रक	भद्रक	एचओ	756,100
495	ओडिशा	संबलपुर	संबलपुर	बारगढ़	बारगढ़	एचओ	768,028
496	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	मयूरभंज	बारीपदा	बारीपदा	एचओ	757,001
497	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	पुरी	पुरी	पुरी	एचओ	752,001
498	ओडिशा	संबलपुर	क्योंझर	क्योंझर	क्योंझर	एचओ	758,001
499	ओडिशा	संबलपुर	संबलपुर	झारसुगुडा	झारसुगुडा	एचओ	768,201
500	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	कटक उत्तर	केंद्रपाड़ा	केंद्रपाड़ा	एचओ	754,211
501	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	कटक दक्षिण	जगतसिंहपुर	जगतसिंहपुर	एचओ	754,103
502	ओडिशा	संबलपुर	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़	एचओ	770,001
503	ओडिशा	संबलपुर	सुंदरगढ़	उदीतनगर	उदीतनगर	एचओ	769,012
504	ओडिशा	बरहामपुर	बरहामपुर	पारलाखेमंडी	पारलाखेमंडी	एचओ	761,200
505	ओडिशा	बरहामपुर	फूलबनी	फूलबनी	फूलबनी	एचओ	762,001
506	ओडिशा	बरहामपुर	बरहामपुर	छत्रपुर	छत्रपुर	एचओ	761,020
507	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	कटक उत्तर	जाजपुर	जाजपुर	एचओ	755,001
508	ओडिशा	बरहामपुर	कोरापुट	कोरापुट	कोरापुट	एचओ	764,020
509	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	बालासोर	जलेश्वर	जलेश्वर	एचओ	756,032
510	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	मयूरभंज	रायरंगपुर	रायरंगपुर	एचओ	757,043
511	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	पुरी	खुर्दा	खुर्दा	एचओ	752,055
512	ओडिशा	भुवनेश्वर मुख्यालय	पुरी	नयागढ़	नयागढ़	एचओ	752,069
513	ओडिशा	संबलपुर	बलांगीर	बलांगीर	बलांगीर	एचओ	767,001
514	ओडिशा	संबलपुर	ढेंकनाल	अंगुल	अंगुल	एचओ	759,122
515	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	चंडीगढ़	चंडीगढ़ जीपीओ	चंडीगढ़ जीपीओ	एचओ	160,017
516	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	कपूरथला	फगवाड़ा	फगवाड़ा	एचओ	144401
517	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	चंडीगढ़	रोपड़	रोपड़	एचओ	140001

518	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	गुरदासपुर	बटाला	बटाला	एचओ	143,505
519	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	गुरदासपुर	गुरदासपुर	गुरदासपुर	एचओ	143,521
520	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	पटियाला	राजपुरा	राजपुरा	एचओ	140,401
521	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	फरीदकोट	फरीदकोट	फरीदकोट	एचओ	151,203
522	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	जालंधर	जालंधर शहर	जालंधर शहर	एचओ	144001
523	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	लुधियाना मोफूसिल	खन्ना	खन्ना	एचओ	141,401
524	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	फरीदकोट	मोगा	मोगा	एचओ	142,001
525	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	संगरूर	संगरूर	संगरूर	एचओ	148,001
526	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	फिरोजपुर	फिरोजपुर	फिरोजपुर	एचओ	152,001
527	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	कपूरथला	कपूरथला	कपूरथला	एचओ	144,601
528	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	बठिंडा	बठिंडा	बठिंडा	एचओ	151,001
529	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	पटियाला	पटियाला	पटियाला	एचओ	147001
530	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	अमृतसर	अमृतसर जीपीओ	अमृतसर जीपीओ	एचओ	143001
531	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	लुधियाना शहर	लुधियाना	लुधियाना	एचओ	141,001
532	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	लुधियाना मोफूसिल	जगराओं	जगराओं	एचओ	142,026
533	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	अमृतसर	तरनतारन	तरनतारन	एचओ	143,401
534	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	होशियारपुर	होशियारपुर	होशियारपुर	एचओ	146,001
535	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	होशियारपुर	दसुया	दसुया	एचओ	144,205
536	पंजाब	चंडीगढ़ मुख्यालय	जालंधर	जालंधर कैट	जालंधर कैट	एचओ	144,005
537	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	जयपुर शहर	शास्त्री नगर	शास्त्री नगर	एचओ	302,016
538	राजस्थान	अजमेर	व्यावर	नसीराबाद	नसीराबाद	एचओ	305,601
539	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	अलवर	अलवर	अलवर	एचओ	301001
540	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	एचओ	322,001
541	राजस्थान	जोधपुर	श्रीगंगा नगर	हनुमानगढ़ जं	हनुमानगढ़ जं	एचओ	335,512
542	राजस्थान	अजमेर	अजमेर	मैदानगंजकिशनगढ़	मैदानगंजकिशनगढ़	एचओ	305,801
543	राजस्थान	जोधपुर	चुरू	रतनगढ़	रतनगढ़	एचओ	331,022
544	राजस्थान	अजमेर	टोंक	टोंक राज	टोंक राज	एचओ	304,001
545	राजस्थान	जोधपुर	चुरू	चुरू	चुरू	एचओ	331,001
546	राजस्थान	जोधपुर	पाली	पालीमारवार	पालीमारवार	एचओ	306,401
547	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	एचओ	342001
548	राजस्थान	अजमेर	टोंक	बूंदी	बूंदी	एचओ	323,001
549	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	जयपुर शहर	जयपुर जीपीओ	जयपुर जीपीओ	एचओ	302001
550	राजस्थान	जोधपुर	बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	एचओ	344,001
551	राजस्थान	जोधपुर	जोधपुर	जैसलमेर	जैसलमेर	एचओ	345,001
552	राजस्थान	अजमेर	अजमेर	अजमेर	अजमेर	एचओ	305,001
553	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	सवाईमाधोपुर	ह्मिण्डौन	ह्मिण्डौन	एचओ	322,230
554	राजस्थान	जोधपुर	नागौर	डीडवाना	डीडवाना	एचओ	341,303
555	राजस्थान	अजमेर	व्यावर	व्यावर	व्यावर	एचओ	305,901

556	राजस्थान	जोधपुर	झुंझुनूं	झुंझुनूं	झुंझुनूं	एचओ	333,001
557	राजस्थान	जोधपुर	नागौर	नागौर	नागौर	एचओ	341,001
558	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	अलवर	बहरोर	बहरोर	एचओ	301,701
559	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	जयपुर शहर	जवाहर नगर	जवाहर नगर	एचओ	302004
560	राजस्थान	अजमेर	कोटा	नई अनाज मंडी कोटा	नई अनाज मंडी कोटा	एचओ	324,007
561	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	जयपुर मोफूसिल	शाहपुरा	शाहपुरा	एचओ	303,103
562	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	भरतपुर	भरतपुर	भरतपुर	एचओ	321,001
563	राजस्थान	अजमेर	कोटा	कोटा	कोटा	एचओ	324,001
564	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	जयपुर मोफूसिल	सांभर झील	सांभर झील	एचओ	303,604
565	राजस्थान	अजमेर	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	एचओ	313,004
566	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	भरतपुर	डीग	डीग	एचओ	321,203
567	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	जयपुर मोफूसिल	दौसा	दौसा	एचओ	303,303
568	राजस्थान	अजमेर	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	एचओ	312,001
569	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	धौलपुर	धौलपुर	धौलपुर	एचओ	328,001
570	राजस्थान	जयपुर मुख्यालय	सवाईमाधोपुर	गंगापुर	गंगापुर	एचओ	322,201
571	राजस्थान	जोधपुर	बीकानेर	बीकानेर	बीकानेर	एचओ	334,001
572	राजस्थान	जोधपुर	सिरोही	सिरोही	सिरोही	एचओ	307,001
573	राजस्थान	जोधपुर	सीकर	सीकर	सीकर	एचओ	332,001
574	राजस्थान	जोधपुर	सिरोही	जालोर	जालोर	एचओ	343,001
575	राजस्थान	अजमेर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	डूंगरपुर	एचओ	314,001
576	राजस्थान	जोधपुर	नागौर	मकराना	मकराना	एचओ	341,505
577	राजस्थान	जोधपुर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	एचओ	335,001
578	राजस्थान	अजमेर	कोटा	झालावाड़	झालावाड़	एचओ	326,001
579	राजस्थान	अजमेर	डूंगरपुर	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	एचओ	327,001
580	राजस्थान	जोधपुर	झुंझुनूं	चिरावा	चिरावा	एचओ	333,026
581	राजस्थान	अजमेर	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	एचओ	311,001
582	राजस्थान	अजमेर	उदयपुर	कानकोरली	कानकोरली	एचओ	313,324
583	राजस्थान	जोधपुर	सीकर	श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर	एचओ	332,715
584	राजस्थान	जोधपुर	पाली	मारवाड़ जंक्शन	मारवाड़ जंक्शन	एचओ	306,001
585	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	ताम्वरम	ताम्वरम	ताम्वरम	एचओ	600,045
586	तमिलनाडु	वेस्टर्न	इरोड	भवानी	भवानी	एचओ	638,301
587	तमिलनाडु	दक्षिणी	विरुधुनगर	शिवकाशी	शिवकाशी	एचओ	626,123
588	तमिलनाडु	वेस्टर्न	नीलगिरी	उदगमंडलम	उदगमंडलम	एचओ	643,001
589	तमिलनाडु	केन्द्रीय	वृद्धाचलम	कल्लाकुरिची	कल्लाकुरिची	एचओ	606,202
590	तमिलनाडु	केन्द्रीय	मयीलाडुतुरै	मयीलाडुतुरै	मयीलाडुतुरै	एचओ	609,001
591	तमिलनाडु	केन्द्रीय	पुदुकोट्टई	पुदुकोट्टई	पुदुकोट्टई	एचओ	622,001
592	तमिलनाडु	दक्षिणी	डिंडीगुल	पलानी	पलानी	एचओ	624,601
593	तमिलनाडु	वेस्टर्न	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	कोयम्बटूर	एचओ	641,001

594	तमिलनाडु	वेस्टर्न	पोलाची	पोलाची	पोलाची	एचओ	642,001
595	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	चेन्नई शहर केन्द्रीय	मायलापुर	मायलापुर	एचओ	600004
596	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कुंभकोणम	कुंभकोणम	कुंभकोणम	एचओ	612,001
597	तमिलनाडु	दक्षिणी	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	तिरुनेलवेली	एचओ	627,001
598	तमिलनाडु	दक्षिणी	डिंडीगुल	डिंडीगुल	डिंडीगुल	एचओ	624,001
599	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	अन्ना रोड	अन्ना सड़क	अन्ना सड़क	एचओ	600,002
600	तमिलनाडु	वेस्टर्न	इरोड	इरोड	इरोड	एचओ	638,001
601	तमिलनाडु	दक्षिणी	तिरुनेलवेली	पलायंकोटी	पलायंकोटी	एचओ	627,002
602	तमिलनाडु	केन्द्रीय	तंजावुर	तंजावुर	तंजावुर	एचओ	613,001
603	तमिलनाडु	केन्द्रीय	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	तिरुचिरापल्ली	एचओ	620,001
604	तमिलनाडु	वेस्टर्न	सलेम पूर्व	सलेम	सलेम	एचओ	636,001
605	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	चेन्नई शहर दक्षिण	थॉमस माउंट	थॉमस माउंट	एचओ	600,016
606	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	चेन्नई शहर से उत्तर	पार्क टाउन	पार्क टाउन	एचओ	600,003
607	तमिलनाडु	दक्षिणी	कोविलपट्टी	कोविलपट्टी	कोविलपट्टी	एचओ	628,501
608	तमिलनाडु	केन्द्रीय	श्रीरंगम	श्रीरंगम	श्रीरंगम	एचओ	620,006
609	तमिलनाडु	केन्द्रीय	पलायंकोटी	पलायंकोटी	पलायंकोटी	एचओ	614,601
610	तमिलनाडु	केन्द्रीय	तिरुचिरापल्ली	लालगुडी	लालगुडी	एचओ	621,601
611	तमिलनाडु	केन्द्रीय	करूर	कुलीटालाई	कुलीटालाई	एचओ	639,104
612	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कुड्डलोर	कुड्डलोर	कुड्डलोर	एचओ	607,001
613	तमिलनाडु	दक्षिणी	कोविलपट्टी	तेनकासी	तेनकासी	एचओ	627,811
614	तमिलनाडु	दक्षिणी	मडुरै	अरासरदी	अरासरदी	एचओ	625,016
615	तमिलनाडु	दक्षिणी	तूतीकोरिन	तूतीकोरिन	तूतीकोरिन	एचओ	628,001
616	तमिलनाडु	वेस्टर्न	सलेम पूर्व	अतूर	अतूर	एचओ	636,102
617	तमिलनाडु	वेस्टर्न	तिरूपातूर	तिरूपातूर	तिरूपातूर	एचओ	635,601
618	तमिलनाडु	वेस्टर्न	तिरुपुर	मेदट्टपलायम	मेदट्टपलायम	एचओ	641,301
619	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	चेंगलपट्टूर	चेंगलपट्टूर	चेंगलपट्टूर	एचओ	603,001
620	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कुड्डलोर	चिदंबरम	चिदंबरम	एचओ	608,001
621	तमिलनाडु	केन्द्रीय	मयीलाडूतुरै	श्रीकाली	श्रीकाली	एचओ	609,110
622	तमिलनाडु	केन्द्रीय	नागपट्टिनम	तिरुवरूर	तिरुवरूर	एचओ	610,001
623	तमिलनाडु	केन्द्रीय	श्रीरंगम	पेराम्बलूर	पेराम्बलूर	एचओ	621,212
624	तमिलनाडु	केन्द्रीय	श्रीरंगम	तुराययूर	तुराययूर	एचओ	621,010
625	तमिलनाडु	केन्द्रीय	तंजावुर	मन्नारगुडी	मन्नारगुडी	एचओ	614,001
626	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	ताम्बरम	अवादी शिविर	अवादी शिविर	एचओ	600,054
627	तमिलनाडु	दक्षिणी	कोविलपट्टी	संकरणकोवायल	संकरणकोवायल	एचओ	627,756
628	तमिलनाडु	दक्षिणी	रामनाथपुरम	रामनाथपुरम	रामनाथपुरम	एचओ	623,501
629	तमिलनाडु	दक्षिणी	तिरुनेलवेली	अम्बसमुद्रम	अम्बसमुद्रम	एचओ	627,401
630	तमिलनाडु	दक्षिणी	तूतीकोरिन	श्रीवैकुंठम	श्रीवैकुंठम	एचओ	628,601
631	तमिलनाडु	वेस्टर्न	नीलगिरी	कुन्नूर	कुन्नूर	एचओ	643,101

632	तमिलनाडु	वेस्टर्न	सलेम पश्चिम	सुरामनागालम	सुरामनागालम	एचओ	636,005
633	तमिलनाडु	केन्द्रीय	पट्टकोटाई	तिरुतुरायपुंडी	तिरुतुरायपुंडी	एचओ	614,713
634	तमिलनाडु	केन्द्रीय	तंजावुर	पापनासम	पापनासम	एचओ	614,205
635	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	ताम्वरम	अंबातुर	अंबातुर	एचओ	600,053
636	तमिलनाडु	दक्षिणी	मदुरै	तालाकुलम	तालाकुलम	एचओ	625,002
637	तमिलनाडु	दक्षिणी	तव मै	बोडीनायकनुर	बोडीनायकनुर	एचओ	625,513
638	तमिलनाडु	वेस्टर्न	कोयम्बटूर	राथीनासाबापथ्यपुरम	राथीनासाबापथ्यपुरम	एचओ	641,002
639	तमिलनाडु	वेस्टर्न	कृष्णागिरी	कृष्णागिरी	कृष्णागिरी	एचओ	635,001
640	तमिलनाडु	वेस्टर्न	तिरुपत्तुर	गुडियाट्टम	गुडियाट्टम	एचओ	632,602
641	तमिलनाडु	वेस्टर्न	तिरुपुर	तिरुपुर	तिरुपुर	एचओ	641,601
642	तमिलनाडु	केन्द्रीय	कुम्भकोणम	मेलाकावेरी	मेलाकावेरी	एचओ	612,002
643	तमिलनाडु	केन्द्रीय	नागपट्टिनम	नागपट्टिनम	नागपट्टिनम	एचओ	611,001
644	तमिलनाडु	दक्षिणी	तूतीकोरिन	तिरुचेंदूर	तिरुचेंदूर	एचओ	628,215
645	तमिलनाडु	दक्षिणी	विरुधुनगर	राजापालायाम	राजापालायाम	एचओ	626,117
646	तमिलनाडु	वेस्टर्न	धर्मपुरी	धर्मपुरी	धर्मपुरी	एचओ	636,701
647	तमिलनाडु	वेस्टर्न	तिरुपुर	धारापुरम	धारापुरम	एचओ	638,656
648	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	कांचीपुरम	कांचीपुरम	कांचीपुरम	एचओ	631,501
649	तमिलनाडु	दक्षिणी	विरुधुनगर	अरूपुकोटाई	अरूपुकोटाई	एचओ	626,101
650	तमिलनाडु	केन्द्रीय	करूर	करूर	करूर	एचओ	639,001
651	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	अराकोणम	अराकोणम	अराकोणम	एचओ	631,001
652	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	कांचीपुरम	तिरुवल्लूर	तिरुवल्लूर	एचओ	602,001
653	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई	एचओ	606,601
654	तमिलनाडु	दक्षिणी	विरुधुनगर	विरुधुनगर	विरुधुनगर	एचओ	626,001
655	तमिलनाडु	केन्द्रीय	वृद्धाचलम	वृद्धाचलम	वृद्धाचलम	एचओ	606,001
656	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	अराकोणम	रानीपेट	रानीपेट	एचओ	632,401
657	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	वेल्लोर	वेल्लोर	वेल्लोर	एचओ	632,001
658	तमिलनाडु	दक्षिणी	कन्याकुमारी	नागरकोडल	नागरकोडल	एचओ	629,001
659	तमिलनाडु	दक्षिणी	कराईकुडी	देवाकोत्तई	देवाकोत्तई	एचओ	630,302
660	तमिलनाडु	दक्षिणी	शिवगंगा	मानामदुरै	मानामदुरै	एचओ	630,606
661	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	पांडिचेरी	विल्लुपुरम	विल्लुपुरम	एचओ	605,602
662	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	तिरुवन्नामलाई	अर्नी	अर्नी	एचओ	632,301
663	तमिलनाडु	दक्षिणी	कन्याकुमारी	थुक्कालाय	थुक्कालाय	एचओ	629,175
664	तमिलनाडु	वेस्टर्न	पोलाची	उडामपालपेट	उडामपालपेट	एचओ	642,126
665	तमिलनाडु	दक्षिणी	रामनाथपुरम	परमाकुदी	परमाकुदी	एचओ	623,707
666	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	पांडिचेरी	टिंडीवनम	टिंडीवनम	एचओ	604,001
667	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	पांडिचेरी	पांडिचेरी	पांडिचेरी	एचओ	605001
668	तमिलनाडु	दक्षिणी	डिंडीगुल	निलाकोटाई	निलाकोटाई	एचओ	624,208
669	तमिलनाडु	दक्षिणी	मदुरै	मदुरै	मदुरै	एचओ	625,001

670	तमिलनाडु	वेस्टर्न	इरोड	गोविन्देष्ट्रीपलायम	गोविन्देष्ट्रीपलायम	एचओ	638,452
671	तमिलनाडु	चेन्नई शहर	चेन्नई जीपीओ	चेन्नई जीपीओ	चेन्नई जीपीओ	एचओ	600001
672	तमिलनाडु	केन्द्रीय	वृद्धाचलम	त्रिकोवायलयुर	त्रिकोवायलयुर	एचओ	605,757
673	तमिलनाडु	दक्षिणी	शिवगंगा	शिवगंगा	शिवगंगा	एचओ	630,561
674	तमिलनाडु	वेस्टर्न	नमक्कल	नमक्कल	नमक्कल	एचओ	637,001
675	तमिलनाडु	दक्षिणी	तव मै	पेरियाकुलम	पेरियाकुलम	एचओ	625,601
676	तमिलनाडु	वेस्टर्न	नमक्कल	त्रिचेनगोडू	त्रिचेनगोडू	एचओ	637,211
677	तमिलनाडु (पीआईपी)	चेन्नई शहर	चेन्नई शहर केन्द्रीय	ध्याग्रायानगर	ध्याग्रायानगर	एचओ	600,017
678	तमिलनाडु (पीआईपी)	दक्षिणी	कराईकुडी	कराईकुडी	कराईकुडी	एचओ	630,001
679	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	लखनऊ	लखनऊ चौक	लखनऊ चौक	एचओ	226,003
680	उत्तर प्रदेश	कानपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	फतेहपुर	एचओ	212,601
681	उत्तर प्रदेश	बरेली	सहारनपुर	सहारनपुर	सहारनपुर	एचओ	247001
682	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	आगरा	आगरा	एचओ	282,001
683	उत्तर प्रदेश	आगरा	एटा	एटा	एटा	एचओ	207,001
684	उत्तर प्रदेश	बरेली	बरेली	बरेली	बरेली	एचओ	243,001
685	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	एचओ	273,001
686	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद	एचओ	211,001
687	उत्तर प्रदेश	बरेली	मेरठ	मेरठ कैट	मेरठ कैट	एचओ	250001
688	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	एचओ	230,001
689	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	वाराणसी पश्चिम	वाराणसी कैट	वाराणसी कैट	एचओ	221,002
690	उत्तर प्रदेश	बरेली	खीरी	खीरी	खीरी	एचओ	262,701
691	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़	एचओ	276,001
692	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	सुल्तानपुर	अमेठी	अमेठी	एचओ	227,405
693	उत्तर प्रदेश	बरेली	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	एचओ	251,001
694	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद	एचओ	224,001
695	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	रायबरेली	रायबरेली	रायबरेली	एचओ	229,001
696	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	बलिया	बलिया	बलिया	एचओ	277,001
697	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	देवरिया	देवरिया	देवरिया	एचओ	274,001
698	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर	कानपुर	कानपुर	एचओ	208,001
699	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	एचओ	261,001
700	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर	कानपुर कैट	कानपुर कैट	एचओ	208,004
701	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	बाराबंकी	बाराबंकी	बाराबंकी	एचओ	225,001
702	उत्तर प्रदेश	बरेली	बिजनौर	बिजनौर	बिजनौर	एचओ	246,701
703	उत्तर प्रदेश	बरेली	बरेली	पीलीभीत	पीलीभीत	एचओ	262,001
704	उत्तर प्रदेश	कानपुर	फतेहगढ़	फतेहगढ़	फतेहगढ़	एचओ	209,601
705	उत्तर प्रदेश	आगरा	मथुरा	मथुरा	मथुरा	एचओ	281,001

706	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद कटचेरी	इलाहाबाद कटचेरी	एचओ	211,002
707	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	जौनपुर	जौनपुर	जौनपुर	एचओ	222,001
708	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोंडा	गोंडा	गोंडा	एचओ	271,001
709	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर शहर	नवाबगंज	नवाबगंज	एचओ	208,002
710	उत्तर प्रदेश	कानपुर	कानपुर मुफ्फिसिल	उन्नाव	उन्नाव	एचओ	209,801
711	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	गाज़ियाबाद	नोएडा	नोएडा	एचओ	201301
712	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	वाराणसी पूर्व	वाराणसी	वाराणसी	एचओ	221,001
713	उत्तर प्रदेश	बरेली	मेरठ	बड़ौत	बड़ौत	एचओ	250,611
714	उत्तर प्रदेश	कानपुर	बांदा	हमीरपुर	हमीरपुर	एचओ	210,301
715	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	कैजाबाद	अकबरपुर	अकबरपुर	एचओ	224,122
716	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोंडा	बलरामपुर	बलरामपुर	एचओ	271,201
717	उत्तर प्रदेश	कानपुर	बांदा	बांदा	बांदा	एचओ	210,001
718	उत्तर प्रदेश	बरेली	हरदोई	हरदोई	हरदोई	एचओ	241,001
719	उत्तर प्रदेश	बरेली	मेरठ	मेरठ शहर	मेरठ शहर	एचओ	250,002
720	उत्तर प्रदेश	बरेली	मुरादाबाद	अमरोहा	अमरोहा	एचओ	244,221
721	उत्तर प्रदेश	बरेली	बिजनौर	धामपुर	धामपुर	एचओ	246,761
722	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	एचओ	233,001
723	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	गाज़ियाबाद	हापुड़	हापुड़	एचओ	245,101
724	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	लखनऊ जीपीओ	लखनऊ जीपीओ	लखनऊ जीपीओ	एचओ	226001
725	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर (अवध)	सुल्तानपुर (अवध)	एचओ	228,001
726	उत्तर प्रदेश	बरेली	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	एचओ	243,601
727	उत्तर प्रदेश	बरेली	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	एचओ	242,001
728	उत्तर प्रदेश	आगरा	अलीगढ़	अलीगढ़	अलीगढ़	एचओ	202,001
729	उत्तर प्रदेश	आगरा	बुलंदशहर	बुलंदशहर	बुलंदशहर	एचओ	203,001
730	उत्तर प्रदेश	आगरा	बुलंदशहर	खुर्जा	खुर्जा	एचओ	203,131
731	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	आजमगढ़	मऊ	मऊ	एचओ	275,101
732	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	बहराइच	बहराइच	बहराइच	एचओ	271,801
733	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	बलिया	रसारा	रसारा	एचओ	221,712
734	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	देवरिया	पडरौना	पडरौना	एचओ	274,304
735	उत्तर प्रदेश	आगरा	झांसी	झांसी	झांसी	एचओ	284001
736	उत्तर प्रदेश	आगरा	मैनपुरी	मैनपुरी	मैनपुरी	एचओ	205,001
737	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	मिर्जापुर	मिर्जापुर	मिर्जापुर	एचओ	231,001
738	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	गोरखपुर	कुंजराघाट	कुंजराघाट	एचओ	273,008
739	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	आगरा का किला	आगरा का किला	एचओ	282,003
740	उत्तर प्रदेश	बरेली	मुरादाबाद	रामपुर	रामपुर	एचओ	244,901
741	उत्तर प्रदेश	आगरा	इटावा	इटावा	इटावा	एचओ	206,001
742	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	बस्ती	बस्ती	बस्ती	एचओ	272,001
743	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	गाज़ियाबाद	एचओ	201,001

744	उत्तर प्रदेश	आगरा	झांसी	उरई	उरई	एचओ	285,001
745	उत्तर प्रदेश	बरेली	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	एचओ	244,001
746	उत्तर प्रदेश	आगरा	मैनपुरी	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	एचओ	283,203
747	उत्तर प्रदेश	आगरा	इटावा	औरैया	औरैया	एचओ	206,122
748	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	बस्ती	बंसी	बंसी	एचओ	272,153
749	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मुख्यालय	रायबरेली	लालगंज (रायबरेली)	लालगंज (रायबरेली)	एचओ	229,206
750	उत्तर प्रदेश	आगरा	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	एचओ	284,403
751	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून	देहरादून कैट	देहरादून कैट	एचओ	248,003
752	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून	देहरादून जीपीओ	देहरादून जीपीओ	एचओ	248,001
753	उत्तराखंड	देहरादून	पौड़ी	कोटद्वार	कोटद्वार	एचओ	246,149
754	उत्तराखंड	देहरादून	नैनीताल	नैनीताल	नैनीताल	एचओ	263,002
755	उत्तराखंड	देहरादून	चमोली	गोपेश्वर	गोपेश्वर	एचओ	246,401
756	उत्तराखंड	देहरादून	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	एचओ	263,601
757	उत्तराखंड	देहरादून	पौड़ी	लैंसडाउन	लैंसडाउन	एचओ	246,155
758	उत्तराखंड	देहरादून	पौड़ी	पौड़ी	पौड़ी	एचओ	246,001
759	उत्तराखंड	देहरादून	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	एचओ	262,501
760	उत्तराखंड	देहरादून	टिहरी	टिहरी	टिहरी	एचओ	249,001
761	उत्तराखंड	देहरादून	अल्मोड़ा	रानीखेत	रानीखेत	एचओ	263,645
762	उत्तराखंड	देहरादून	देहरादून	रुड़की	रुड़की	एचओ	247,667
763	उत्तराखंड	देहरादून	नैनीताल	हल्द्वानी	हल्द्वानी	एचओ	263,139
764	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दक्षिण कोलकाता	टॉलीगंज	टॉलीगंज	एचओ	700,033
765	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	दार्जिलिंग	सिलीगुड़ी	सिलीगुड़ी	एचओ	734,001
766	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	कूचबिहार	कूचबिहार	कूचबिहार	एचओ	736,101
767	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	उत्तर हुगली	चिनसुरा	चिनसुरा	एचओ	712,101
768	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी	जलपाईगुड़ी	एचओ	735,101
769	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बड़ाबाजार	बड़ाबाजार	बड़ाबाजार	एचओ	700,007
770	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बारासात	बारासात	बारासात	एचओ	700,124
771	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नादिया उत्तर	कृष्णानगर	कृष्णानगर	एचओ	741,101
772	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	मिदनापुर	मिदनापुर	मिदनापुर	एचओ	721,101
773	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कलकत्ता उत्तर प्रेसीडेंसी	बेलघरिया	बेलघरिया	एचओ	700,056
774	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता केन्द्रीय	पार्क स्ट्रीट	पार्क स्ट्रीट	एचओ	700,016
775	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता उत्तर	काशीपुर	काशीपुर	एचओ	700,002
776	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	पश्चिम दिनाजपुर	बालुरघाट	बालुरघाट	एचओ	733,101
777	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	बांकुरा	बांकुरा	बांकुरा	एचओ	722,101
778	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	कोंटाई	कोंटाई	कोंटाई	एचओ	721,401
779	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	तामलुक	तामलुक	तामलुक	एचओ	721,636
780	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	जलपाईगुड़ी	मल	मल	एचओ	735,221

781	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	मिदनापुर	झारग्राम	झारग्राम	एचओ	721,507
782	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता पूर्व	बेलेघाट	बेलेघाट	एचओ	700,010
783	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	अलीपुर	अलीपुर	अलीपुर	एचओ	700,027
784	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	पुरुलिया	पुरुलिया	पुरुलिया	एचओ	723,101
785	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मुर्शिदाबाद	बरहामपुर	बरहामपुर	एचओ	742,101
786	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	आसनसोल	दुर्गापुर	दुर्गापुर	एचओ	713,201
787	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मुर्शिदाबाद	कंडी	कंडी	एचओ	742,137
788	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	मालदा	मालदा	मालदा	एचओ	732,101
789	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बीरभूम	रामपुरहाट	रामपुरहाट	एचओ	731,224
790	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कलकत्ता दक्षिण प्रेसीडेंसी	बरूईपुर	बरूईपुर	एचओ	700,144
791	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नादिया उत्तर	नवद्वीप	नवद्वीप	एचओ	741,302
792	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	बर्दवान	कटवा	कटवा	एचओ	713,130
793	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बीरभूम	सूरी	सूरी	एचओ	731,101
794	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कलकत्ता दक्षिण प्रेसीडेंसी	डायमंड हार्बर	डायमंड हार्बर	एचओ	743,331
795	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मुर्शिदाबाद	रघुनाथगंज	रघुनाथगंज	एचओ	742,225
796	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नादिया दक्षिण	रानाघाट	रानाघाट	एचओ	741,201
797	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नादिया दक्षिण	कल्याणी	कल्याणी	एचओ	741,235
798	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	हुगली दक्षिण	श्रीरामपुर	श्रीरामपुर	एचओ	712,201
799	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	हुगली उत्तर	आरामबाग	आरामबाग	एचओ	712,601
800	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	हावड़ा	सालकिया	सालकिया	एचओ	711,106
801	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	हावड़ा	हावड़ा	हावड़ा	एचओ	711,101
802	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बारासात	बशीरहाट	बशीरहाट	एचओ	743,411
803	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कलकत्ता उत्तर प्रेसीडेंसी	बैरकपुर	बैरकपुर	एचओ	700,120
804	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता जीपीओ	कोलकाता जीपीओ	कोलकाता जीपीओ	एचओ	700001
805	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	आसनसोल	आसनसोल	आसनसोल	एचओ	713,301
806	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	आसनसोल	रानीगंज	रानीगंज	एचओ	713,347
807	पश्चिम बंगाल	दक्षिण बंगाल	बर्दवान	बर्दवान	बर्दवान	एचओ	713,101
808	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	दार्जिलिंग	एचओ	734,101
809	पश्चिम बंगाल	उत्तर बंगाल और सिक्किम	सिक्किम	गंगटोक	गंगटोक	एचओ	737,101
810	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एक द्वीप	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर एचओ	एचओ	744,101

अनुबंध III

सौवरेन स्वर्ण बांड 2018-19- शृंखला। के लिए प्राप्तकर्ता कार्यालयों के रूप में प्राधिकृत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सूची

1. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
2. बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2019

G.S.R. 394(E) —In exercise of the powers conferred by clause (iii) of section 3 of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:

1. Short title and commencement.-

- (i) This scheme may be called the Sovereign Gold Bond Scheme 2019-20.
- (ii) There will be a distinct Series (starting from Series I) for every tranche which will be indicated on the Bond issued to the investor.
- (iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definition.-

In this Scheme, unless the context otherwise requires:

- a) “Form” means a form appended to this Scheme;
- b) “Receiving office” means the offices or branches of all Scheduled Commercial Banks except Small Finance Banks and Payment Banks (as specified in Annexure I to this Notification), designated Post Offices (as specified in Annexure II to this Notification), Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) and the authorised stock exchanges as specified in Annexure III to this Notification.
- c) “Stock Certificate” means the Gold Bond issued in the form of Government of India Stock in accordance with section 3 of the Government Securities Act, 2006.

3. Eligibility for Investment.-

The Gold Bonds under this Scheme may be held by a Trust, HUFs, Charitable Institution, University or by a person resident in India, being an individual, in his capacity as such individual, or on behalf of minor child, or jointly with any other individual.

Explanation— For the purposes of this paragraph:

- (i) “person” shall have the same meaning as defined in clause (u) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
- (ii) the expression “person resident in India” shall have the same meaning as defined in clause (v) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
- (iii) “Trusts” to mean a trust constituted/formed as per the Indian Trusts Act, 1882, or a public or private trust constituted or recognized under the provisions of any Central or State law for the time being in force and also an express or constructive trust constituted for either a public religious or charitable purpose or both which includes a temple, a math, a wakf, a church, a synagogue, anagary or any other place of public religious worship, or a dharmada or any other religious or charitable endowment and also a society, formed either for a religious or charitable purpose or for both, registered under the Societies Registration Act, 1860 or under any other law for the time being in force in India.
- (iv) “Charitable Institution” to mean a Company registered under Section 25 of the Indian Companies Act, 1956 or under Section 8 of the Companies Act, 2013; or an institution, which has obtained a Certificate of Registration as a charitable institution in accordance with a law in force; or Any institution which has obtained a certificate from an Income Tax Authority for the purposes of Section 80G of the Income Tax Act, 1961.
- (v) “University” means a university established or incorporated by a Central, State or Provincial Act, and includes an institution declared under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), to be a university for the purposes of the Act.

4. Denomination, Subscription limit and Pricing.—

- (i) The bonds will be issued in denominations of one gram of gold or multiples thereof;

Provided that the minimum limit of subscription for the Bonds issued shall be of one gram and maximum limit of subscription per fiscal year shall be of 4 kg for individuals, 4 kg for Hindu Undivided Family (HUF) and 20 kg for trusts and similar entities notified by the Government from time to time;

Provided that in case of joint holding, the above limits shall be applicable to the first applicant only;

Provided that the annual ceiling will include bonds subscribed under different tranches during initial issuance by Government and those purchased from the secondary market; and

Provided further that the ceiling on investment will not include the holdings as collateral by banks and other Financial Institutions.

- (ii) The nominal value of Gold Bonds shall be in Indian Rupees fixed on the basis of simple average of closing price of gold of 999 purity, published by the India Bullion and Jewelers Association Limited, for the last 3 working days of the week preceding the subscription period.
- (iii) The issue price of the Gold Bonds will be ` 50 per gram less than the nominal value to those investors applying online and the payment against the application is made through digital mode.

5. Procedure for making application for subscription to Gold Bonds—

- (i) Any person who is desirous of subscribing to the Gold Bonds shall apply to any receiving office in **Form 'A'** or in any other form as near as thereto, stating clearly the grams of gold, full name and address of the applicant/s.
- (ii) Every application shall contain such documents and particulars as specified in the instructions contained in the Application Form.
- (iii) Every application must be accompanied by the 'PAN Number' issued by the Income Tax Department to Individuals and other entities.
- (iv) On receipt of an application under sub paragraph (i), the receiving office shall issue an acknowledgment receipt in **Form 'B'**, if all requirements of the application are fulfilled.
- (v) An incomplete application is liable to be rejected.

6. Date and form of issue of Gold Bonds.—

- (i) The Gold Bonds shall be issued in the form of a Stock Certificate, as specified in **Form 'C'**.
- (ii) The Gold Bonds shall be eligible to be converted into Demat form.

7. Period of subscription.-

The Subscription of the Gold Bonds under this Scheme shall be open as specified in Section 8 below.

Provided that the Central Government may, with prior notice, close the Scheme at any time before the period specified above.

8. Calendar of Issuance.-

S.No.	Tranche	Date of Subscription	Date of Issuance
1	2019-20 Series I	June 03-07, 2019	June 11, 2019
2	2019-20 Series II	July 08-12, 2019	July 16, 2019
3	2019-20 Series III	August 05-09, 2019	August 14, 2019
4	2019-20 Series IV	September 09-13, 2019	September 17, 2019

9. Interest.-

- (i) The interest on the Gold Bonds shall commence from the date of issue and shall be paid at a fixed rate of 2.50 percent per annum on the nominal value of the bond.
- (ii) The interest shall be payable in half-yearly rests and the last interest shall be payable along with the principal on maturity.

10. Receiving Offices.-

The receiving offices shall be authorised to receive applications for the bonds either directly or through agents.

11. Payment Options.-

- (i) All payments for Gold Bonds shall be accepted in Indian Rupees through cash (upto a maximum of ₹ 20,000/-) or demand draft, or cheque, or electronic banking.
- (ii) Where payment is made through cheque or demand draft, the same shall be drawn in favour of the receiving office.

12. Redemption.-

- (i) The Gold Bonds shall be repayable on the expiration of eight years from the date of the issue of the Bonds:
Provided that premature redemption of Gold Bonds may be permitted after fifth year from the date of issue of Bonds and such repayments will be made on next interest payment date.
- (ii) On maturity, the Gold Bonds shall be redeemed in Indian Rupees and the redemption price shall be based on simple average of closing price of gold of 999 purity of previous 3 working days, published by the India Bullion and Jewelers Association Limited.
- (iii) The RBI / depository shall inform the investor one month in advance, about the date of maturity of the Bond.

13. Eligibility for Statutory Liquidity Ratio.-

Bonds acquired by the banks through the process of invoking lien/ hypothecation/ pledge alone, shall be counted towards Statutory Liquidity Ratio.

14. Loan against Bonds.-

- (i) The Gold Bonds issued under this Scheme may be used as collateral security for availing any loan. Such loans could be granted by marking lien on SGB appropriately.
- (ii) The Loan to Value ratio as applicable to any ordinary gold loan mandated by the Reserve Bank of India shall also apply to the Bonds issued under this Scheme.

Note : The loan against SGBs would be subject to decision of the bank/financing agency, and cannot be inferred as a matter of right.

15. Tax Treatment.

The interest on the Gold Bond shall be taxable as per the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). The capital gains tax arising on redemption of these bonds to an individual is exempted. The indexation benefit will be provided to long-term capital gains arising to any person on transfer of bond.

16. Nomination.-

- (i) Nomination of and its cancellation shall be made in **Form 'D'** and **Form 'E'**, respectively, in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December 2007.
- (ii) An individual Non-Resident Indian may get the security transferred in his name on account of his being a nominee of a deceased investor;
Provided that the Non-Resident investor shall need to hold the security till early redemption or till maturity;
Provided further that the interest and maturity proceeds of the investment shall not be repatriable.

17. Transfer of Gold Bonds.-

The Gold Bonds issued in the form of Stock Certificate are transferable by execution of an Instrument of transfer as in **Form 'F'**, in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 (38 of 2006) and the Government Securities Regulations, 2007, published in part III, Section 4 of the Gazette of India dated the 1st December 2007.

18. Trading of Gold Bonds.-

The Gold Bonds shall be eligible for trading from such date as may be notified by the Reserve Bank of India.

19. Commission for mobilizing subscription.-

The commission for mobilising subscription towards these bonds shall be paid at the rate of Rupee one per hundred Rupees of the total subscription received by the receiving offices and receiving offices shall share at least 50% of the commission so received with the agents or sub agents for the business procured through them.

- 20. All other terms and conditions specified in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) vide number F. No.4(2) W&M/2018, dated the 27th March, 2018 shall apply to the Gold Bonds issued under this scheme.

[F. No. 4(7)-B(W&M)/2019]

By Order of the President of India,
ARVIND SHRIVASTAVA, Jt. Secy.



APPLICATION FORM FOR SOVEREIGN GOLD BOND 2019-20

(Put ✓ wherever required)

[illegible]

Mode of Subscription ☐ Cash ☐ Cheque / DD ☐ Electronic Transfer

	Grams of Gold Applied for	Cheque / Demand Draft Drawn on (Name of the Bank & Branch)	Cheque / Demand Draft No.	Dated
(In figures)				
(In words)				

Amount: Rs. (in figures) (in words)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Applicant status: Resident Individual [], Trusts [], Charitable Institution [], University [], others [], Please specify: _____

Applicant(s) Detail (in block letters)

EXISTING RBI INVESTOR ID, IF ANY

FIRST/ SOLE APPLICANT'S NAME IN FULL,

[illegible][illegible]

Passer/Gadiala/FRANCANT'S Sole AIDE (Not any one of the above)

[illegible]

Passport/Aadhar / PAN /TAN / Voter ID No. (any one of the above)

Guardian (in case of minor)

[illegible]

Passport/Aadhar / PAN /TAN / Voter ID No. (any one of the above)

FIRST/ SOLE APPLICANT'S / GUARDIAN'S ADDRESS IN FULL (DO NOT FILL IN NAME AGAIN)

[illegible]

CONTACT DETAILS

[illegible]

BANK PARTICULARS FOR PAYMENT OF INTEREST WARRANT/ REDEMPTION

Account Holder Name		
Bank Name	Account No.	<div></div>
Branch Name /Address	IFSC Code	<div></div>
Account Type <input type="checkbox"/> SB Account <input type="checkbox"/> Current Account		

Nominee details- Nomination Form (as applicable) to be filled and attached

Depository participant details (to avail of option to hold the bond in demat form)Depository Name ☐ NSDL ☐ CDSL (For NSDL, enter 8 digit dp ID followed by 8 digit client ID, For CDS Lenter 16 digit client ID)

DP/ Client ID																		
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Declaration: I/We hereby declare and undertake that (i) my/our aggregate investment in Sovereign Gold Bonds 2019-20 – Series I/II/III/IV does not exceed 4kg for individual and HUF & 20 Kg for trust and similar entities during the financial year 2019-20 and (ii) the Information furnished in this application form is correct, (iii) I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors (copy attached). The agent/bank has explained the features of the scheme.

Signature
1st ApplicantSignature
2nd ApplicantSignature
GuardianDate

--	--	--	--	--	--	--	--

Place

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date, Bank Stamp & Signature of the
authorized official of the bank/Post Office

In case of thumb impression. attestation by two witnesses

Thumb Impression

Witnesses:

Name of 1st Witness Name of 2nd Witness _____

Address _____

Signature _____

H.U.F. declaration (mandatory, if applicant is Karta of HUF)

I,.....,residing at the address given against First Applicant ,do solemnly affirm that Iam the Karta of the Hindu Undivided Family and as such have full power stoesell, endorse, transfer or otherwise edealin the Sovereign Goldbonds 2019-20 – Series I/II/III/IV, standing in the name of the HUF.

Specimen signature for and on behalf of the HUF (name of the HUF)

Place _____

Date _____

(Signature of the Karta with seal of HUF)

For Office use only

Date of receipt of Application (DD/MM/YYYY)	BLA No.	CIF No.	Date of Credit to Govt.A/C (DD/MM/YYYY)	Nomination registered on (DD/MM/YYYY)	HUF declaration obtained (Y/N)	Total limit declaration obtained (Y/N)	NEFT/ECS mandate obtained (Y/N)	Any other information

Part of Form A

Information for Investors of Sovereign Gold Bond 2019-20- Series I/II/III/IV

Item	Sovereign Gold Bond 2019-20 – Series I/II/III/IV
(1) Category of Investor	The Gold Bonds under this Scheme may be held by a Resident trust, HUFs, Charitable Institution, University or an individual.
(2) Limit of investment	Minimum subscription of 1 Gram and Maximum investment of 4kg for individuals and HUF & 20kg for trust and similar entities per investor per annum.
(3) Date of Issue of bonds	Date of receipt of bond will be the same which is inscribed on the holding certificate.
(4) Forms of Bonds	De-mat and Physical (Certificate of Holding).
(5) Interest Option	Half yearly intervals. Interest will be credited directly in to the account mentioned in the application form or in the Account linked with the Demat a/c.
(6) Post Maturity Interest	Post Maturity Interest is not payable .
(7) Bank account	It is mandatory for the investors to provide bank account details to facilitate payment of interest /maturity value.
(8) Nomination Facility	The sole Holder or all the joint holders may nominate a maximum of two persons as nominee.
(9) Maturity period	8 years from the date of issue.
(10) Premature redemption	On the coupon dates after the 5 th year of issuance.
(11) Tradability	Trading of these bonds on stock exchanges shall be notified.
(12) Loans from banks against the security of these bonds	The holders of the said securities shall be entitled to create pledge, hypothecation or lien in favour of scheduled banks.
(13) Application forms	Branches of all the scheduled commercial banks, designated Post offices, SHCIL and authorised stock exchanges.

Instructions for Investors/Applicants

- Application should be complete in all respects.
- Incomplete applications may be rejected or delayed till full particulars are available.
- In case the application is submitted by a Power of Attorney (POA) holder, please submit original POA for verification, along with an attested copy.
- In case the application is on behalf of a minor, please submit the original birth certificate from the School or Municipal Authorities for verification, together with an attested copy.
- Please note that nomination facility is available to a Sole Holder or all the joint holders (investors) of an SGB.
- In case nominee is a minor, please indicate the date of birth of the minor and a guardian can be appointed.
- Nomination facility is **not available** in case the investment is **on behalf of minor**.
- Please provide bank account details for receiving payment through Electronic mode.
- Please notify the change of bank account, if any, immediately.
- POST MATURITY INTEREST IS NOT PAYABLE.
- Indicate your date of birth.

Rights of the Investors

- Holding Certificate will be issued to the investor.
- The interest on the bond is paid half-yearly. The servicing of the Interest will be done through the bank account provided in the Application form or through the A/c linked to the de-mat, as the case may be.
- Application forms for investments under Sovereign Gold Bonds 2019-20 – Series I/II/III/IV are available on the website at www.rbi.org.in/finmin.nic.in

- d) A sole holder or all the joint holders may nominate maximum of two nominees to the rights of the bonds.
- e) The nomination will be registered at the Office of Issue and a Certificate of Registration will be issued to the holder.
- f) The nomination can be altered by registering a fresh nomination.
- g) The existing nomination can be cancelled by a request to the Office of Issue.
- h) The investor is entitled to receive repayment amount within five clear working days from the date of tender of application for early redemption.

In case the bank does not comply with the above, you may lodge a complaint in writing in to the nearest office of Reserve Bank of India as under:

**THE REGIONAL DIRECTOR,
RESERVE BANK OF INDIA,
CONSUMER EDUCATION AND PROTECTION DEPARTMENT/
BANKING OMBUDSMAN
(LOCATION)**

YOU MAY ALSO ADDRESS YOUR COMPLAINT TO:

**THE CHIEF GENERAL MANAGER
INTERNAL DEBT MANAGEMENT DEPARTMENT
CENTRAL OFFICE
FORT, MUMBAI-400 001, MAHARASHTRA**

Disclaimer:- I have read and understood the details of information for the investors as well as rights and duties of investors. The agent/bank has explained the features of the scheme to me.

Signature of the applicant

Form 'B'

[See Paragraph 5(4)]

Acknowledgement Receipt

Application No.....

Date/...../.....

Received from Mr./ Mrs. /Ms.Cash/
Demand Draft/Cheque No./Electronic Transfer/..... dated/...../.....
drawn on (Bank and branch)
for ____ grams totaling an amount of `..... (Rupees.....
..... only) for the purchase of Sovereign Gold Bond 2019-20 – Series
I/II/III/IV for a period of 8 years, interest payable on basis of the nominal value of
`.....(Rupees.....
.....only).

(Stamp / Seal of the Receiving Office)

Form 'C'

[See paragraph 6 (1)]



भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड) 2019-20 – सीरिज़ I/II/III/IV

SOVEREIGN GOLD BOND 2019-20 – Series I/II/III/IV

Certificate Number-

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि श्री/ श्रीमती _____ यूनिट राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड) 2019-20 – सीरिज़ I/II/III/IV के कुल प्रारंभिक निवेश ' _____ के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी हूँ। राष्ट्रिक स्वर्ण बंधपत्र (सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड), 2019-20 – सीरिज़ I/II/III/IV के प्रारंभिक निवेश पर प्रति वर्ष _____ प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसका संदाय प्रति छह माह पर _____ तारीख और _____ तारीख को प्रतिवर्ष किया जाएगा। बंधपत्र _____ को उन्मोचनीय होगा और बंधपत्र के समय पूर्व उन्मोचन का विकल्प पांच वर्ष बाद ब्याज भुगतान की तारीखों को उपलब्ध होगा।

I hereby certify that, Smt. /Shri _____

is the registered holder of _____ units of Sovereign Gold Bond 2019-20 – Series I/II/III/IV. The Sovereign Gold Bond 2019-20 – Series –I/II/III/IV will bear interest at _____percent per annum on initial investment of `_____, payable at half yearly intervals on _____and _____ every year. The Bonds are redeemable on _____ with the option for early redemption after fifth year on interest payment dates.

आवेदन प्राप्तकर्ता कार्यालय

Application Receiving Office

यह प्रमाणपत्र प्रणाली आधारित है अतः हस्ताक्षर आवश्यक नहीं।

This is a system generated certificate and does not require any signature.

Form 'D'

[See paragraph 16]

NOMINATION

I/We (Name and address), the holder/s of Stock certificate /BLA No.....for the loan..... hereby nominate the following person/s who shall on my/our death have the right to the Government securities/Bonds and receive payment of the amount for the time being due on the Government securities/Bonds specified below:

PARTICULARS OF NOMINEE:

Date of issue	Amount ₹	Date of repayment	Full name with expanded initials and address of nominee	Date of birth in case of minor	Relation-Ship to holder/s	Particulars Of bank account

To be filled in case if nominee is minor: As..... the sole nominee above is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt./Kum

.....to receive the amount for the time being

Due to the above Government securities/Bond in the event of my/our death during the minority of the said nominee.....

If the nomination is in substitution of the one already made: This nomination is in substitution of the nomination dated.....made by me/us and registered on your books at.....which shall stand cancelled on registration of this nomination.

Place: (Signature(s) of the Stock Certificate holder(s) /BLA holder(s))

Date :

Signature with name and address of witnesses:

1.....

2.....

Acknowledgment

We acknowledge having registered the nomination in favour of..... (Name of nominees) for the Stock Certificate/BLA No.for the loan..... and the nomination registration no. is..... Please quote the above nomination registration no. in all communication pertaining to change or cancellation of nomination.

Date:.....

Authorised Official.....

Form 'E'

[See paragraph 16]

CANCELLATION OF NOMINATION

I/We.....(name and address) do hereby cancel the nomination dated..... made by me/us in respect of the following Stock certificate/Bond Ledger Account No., and registered by the Public Debt Office/branch of the Agency bank on.....(date) vide Registration No.....

Particulars of the Stock Certificate/Bonds

Date of Issue	Nomenclature of The	Stock Certificate/ BLA No.	Amount (₹)

Place:_____

(Signature(s) of the Stock Certificate holder(s)

Date:_____

/BLA holder(s))

Signature with name and address of witnesses:

1.....

2.....

Acknowledgment

We acknowledge having cancelled the nomination in favour of (Name of Nominees) for the Stock Certificate/BLA No.....for the loannoted vide our nomination registration No..... Dated.....

Date:.....

Authorised Official.....

Form 'F'

[See paragraph 17]

TRANSFER OF STOCK CERTIFICATES

I/We* (transferor/s) do hereby assign and transfer my/our* interest or share in the inscribed stock certificate number.....of percent Government Loan of amounting to ₹..... being the amount /a portion of the stock for ₹..... as specified on the face of this instrument together with the accrued interest thereon to(transferee/s), his / her /their* executors, administrators or assigns, and I/We* do freely accept the stock certificate numberto the extent it has been transferred to me/us*.

I/We*(transferee/s) hereby request that on my/our* being registered as the holder/s of the stock transferred to me/us*, the above stock certificate to the extent it has been transferred to me/us* may be renewed in my/our*name (s)/converted in my/our*name(s).

@I/We*(transferor/s) hereby request that on the above transferee(s) being registered as the holder/s of the stock hereby transferred to him/them*, the aforesaid stock certificate to the extent it has not been transferred to him/them* may be renewed in my/our*name(s).

As witness, our hand the day of two thousand and

Signed by the above-named transferor In the presence of**	Signature of transferor..... Address:.....
Signed by the above-named transferee In the presence**	Signature of transferee.....

*: Delete whichever is not applicable.

@: This paragraph is to be used only when a portion of the Certificate is transferred.

** : Signature, occupation and address of witness. Witness should be different for Transfer or and transferee.

Transferred:

Stock Certificate issued No/s.....dated..... Manager, Reserve Bank of India,.....

Annexure I

(Refer to para 2(b) of notification dated April , 2019)

List of Scheduled Commercial Banks

<u>PUBLIC SECTOR BANKS</u>		<u>PRIVATE BANKS</u>	
1	State Bank of India	1	Axis Bank Ltd.
2	Allahabad Bank	2	Catholic Syrian Bank Ltd.
3	Andhra Bank	3	City Union Bank Ltd.
4	Bank of Baroda	4	Development Credit Bank Ltd.
5	Bank of India	5	Dhanlaxmi Bank Ltd.
6	Bank of Maharashtra	6	Federal Bank Ltd.
7	Canara Bank	7	HDFC Bank Ltd.
8	Central Bank of India	8	ICICI Bank Ltd.
9	Corporation Bank	9	IndusInd Bank Ltd.
10	Dena Bank	10	Jammu & Kashmir Bank Ltd.
11	Indian Bank	11	Karnataka Bank Ltd.
12	Indian Overseas Bank	12	Karur Vysya Bank Ltd.
13	Oriental Bank of Commerce	13	Kotak Mahindra Bank Ltd.
14	Punjab National Bank	14	Lakshmi Vilas Bank Ltd.
15	Punjab & Sind Bank	15	Nainital Bank Ltd.
16	Syndicate Bank	16	Ratnakar Bank Ltd.
17	Union Bank of India	17	South Indian Bank Ltd.
18	United Bank of India	18	Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
19	UCO Bank	19	Yes Bank Ltd.
20	Vijaya Bank	20	Bandhan Bank
21	IDBI Bank Ltd	21	IDFC Bank Ltd.

<u>FOREIGN BANKS</u>			
1	The Royal Bank of Scotland N.V	23	Mizuho Corporate Bank Ltd.
2	Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.	24	Oman International Bank
3	Antwerp Diamond Bank N.V	25	Societe Generale
4	Arab Bangladesh Bank Ltd.(AB Bank)	26	Sonali Bank
5	Bank International Indonesia	27	Standard Chartered Bank
6	Bank of America	28	State Bank of Mauritius
7	Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C	29	JSC - VTB Bank
8	Bank of Ceylon	30	UBS AG
9	Bank of Nova Scotia	31	American Express Banking Corporation
10	Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd.	32	First Rand Bank Ltd.
11	Barclays Bank	33	Commonwealth Bank of Australia
12	BNP Paribas	34	United Overseas Bank Ltd.
13	China Trust Bank	35	Credit Suisse A.G
14	Shinhan Bank	36	Sberbank
15	Citibank N.A	37	Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
16	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	38	Rabobank International
17	Deutsche Bank	39	National Australia Bank
18	DBS Bank Ltd.	40	Woori Bank
19	Hongkong and Shanghai Banking Corpn. Ltd.	41	Industrial & Commercial Bank of China
20	J.P.Morgan Chase Bank N.A	42	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
21	Krung Thai Bank	43	Westpac Banking Corporation
22	Mashreqbank	44	Doha Bank

Annexure-II
(Refer to para 2(b) of notification dated April , 2019)

List of Post Offices Identified for Sale of Sovereign Gold Bonds							
Sl. No	Circle	REGION	Division	Head Office	Name of Office	Office Type	PIN
1	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	SRIKAKULAM	Srikakulam	Srikakulam	HO	532001
2	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	SRIKAKULAM	Tekkali	Tekkali	HO	532201
3	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	NELLORE	Nellore	Nellore	HO	524001
4	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	AMALAPURAM	Amalapuram	Amalapuram	HO	533201
5	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	AMALAPURAM	Razole	Razole	HO	533242
6	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD CITY	HYDERABAD SOUTH EAST	Hyderabad Jubilee	Hyderabad Jubilee	HO	500002
7	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD CITY	SECUNDERABAD	Secunderabad	Secunderabad	HO	500003
8	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	VIJAYAWADA	Vijayawada	Vijayawada	HO	520001
9	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	TIRUPATHI	Tirupathi	Tirupathi	HO	517501
10	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	BHIMAVARAM	Tanuku	Tanuku	HO	534211
11	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	NARASARAOPET	Narasaraopet	Narasaraopet	HO	522601
12	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	RAJAHMUNDURY	Rajamundhry	Rajamundhry	HO	533101
13	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	RAJAHMUNDURY	Ramachandrapuram	Ramachandrapuram	HO	533255
14	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	KHAMMAM	Khammam	Khammam	HO	507001
15	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	NELLORE	Kavali	Kavali	HO	524201
16	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	GUNTUR	Mangalagiri	Mangalagiri	HO	522503
17	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	TENALI	Tenali	Tenali	HO	522201
18	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	VIZHIANAGARAM	Vizhianagaram	Vizhianagaram	HO	535002
19	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	KURNOOL	Kurnool	Kurnool	HO	518001
20	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	TIRUPATHI	Sri Kalahasti	Sri Kalahasti	HO	517644
21	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	KAKINADA	Kakinada	Kakinada	HO	533001
22	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	MACHILIPATTNAM	Machilipattnam	Machilipattnam	HO	521001
23	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	GUDIVADA	Gudivada	Gudivada	HO	521301
24	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	GUNTUR	Guntur	Guntur	HO	522002
25	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	BHIMAVARAM	Palakol	Palakol	HO	534260
26	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	ADILABAD	Adilabad	Adilabad	HO	504001
27	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	NIZAMABAD	Nizamabad	Nizamabad	HO	503001
28	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	NANDYAL	Nandyal	Nandyal	HO	518501
29	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	NARASARAOPET	Sattenapalle	Sattenapalle	HO	522403
30	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	CUDDAPAH	Rajampet	Rajampet	HO	516115
31	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	KURNOOL	Adoni	Adoni	HO	518301
32	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	GUDIVADA	Nuzvid	Nuzvid	HO	521201
33	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	MACHILIPATTNAM	Avanigadda	Avanigadda	HO	521121
34	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	MEDAK	Medak	Medak	HO	502110
35	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	NALGONDA	Nalgonda	Nalgonda	HO	508001
36	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	NIZAMABAD	Kamareddy	Kamareddy	HO	503111
37	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	ANANTAPUR	Guntakal	Guntakal	HO	515801
38	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	MAHABUBNAGAR	MahabubNagar	Mahabub Nagar	HO	509001

39	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	NALGONDA	Bhongir	Bhongir	HO	508116
40	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	WARANGAL	Warangal	Warangal	HO	506002
41	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	ANANTAPUR	Anantapur	Anantapur	HO	515001
42	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	TIRUPATHI	Chandragiri	Chandragiri	HO	517101
43	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	HANAMKONDA	Hanamkonda	Hanamkonda	HO	506001
44	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	KARIMNAGAR	Karimnagar	Karimnagar	HO	505001
45	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	NIZAMABAD	Armoor	Armoor	HO	503224
46	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	TADEPALLIGUDE M	Tadepalligudem	Tadepalligudem	HO	534101
47	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	HANAMKONDA	Jangaon	Jangaon	HO	506167
48	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	PEDDAPALLI	Peddapalli	Peddapalli	HO	505172
49	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	SANGAREDDY	Sangareddy	Sangareddy	HO	502001
50	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	WANAPARTHY	Wanaparthi	Wanaparthi	HO	509103
51	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	WARANGAL	Mahabubabad	Mahabubabad	HO	506101
52	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	ELURU	Eluru	Eluru	HO	534001
53	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	VIJAYAWADA	Bhuckingampet	Bhuckingampet	HO	520002
54	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	KARIMNAGAR	Jagtial	Jagtial	HO	505327
55	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	SURYAPET	Suryapet	Suryapet	HO	508213
56	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD CITY	HYDERABAD CITY	Khairatabad	Khairatabad	HO	500004
57	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	CUDDAPAH	Cuddapah	Cuddapah	HO	516001
58	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	BHIMAVARAM	Bhimavaram	Bhimavaram	HO	534201
59	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	KHAMMAM	Bhadrachalam	Bhadrachalam	HO	507111
60	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	PARVATHIPURAM	Bobbili	Bobbili	HO	535558
61	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	PARVATHIPURAM	Parvathipuram	Parvathipuram	HO	535501
62	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	MEDAK	Siddipet	Siddipet	HO	502103
63	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	PEDDAPALLI	Huzurabad	Huzurabad	HO	505468
64	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	CHITTOOR	Chittoor	Chittoor	HO	517001
65	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	PRAKASAM	Chirala	Chirala	HO	523155
66	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	KAKINADA	Samalkot	Samalkot	HO	533440
67	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	VISAKHAPATNAM	Visakhapatnam	Visakhapatnam	HO	530001
68	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	PRAKASAM	Kandukur	Kandukur	HO	523105
69	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	SANGAREDDY	Zahirabad	Zahirabad	HO	502220
70	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD CITY	SECUNDERABAD	Trimulgherry	Trimulgherry	HO	500015
71	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	PRAKASAM	Ongole	Ongole	HO	523001
72	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	TADEPALLIGUDE M	Kovvur	Kovvur	HO	534350
73	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	TENALI	Bapatla	Bapatla	HO	522101
74	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	ANAKAPALLE	Anakapalle	Anakapalle	HO	531001
75	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	ANAKAPALLE	Narsipatnam	Narsipatnam	HO	531116
76	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	HANAMKONDA	Parkal	Parkal	HO	506164
77	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	SURYAPET	Miryalguda	Miryalguda	HO	508207
78	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD CITY	HYDERABAD GPO	Hyderabad GPO	Hyderabad GPO	HO	500001
79	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	HINDUPUR	Dharmavaram	Dharmavaram	HO	515671
80	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	ELURU	Jangareddygudem	Jangareddygudem	HO	534447

81	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	KHAMMAM	Kothagudem Colls	Kothagudem Colls	HO	507101
82	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	SRIKAKULAM	Amadalavalasa	Amadalavalasa	HO	532185
83	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	ADILABAD	Mancherial	Mancherial	HO	504208
84	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	MAHABUBNAGAR	Gadwal	Gadwal	HO	509125
85	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD	WANAPARTHY	Stn. Jadcherla	Stn. Jadcherla	HO	509301
86	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	NANDYAL	Markapur	Markapur	HO	523316
87	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	GUDUR	Gudur	Gudur	HO	524101
88	ANDHRA PRADESH	VIJAYAWADA	PRAKASAM	Kanigiri	Kanigiri	HO	523230
89	ANDHRA PRADESH	VISAKHAPATNAM	VISAKHAPATNAM	Waltair R S	Waltair RS	HO	530004
90	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD CITY	HYDERABAD SOUTH EAST	Stn. Kachiguda	Stn. Kachiguda	HO	500027
91	ANDHRA PRADESH	HYDERABAD CITY	SECUNDERABAD	Vikarabad	Vikarabad	HO	501101
92	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	HINDUPUR	Hindupur	Hindupur	HO	515201
93	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	PRODDATUR	Pulivendla	Pulivendla	HO	516390
94	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	CHITTOOR	Madanapalle	Madanapalle	HO	517325
95	ANDHRA PRADESH	KURNOOL	PRODDATUR	Proddatur	Proddatur	HO	516360
96	ASSAM	GUWAHATI HQ	GUWAHATI	Guwahti	Guwahati	HO	781001
97	ASSAM	DIBRUGARH	DARRANG	Tezpur	Tezpur	HO	784001
98	ASSAM	DIBRUGARH	NAGAON	Nagaon	Nagaon	HO	782001
99	ASSAM	DIBRUGARH	TINSUKIA	Tinsukia	Tinsukia	HO	786125
100	ASSAM	DIBRUGARH	DARRANG	Mangaldoi	Mangaldoi	HO	784125
101	ASSAM	DIBRUGARH	SIBSAGAR	Golaghat	Golaghat	HO	785621
102	ASSAM	DIBRUGARH	SIBSAGAR	Jorhat	Jorhat	HO	785001
103	ASSAM	DIBRUGARH	DIBRUGARH	Dibrugarh	Dibrugarh	HO	786001
104	ASSAM	DIBRUGARH	SIBSAGAR	Sivasagar	Sivasagar	HO	785640
105	ASSAM	GUWAHATI HQ	NALBARI	Nalbari	Nalbari	HO	781335
106	ASSAM	GUWAHATI HQ	GUWAHATI	Guwhathi University	Guwhathi University	HO	781014
107	ASSAM	GUWAHATI HQ	NALBARI	Barpeta	Barpeta	HO	781301
108	ASSAM	DIBRUGARH	DIBRUGARH	North Lakhimpur	North Lakhimpur	HO	787001
109	ASSAM	DIBRUGARH	CACHAR	Silchar	Silchar	HO	788001
110	ASSAM	DIBRUGARH	NAGAON	Diphu	Diphu	HO	782460
111	ASSAM	DIBRUGARH	CACHAR	Karimganj	Karimganj	HO	788710
112	ASSAM	GUWAHATI HQ	GOALPARA	Kokrajhar	Kokrajhar	HO	783370
113	ASSAM	GUWAHATI HQ	GOALPARA	Dhubri	Dhubri	HO	783301
114	ASSAM	DIBRUGARH	CACHAR	Hailakandi	Hailakandi	HO	788151
115	BIHAR	PATNA HQ	PATNA	Bankipore	Bankipore	HO	800004
116	BIHAR	PATNA HQ	BHOJPUR	Arrah	Arrah	HO	802301
117	BIHAR	PATNA HQ	BHAGALPUR	Bhagalpur	Bhagalpur	HO	812001
118	BIHAR	PATNA HQ	MONGHYR	Munger	Munger	HO	811201
119	BIHAR	PATNA HQ	NALANDA	Biharsharif	Biharsharif	HO	803101
120	BIHAR	MUZAFFARPUR	MADHUBANI	Madhubani	Madhubani	HO	847211
121	BIHAR	MUZAFFARPUR	DARBHANGA	Darbhanga	Darbhanga	HO	846004

122	BIHAR	MUZAFFARPUR	SAHARSA	Saharsa	Saharsa	HO	852201
123	BIHAR	PATNA HQ	BHAGALPUR	Banka	Banka	HO	813102
124	BIHAR	PATNA HQ	Patna GPO	Patna GPO	Patna GPO	HO	800001
125	BIHAR	MUZAFFARPUR	PURNEA	Katihar	Katihar	HO	854105
126	BIHAR	MUZAFFARPUR	PURNEA	Purnea	Purnea	HO	854301
127	BIHAR	MUZAFFARPUR	SARAN	Chapra	Chapra	HO	841301
128	BIHAR	MUZAFFARPUR	SITAMARHI	Sitamarhi	Sitamarhi	HO	843301
129	BIHAR	MUZAFFARPUR	SIWAN	Siwan	Siwan	HO	841226
130	BIHAR	PATNA HQ	AURANGABAD(BIHAR)	Aurangabad(BH)	Aurangabad(BH)	HO	824101
131	BIHAR	PATNA HQ	BHOJPUR	Buxar	Buxar	HO	802101
132	BIHAR	PATNA HQ	GAYA	Jehanabad	Jehanabad	HO	804408
133	BIHAR	PATNA HQ	MONGHYR	Jamui	Jamui	HO	811307
134	BIHAR	MUZAFFARPUR	SAMASTIPUR	Samastipur	Samastipur	HO	848101
135	BIHAR	MUZAFFARPUR	BEGUSARAI	Begusarai	Begusarai	HO	851101
136	BIHAR	MUZAFFARPUR	SARAN	Marhowrah	Marhowrah	HO	841418
137	BIHAR	MUZAFFARPUR	EAST CHAMPARAN	Motihari	Motihari	HO	845401
138	BIHAR	MUZAFFARPUR	WEST CHAMPARAN	Bettiah	Bettiah	HO	845438
139	BIHAR	PATNA HQ	NAWADHA	Nawadha	Nawadha	HO	805110
140	BIHAR	MUZAFFARPUR	MUZAFFARPUR	Muzaffarpur	Muzaffarpur	HO	842001
141	BIHAR	MUZAFFARPUR	SIWAN	Gopalganj	Gopalganj	HO	841428
142	BIHAR	PATNA HQ	GAYA	Gaya	Gaya	HO	823001
143	BIHAR	MUZAFFARPUR	DARBHANGA	Laheriasarai	Laheriasarai	HO	846001
144	BIHAR	PATNA HQ	ROHTAS	Sasaram	Sasaram	HO	821115
145	BIHAR	PATNA HQ	VAISHALI	Hajipur	Hajipur	HO	844101
146	CHHATTISGARH	RAIPUR	RAIPUR	Raipur	Raipur	HO	492001
147	CHHATTISGARH	RAIPUR	BILASPUR	Bilaspur(Bilaspur-CGH)	Bilaspur(Bilaspur-CGH)	HO	495001
148	CHHATTISGARH	RAIPUR	BASTAR	Jagdalpur	Jagdalpur	HO	494001
149	CHHATTISGARH	RAIPUR	DURG	Durg	Durg	HO	491001
150	CHHATTISGARH	RAIPUR	BILASPUR	Korba	Korba	HO	495677
151	CHHATTISGARH	RAIPUR	BASTAR	Kanker	Kanker	HO	494334
152	CHHATTISGARH	RAIPUR	DURG	Rajnandgaon	Rajnandgaon	HO	491441
153	CHHATTISGARH	RAIPUR	RAIGARH	Raigarh	Raigarh	HO	496001
154	CHHATTISGARH	RAIPUR	RAIGARH	Ambikapur	Ambikapur	HO	497001
155	CHHATTISGARH	RAIPUR	Durg	IBSB Bhilai HO	IBSB Bhilai	HO	490001
156	DELHI	DELHI	DELHI GPO	Delhi GPO	Delhi GPO	HO	110006
157	DELHI	DELHI	NEW DELHI CENTRAL	Indraprastha	Indraprastha	HO	110002
158	DELHI	DELHI	NEW DELHI CENTRAL	Sansad Marg	Sansad Marg	HO	110001
159	DELHI	DELHI	DELHI EAST	Jhilmil	Jhilmil	HO	110095
160	DELHI	DELHI	DELHI SOUTH WEST	Sarojini Nagar	Sarojini Nagar	HO	110023
161	DELHI	DELHI	NEW DELHI WEST	Naraina Industrial Estate	Naraina Industrial Estate	HO	110028
162	DELHI	DELHI	NEW DELHI SOUTH	Lodi Road	Lodi Road	HO	110003

163	DELHI	DELHI	DELHI EAST	Krishna Nagar	Krishna Nagar	HO	110051
164	DELHI	DELHI	NEW DELHI WEST	Ramesh Nagar	Ramesh Nagar	HO	110015
165	DELHI	DELHI	NEW DELHI GPO	New Delhi GPO	New Delhi GPO	HO	110001
166	DELHI	DELHI	NEW DELHI SOUTH	Kalkaji	Kalkaji	HO	110019
167	DELHI	DELHI	DELHI NORTH	Ashok Vihar	Ashok Vihar	HO	110052
168	GUJARAT	RAJKOT	BHAVNAGAR	Bhavnagar	Bhavnagar	HO	364001
169	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	GANDHINAGAR	Gandhi Nagar	Gandhi Nagar(Gujarat)	HO	382010
170	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	AHMEDABAD CITY	Navrangpura	Navrangpura	HO	380009
171	GUJARAT	VADODARA	KHEDA	Kheda	Kheda	HO	387411
172	GUJARAT	RAJKOT	JUNAGADH	Junagadh	Junagadh	HO	362001
173	GUJARAT	VADODARA	BHARUCH	Bharuch	Bharuch	HO	392001
174	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	MAHESANA	Mahesana	Mahesana	HO	384001
175	GUJARAT	RAJKOT	GONDAL	Gondal	Gondal	HO	360311
176	GUJARAT	VADODARA	ANAND	Anand	Anand	HO	388001
177	GUJARAT	RAJKOT	SURENDRANAGAR	Surendranagar	Surendranagar	HO	363001
178	GUJARAT	VADODARA	VADODARA EAST	Dabhoi	Dabhoi	HO	391110
179	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	SABARKANTHA	Himatnagar	Himatnagar	HO	383001
180	GUJARAT	RAJKOT	PORBANDAR	Porbandar	Porbandar	HO	360575
181	GUJARAT	VADODARA	KHEDA	Nadiad	Nadiad	HO	387001
182	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	GANDHINAGAR	Kalol	Kalol	HO	382721
183	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	PATAN	Patan	Patan	HO	384265
184	GUJARAT	VADODARA	NAVSARI	Navsari	Navsari	HO	396445
185	GUJARAT	VADODARA	BARDOLI	Bardoli	Bardoli	HO	394601
186	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	AHMEDABAD CITY	Revdibazar	Revdibazar	HO	380002
187	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	GANDHINAGAR	Dholka	Dholka	HO	382225
188	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	BANASANKTHA	Palanpur	Palanpur	HO	385001
189	GUJARAT	AHMEDABAD HQ	AHMEDABAD GPO	Ahmedabad GPO	Ahmedabad GPO	HO	380001
190	GUJARAT	RAJKOT	JAMNAGAR	Jamnagar	Jamnagar	HO	361001
191	GUJARAT	RAJKOT	KUTCH	Bhuj	Bhuj	HO	370001
192	GUJARAT	RAJKOT	RAJKOT	Rajkot	Rajkot	HO	360001
193	GUJARAT	VADODARA	SURAT	Nanpura	Nanpura	HO	395001
194	GUJARAT	VADODARA	SURAT	Surat	Surat	HO	395003
195	GUJARAT	VADODARA	VADODARA EAST	Vadodara	Vadodara	HO	390001
196	GUJARAT	RAJKOT	AMRELI	Amreli	Amreli	HO	365601
197	GUJARAT	VADODARA	NAVSARI	Bilimora	Bilimora	HO	396321
198	GUJARAT	VADODARA	PANCHMAHALS	Dahod	Dahod	HO	389151
199	GUJARAT	VADODARA	PANCHMAHALS	Godhra	Godhra	HO	389001
200	GUJARAT	VADODARA	VADODARA WEST	Fateganj	Fateganj	HO	390002
201	GUJARAT	VADODARA	VALSAD	Valsad	Valsad	HO	396001
202	HARYANA	AMBALA HQ	AMBALA	Ambala GPO	Ambala GPO	HO	133001
203	HARYANA	AMBALA HQ	KURUKSHETRA	Kurukshetra	Kurushkethra	HO	136118

204	HARYANA	AMBALA HQ	FARIDABAD	Faridabad NIT	Faridabad NIT	HO	121001
205	HARYANA	AMBALA HQ	KARNAL	Karnal	Karnal	HO	132001
206	HARYANA	AMBALA HQ	AMBALA	Ambala City	Ambala City	HO	134003
207	HARYANA	AMBALA HQ	GURGAON	Gurgaon	Gurgaon	HO	122001
208	HARYANA	AMBALA HQ	ROHTAK	Rohthak	Rohthak	HO	124001
209	HARYANA	AMBALA HQ	SONEPAT	Sonipat	Sonipat	HO	131001
210	HARYANA	AMBALA HQ	ROHTAK	Bahadurgarh	Bahadurgarh	HO	124507
211	HARYANA	AMBALA HQ	HISSAR	Hisar	Hisar	HO	125001
212	HARYANA	AMBALA HQ	BHIWANI	Bhiwani	Bhiwani	HO	127021
213	HARYANA	AMBALA HQ	KARNAL	Panipat	Panipat	HO	132103
214	HARYANA	AMBALA HQ	KARNAL	Jind	Jind	HO	126102
215	HARYANA	AMBALA HQ	HISSAR	Sirsa	Sirsa	HO	125055
216	HARYANA	AMBALA HQ	AMBALA	Yamunanagar	Yamunanagar	HO	135001
217	HARYANA	AMBALA HQ	Gurgaon	Narnaul	Narnaul HO	HO	123001
218	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	SHIMLA	Shimla GPO	Shimla GPO	HO	171001
219	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	DHARAMSALA	Dharamsala	Dharamsala	HO	176215
220	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	MANDI	Mandi	Mandi	HO	175001
221	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	DEHRA GOPIPUR	Dehra	Dehra	HO	177101
222	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	DEHRA GOPIPUR	Kanghra	Kanghra	HO	176001
223	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	DHARAMSALA	Palampur	Palampur	HO	176061
224	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	HAMIRPUR	Barsar	Barsar	HO	174305
225	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	HAMIRPUR	Bilaspur(Bilaspur- HP)	Bilaspur(Bilaspur- HP)	HO	174001
226	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	SOLAN	Solan	Solan	HO	173212
227	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	RAMPUR BUSHAHR	Rampur Bushahr	Rampur Bushahr	HO	172001
228	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	MANDI	Kullu	Kullu	HO	175101
229	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	SOLAN	Nahan	Nahan	HO	173001
230	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	HAMIRPUR	Hamirpur	Hamirpur	HO	177001
231	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	UNA	Una	Una	HO	174303
232	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	MANDI	Sunder Nagar Town Ship	Sunder Nagar Town Ship	HO	175019
233	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	CHAMBA	Chamba	Chamba HO	HO	176310
234	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	Mandi	Keylong	Keylong HO	HO	175132
235	HIMACHAL PRADESH	SHIMLA HQ	RAMPUR BUSHAHR	Reckong Peo	Recong Peo HO	HO	172107
236	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	JAMMU	Gandhi Nagar	Gandhi Nagar(Jammu)	HO	180004
237	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	JAMMU	Kathua	Kathua	HO	184101
238	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	BARAMULLA	Baramulla	Baramulla	HO	193101
239	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	SRINAGAR	Anantnag	Anantnag	HO	192101
240	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	UDHAMPUR	Udhampur	Udhampur	HO	182101
241	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	JAMMU	Jammu	Jammu	HO	180001

242	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	SRINAGAR	Srinagar GPO	Srinagar GPO	HO	190001
243	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	RAJOURI	Rajouri	Rajouri	HO	185131
244	JAMMU & KASHMIR	SRINAGAR HQ	Ladakh	Leh	Leh	HO	194101
245	JHARKHAND	RANCHI	RANCHI	Doranda	Doranda	HO	834002
246	JHARKHAND	RANCHI	RANCHI	Ranchi GPO	Ranchi GPO	HO	834001
247	JHARKHAND	RANCHI	DHANBAD	Dhanbad	Dhanbad	HO	826001
248	JHARKHAND	RANCHI	SINGHBHUM	Chaibasa	Chaibasa	HO	833201
249	JHARKHAND	RANCHI	DHANBAD	Bokaro Steel City	Bokaro Steel City	HO	827001
250	JHARKHAND	RANCHI	SINGHBHUM	Jamshedpur	Jamshedpur	HO	831001
251	JHARKHAND	RANCHI	HAZARIBAGH	Hazaribagh	Hazaribagh	HO	825301
252	JHARKHAND	RANCHI	HAZARIBAGH	Ramgarh Cantt	Ramgarh Cantt	HO	829122
253	JHARKHAND	RANCHI	PALAMAU	Daltonganj	Daltonganj	HO	822101
254	JHARKHAND	RANCHI	RANCHI	Gumla	Gumla	HO	835207
255	JHARKHAND	RANCHI	GIRIDIH	Giridih	Giridih	HO	815301
256	JHARKHAND	RANCHI	SANTHAL PARGANAS	Dumka	Dumka	HO	814101
257	JHARKHAND	RANCHI	SANTHAL PARGANAS	B.Deoghar	B.Deoghar	HO	814112
258	KARNATAKA	BANGALORE HQ	BANGALORE EAST	H.A.L II Stage	H.A.L II Stage	HO	560008
259	KARNATAKA	BANGALORE HQ	BANGALORE EAST	R T Nagar	R T Nagar	HO	560032
260	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	KARWAR	Karwar	Karwar	HO	581301
261	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	KOLAR	Kolar	Kolar	HO	563101
262	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	HASSAN	Hassan	Hassan	HO	573201
263	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	SIRSI	Sirsi	Sirsi	HO	581401
264	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	MANDYA	Mandya	Mandya	HO	571401
265	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	NANJANGUD	Nanjangud	Nanjangud	HO	571301
266	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	KOLAR	Chickballapur	Chickballapur	HO	562101
267	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	NANJANGUD	Kollegal	Kollegal	HO	571440
268	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	DHARWAD	Dharwad	Dharwad	HO	580001
269	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	HASSAN	Arsikere	Arsikere	HO	573103
270	KARNATAKA	BANGALORE HQ	CHANNAPATNA	Channapatna	Channapatna	HO	562160
271	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BELLARY	Bellary	Bellary	HO	583101
272	KARNATAKA	BANGALORE HQ	BANGALORE GPO	Bangalore GPO	Bangalore GPO	HO	560001
273	KARNATAKA	BANGALORE HQ	BANGALORE SOUTH	Jayanagar	Jayanagar	HO	560041
274	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	PUTTUR	Puttur(DK)	Puttur(DK)	HO	574201
275	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	UDUPI	udupi	udupi	HO	576101
276	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	MANGALORE	Mangalore	Mangalore	HO	575001
277	KARNATAKA	BANGALORE HQ	BANGALORE SOUTH	Basavanagudi	Basavanagudi	HO	560004
278	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	MYSORE	Mysore	Mysore	HO	570001
279	KARNATAKA	BANGALORE HQ	BANGALORE WEST	Jalahalli	Jalahalli	HO	560013

280	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	RAICHUR	Raichur	Raichur	HO	584101
281	KARNATAKA	BANGALORE HQ	BANGALORE WEST	Rajaji Nagar	Rajaji Nagar	HO	560010
282	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BAGALKOT	Bagalkot	Bagalkot	HO	587101
283	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	DHARWAD	Hubli	Hubli	HO	580020
284	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	HAVERI	Haveri	Haveri	HO	581110
285	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	CHITRADURGA	Chitradurga	Chitradurga	HO	577501
286	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	TUMKUR	Tiptur	Tiptur	HO	572201
287	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	TUMKUR	Tumkur	Tumkur	HO	572101
288	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BAGALKOT	Jamkhandi	Jamkhandi	HO	587301
289	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BELGAUM	Belgaum	Belgaum	HO	590001
290	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	MYSORE	Saraswathipura m	Saraswathipura m	HO	570009
291	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	SHIMOGA	Bhadravathi	Bhadravathi	HO	577301
292	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BIJAPUR	Bijapur	Bijapur	HO	586101
293	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	KARWAR	Kumta	Kumta	HO	581343
294	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	SHIMOGA	Sagar	Sagar	HO	577401
295	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BELGAUM	Bailhongal	Bailhongal	HO	591102
296	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BELGAUM	Ramdurg	Ramdurg	HO	591123
297	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BIDAR	Bidar	Bidar	HO	585401
298	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	CHIKODI	Chikodi	Chikodi	HO	591201
299	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	GADAG	Gadag	Gadag	HO	582101
300	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	GADAG	Koppal	Koppal	HO	583231
301	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	GOKAK	Gokak	Gokak	HO	591307
302	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	CHITRADURGA	Davangere	Davangere	HO	577001
303	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	SHIMOGA	Shimoga	Shimoga	HO	577201
304	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	UDUPI	Manipal	Manipal	HO	576104
305	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	GULBARGA	Yadgiri	Yadgiri	HO	585201
306	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	KODAGU	Madikeri	Madikeri	HO	571201
307	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	MANDYA	Srirangapatna	Srirangapatna	HO	571438
308	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	CHIKMAGALUR	Koppa	Koppa	HO	577126
309	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	PUTTUR	Karkala	Karkala	HO	574104
310	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	BELLARY	Hospet	Hospet	HO	583201
311	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	GULBARGA	Gulbarga	Gulbarga	HO	585101
312	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	CHIKMAGALUR	Chikmagalur	Chikmagalur	HO	577101
313	KARNATAKA	NORTH KARNATAKA	CHIKODI	Athani	Athani	HO	591304
314	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	MANGALORE	Kulshekar	Kulshekar	HO	575005

315	KARNATAKA	SOUTH KARNATAKA	UDUPI	Kundapura	Kundapura	HO	576201
316	KERALA	TRIVANDRUM HQ	TRIVANDRUM SOUTH	Neyyattinkara	Neyyattinkara	HO	695121
317	KERALA	TRIVANDRUM HQ	QUILON	Kottarakara	Kottarakara	HO	691506
318	KERALA	KOCHI	IDUKKI	Thodupuzha	Thodupuzha	HO	685584
319	KERALA	KOCHI	ERNAKULAM	Ernakulam	Ernakulam	HO	682011
320	KERALA	KOCHI	ERNAKULAM	Kochi	Kochi	HO	682001
321	KERALA	CALICUT	CALICUT	Calicut	Calicut	HO	673001
322	KERALA	TRIVANDRUM HQ	PATHANAMTHITT A	Punalur	Punalur	HO	691305
323	KERALA	CENTRAL	ALUVA	Aluva	Aluva	HO	683101
324	KERALA	KOCHI	THRISSUR	Thrissur	Thrissur	HO	680001
325	KERALA	CALICUT	CALICUT	Calicut Civil Station	Calicut Civil Station	HO	673020
326	KERALA	NORTHERN	OTTAPALAM	Ottapalam	Ottapalam	HO	679101
327	KERALA	TRIVANDRUM HQ	PATHANAMTHITT A	Pathanamthitta	Pathanamthitta	HO	689645
328	KERALA	TRIVANDRUM HQ	TIRUVALLA	Chengannur	Chengannur	HO	689121
329	KERALA	CALICUT	PALGHAT	Palakkad	Palakkad	HO	678001
330	KERALA	KOCHI	ALLEPPEY	Cherthala	Cherthala	HO	688524
331	KERALA	KOCHI	IDUKKI	Kattappana	Kattappana	HO	685508
332	KERALA	TRIVANDRUM HQ	QUILON	Karunagappaly	Karunagappaly	HO	690518
333	KERALA	KOCHI	ALWAYE	Perumbavoor	Perumbavoor	HO	683542
334	KERALA	KOCHI	MAVELIKARA	Mavelikara	Mavelikara	HO	690101
335	KERALA	TRIVANDRUM HQ	TIRUVALLA	Tiruvalla	Tiruvalla	HO	689101
336	KERALA	TRIVANDRUM HQ	TRIVANDRUM NORTH	Thiruvananthapuram GPO	Thiruvananthapuram GPO	HO	695001
337	KERALA	KOCHI	ALWAYE	Muvattupuzha	Muvattupuzha	HO	686661
338	KERALA	KOCHI	ALLEPPEY	Alappuzha	Alappuzha	HO	688001
339	KERALA	CALICUT	PALGHAT	Olavakkot	Olavakkot	HO	678002
340	KERALA	CALICUT	CANNANORE	Taliparamba	Taliparamba	HO	670141
341	KERALA	CALICUT	CALICUT	Kalpetta	Kalpetta	HO	673121
342	KERALA	CALICUT	CANNANORE	Kannur	Kannur	HO	670001
343	KERALA	CALICUT	KASARAGOD	Kasaragod	Kasaragod	HO	671121
344	KERALA	CALICUT	PALGHAT	Alathur Mbr	Alathur Mbr	HO	678541
345	KERALA	KOCHI	CHANGANACHERRY	Changanacherry	Changanacherry	HO	686101
346	KERALA	KOCHI	CHANGANACHERRY	Kanjirapally	Kanjirapally	HO	686507
347	KERALA	KOCHI	KOTTAYAM	Palai	Palai	HO	686575
348	KERALA	KOCHI	KOTTAYAM	Vaikom	Vaikom	HO	686141
349	KERALA	CALICUT	MANJERI	Malappuram	Malappuram	HO	676505
350	KERALA	CALICUT	MANJERI	Manjeri-kla	Manjeri-kla	HO	676121
351	KERALA	CALICUT	TIRUR	Tirur(kerala)	Tirur(kerala)	HO	676101
352	KERALA	CALICUT	VADAKARA	Vadakara	Vadakara	HO	673101
353	KERALA	KOCHI	IRINJALAKUDA	Chalakudi	Chalakudi	HO	680307
354	KERALA	KOCHI	IRINJALAKUDA	Irinjalakuda	Irinjalakuda	HO	680121

355	KERALA	KOCHI	TRICHUR	Kunnamkulam	Kunnamkulam	HO	680503
356	KERALA	KOCHI	TRICHUR	Wadakanchery-TC	Wadakanchery-TC	HO	680582
357	KERALA	TRIVANDRUM HQ	PATHANAMTHITT A	Adur(Kla)	Adur(Kla)	HO	691523
358	KERALA	KOCHI	MAVELIKARA	Kayangulam	Kayangulam	HO	690502
359	KERALA	TRIVANDRUM HQ	TRIVANDRUM NORTH	Attingal	Attingal	HO	695101
360	KERALA	TRIVANDRUM HQ	TRIVANDRUM SOUTH	Poojapura	Poojapura	HO	695012
361	KERALA	KOCHI	KOTTAYAM	Kottayam	Kottayam	HO	686001
362	KERALA	CALICUT	VADAKARA	Koyilandi	Koyilandi	HO	673305
363	KERALA	CALICUT	KASARAGOD	Kanhangad	Kanhangad	HO	671315
364	KERALA	CALICUT	THALASSERY	Thalassery	Thalassery	HO	670101
365	KERALA	TRIVANDRUM HQ	QUILON	Kollam	Kollam	HO	691001
366	KERALA	CALICUT	TIRUR	Ponani	Ponani	HO	679577
367	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	BHOPAL	Bhopal GPO	Bhopal GPO	HO	462001
368	MADHYA PRADESH	INDORE	INDORE CITY	Indore Nagar	Indore Nagar	HO	452007
369	MADHYA PRADESH	INDORE	INDORE MOFFUSIL	Dhar	Dhar	HO	454001
370	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	VIDISHA	Vidisha	Vidisha	HO	464001
371	MADHYA PRADESH	INDORE	MANDSAUR	Mandsaur	Mandsaur	HO	458001
372	MADHYA PRADESH	INDORE	UJJAIN	Ujjain	Ujjain	HO	456001
373	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	BHOPAL	CTT Nagar	CTT Nagar	HO	462003
374	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	HOSHANGABAD	Narsinghpur	Narsinghpur	HO	487001
375	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	SAGAR	Sagar Cantt	Sagar Cantt	HO	470001
376	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	BHOPAL	Bhel	Bhel	HO	462022
377	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	SAGAR	Damoh	Damoh	HO	470661
378	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	HOSHANGABAD	Hoshangabad	Hoshangabad	HO	461001
379	MADHYA PRADESH	GWALIOR	GUNA	Ashoknagar	Ashok Nagar	HO	473331
380	MADHYA PRADESH	GWALIOR	GUNA	Shivpuri	Shivpuri	HO	473551
381	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	CHHATARPUR	Tikamgarh	Tikamgarh	HO	472001
382	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	CHHINDWARA	Chhindwara	Chhindwara	HO	480001
383	MADHYA PRADESH	GWALIOR	GWALIOR	Morar	Morar	HO	474006
384	MADHYA PRADESH	INDORE	RATLAM	Ratlam	Ratlam	HO	457001
385	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	CHHATARPUR	Chhatarpur	Chhatarpur	HO	471001
386	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	CHHINDWARA	Betul	Betul	HO	460001
387	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	VIDISHA	Raisen	Raisen	HO	464551
388	MADHYA PRADESH	GWALIOR	GWALIOR	Lashkar	Lashkar	HO	474001
389	MADHYA PRADESH	INDORE	KHANDWA	Khandwa	Khandwa	HO	450001
390	MADHYA PRADESH	INDORE	SEHORE	Sehore	Sehore	HO	466001
391	MADHYA PRADESH	INDORE	UJJAIN	Shajapur	Shajapur	HO	465001
392	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	BALAGHAT	Balaghat	Balaghat	HO	481001
393	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	REWA	Rewa	Rewa	HO	486001
394	MADHYA PRADESH	INDORE	INDORE MOFFUSIL	Dewas	Dewas	HO	455001
395	MADHYA PRADESH	INDORE	KHANDWA	Khargone	Khargone	HO	451001

396	MADHYA PRADESH	INDORE	MANDSAUR	Neemuch	Neemuch	HO	458441
397	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	SHAHDOL	Shahdol	Shahdol	HO	484001
398	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	BALAGHAT	Seoni	Seoni	HO	480661
399	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	REWA	Satna	Satna	HO	485001
400	MADHYA PRADESH	GWALIOR	GUNA	Guna	Guna	HO	473001
401	MADHYA PRADESH	INDORE	SEHORE	Rajgarh(Bia)	Rajgarh(Bia)	HO	465661
402	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	BALAGHAT	Mandla	Mandla	HO	481661
403	MADHYA PRADESH	BHOPAL HQ	SHAHDOL	Sidhi	Sidhi	HO	486661
404	MADHYA PRADESH	INDORE	RATLAM	Jhabua	Jhabua	HO	457661
405	MADHYA PRADESH	GWALIOR	MORENA	Morena	Morena	HO	476001
406	MADHYA PRADESH	GWALIOR	MORENA	Bhind	Bhind	HO	477001
407	MADHYA PRADESH	INDORE	JABALPUR	Katni	Katni	HO	483501
408	MADHYA PRADESH	INDORE	INDORE CITY	Indore GPO	Indore GPO	HO	452001
409	MADHYA PRADESH	INDORE	JABALPUR	Jabalpur	Jabalpur	HO	482001
410	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI CITY NORTH EAST	Chembur	Chembur	HO	400071
411	MAHARASHTRA	AURANGABAD	DHULE	Dhule	Dhule	HO	424001
412	MAHARASHTRA	AURANGABAD	AURANGABAD	Aurangabad	Aurangabad	HO	431001
413	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	SANGLI	Sangli	Sangli	HO	416416
414	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI CITY NORTH	Andheri	Andheri	HO	400053
415	MAHARASHTRA	NAGPUR	BULDANA	Khamgaon	Khamgaon	HO	444303
416	MAHARASHTRA	NAGPUR	NAGPUR CITY	Nagpur GPO	Nagpur GPO	HO	440001
417	MAHARASHTRA	NAGPUR	NAGPUR MOFFUSIL	Gondia	Gondia	HO	441601
418	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	RATNAGIRI	Ratnagiri	Ratnagiri	HO	415612
419	MAHARASHTRA	NAGPUR	NAGPUR CITY	Nagpur City	Nagpur City	HO	440002
420	MAHARASHTRA	AURANGABAD	BEED	Beed	Beed	HO	431122
421	MAHARASHTRA	PUNE	PANDHARPUR	Pandharpur	Pandharpur	HO	413304
422	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	SINDHUDURG	Malvan	Malvan	HO	416606
423	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI CITY SOUTH	Kalbadevi	Kalbadevi	HO	400002
424	MAHARASHTRA	NAGPUR	YEOTMAL	Yavatmal	Yavatmal	HO	445001
425	MAHARASHTRA	PUNE	PUNE CITY EAST	Pune	Pune	HO	411001
426	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI CITY WEST	Mahim	Mahim	HO	400016
427	MAHARASHTRA	NAGPUR	WARDHA	Wardha	Wardha	HO	442001
428	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI GPO	Mumbai	Mumbai GPO	HO	400001
429	MAHARASHTRA	PUNE	SATARA	Satara	Satara	HO	415001
430	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI CITY EAST	Chinchbunder	Chinchbunder	HO	400009
431	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	KOLHAPUR	Ichalkaranji	Ichalkaranji	HO	416115
432	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	KOLHAPUR	Kolhapur	Kolhapur	HO	416003
433	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI CITY NORTH WEST	Borivali	Borivali	HO	400091
434	MAHARASHTRA	MUMBAI	THANE CENTRAL	Thane	Thane	HO	400601
435	MAHARASHTRA	NAGPUR	CHANDRAPUR	Chandrapur	Chandrapur	HO	442401

436	MAHARASHTRA	NAGPUR	AKOLA	Akola	Akola	HO	444001
437	MAHARASHTRA	NAGPUR	BULDANA	Buldana	Buldana	HO	443001
438	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI CITY EAST	Dadar	Dadar	HO	400014
439	MAHARASHTRA	MUMBAI	THANE CENTRAL	Kalyan City	Kalyan City	HO	421301
440	MAHARASHTRA	AURANGABAD	MALEGAON	Malegaon	Malegaon	HO	423203
441	MAHARASHTRA	AURANGABAD	AURANGABAD	Jalna	Jalna	HO	431203
442	MAHARASHTRA	AURANGABAD	JALGAON	Chalisgaon	Chalisgaon	HO	424101
443	MAHARASHTRA	NAGPUR	AMARAVATHI	Amaravathi	Amaravathi	HO	444601
444	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	GOA	Margao	Margao	HO	403601
445	MAHARASHTRA	AURANGABAD	NASIK	Nashik Road	Nashik Road	HO	422101
446	MAHARASHTRA	PUNE	SHRIRAMPUR	Shrirampur	Shrirampur	HO	413709
447	MAHARASHTRA	MUMBAI	THANE WEST	Palghar	Palghar	HO	401404
448	MAHARASHTRA	PUNE	PUNE CITY WEST	Pune City	Pune City	HO	411002
449	MAHARASHTRA	AURANGABAD	BHUSAWAL	Bhusawal	Bhusawal	HO	425201
450	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	SANGLI	Miraj	Miraj	HO	416410
451	MAHARASHTRA	PUNE	AHMEDNAGAR	AhmedNagar	AhmedNagar	HO	414001
452	MAHARASHTRA	AURANGABAD	JALGAON	Jalgaon	Jalgaon	HO	425001
453	MAHARASHTRA	MUMBAI	NEW MUMBAI	Panvel	Panvel	HO	410206
454	MAHARASHTRA	AURANGABAD	PARBHANI	Parbhani	Parbhani	HO	431401
455	MAHARASHTRA	MUMBAI	MUMBAI WEST	Mumbai Central	Mumbai Central	HO	400008
456	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	RATNAGIRI	Chiplun	Chiplun	HO	415605
457	MAHARASHTRA	AURANGABAD	NANDED	Nanded	Nanded	HO	431601
458	MAHARASHTRA	AURANGABAD	OSMANABAD	Latur	Latur	HO	413512
459	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	KOLHAPUR	Kolhapur City	Kolhapur City	HO	416012
460	MAHARASHTRA	NAGPUR	NAGPUR MOFFUSIL	Bhandara	Bhandara	HO	441904
461	MAHARASHTRA	PUNE	SATARA	Karad	Karad	HO	415110
462	MAHARASHTRA	AURANGABAD	NASIK	Nashik	Nashik	HO	422001
463	MAHARASHTRA	MUMBAI	RAIGAD	Alibag	Alibag	HO	402201
464	MAHARASHTRA	PUNE	SOLAPUR	Solapur	Solapur	HO	413001
465	MAHARASHTRA	AURANGABAD	OSMANABAD	Osmanabad	Osmanabad	HO	413501
466	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	GOA	Panaji	Panaji	HO	403001
467	MAHARASHTRA	GOA-PANAJI	SINDHUDURG	Sawantwadi	Sawantwadi	HO	416510
468	MAHARASHTRA	NAGPUR	AMARAVATI	Paratwada	Paratwada	HO	444805
469	MAHARASHTRA	NAGPUR	NAGPUR MOFFUSIL	Kamthi	Kamthi	HO	441001
470	MAHARASHTRA	PUNE	PUNE CITY MOFFUSIL	Shivajinagar	Shivajinagar	HO	411005
471	NORTH EAST	SHILLONG HQ	MEGHALAYA	Shillong GPO	Shillong GPO	HO	793001
472	NORTH EAST	NORTH EASTERN	NAGALAND	Kohima	Kohima	HO	797001
473	NORTH EAST	NORTH EASTERN	MANIPUR	Imphal	Imphal	HO	795001
474	NORTH EAST	SHILLONG HQ	AGARTALA	Agartala	Agartala	HO	799001
475	NORTH EAST	SHILLONG HQ	AGARTALA	Radhakishorepur	Radhakishorepur	HO	799120
476	NORTH EAST	SHILLONG HQ	ARUNACHAL PRADESH	Itanagar	Itanagar	HO	791111

477	NORTH EAST	SHILLONG HQ	DHARMANAGAR	Dharmanagar	Dharmanagar	HO	799250
478	NORTH EAST	NORTH EASTERN	MIZORAM	Aizawl	Aizawl	HO	796001
479	NORTH EAST	NORTH EASTERN	MEGHALAYA	Tura	Tura	HO	794001
480	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	BHUBANESWAR	Bhubaneswar GPO	Bhubaneswar GPO	HO	751001
481	ODISHA	BERHAMPUR	ASKA	Aska	Aska	HO	761110
482	ODISHA	BERHAMPUR	ASKA	Bhanjanagar	Bhanjanagar	HO	761126
483	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	CUTTACK CITY	Chandinchowk	Chandinchowk	HO	753002
484	ODISHA	BERHAMPUR	BERHAMPUR	Berhampur(GM)	Berhampur(GM)	HO	760001
485	ODISHA	BERHAMPUR	KORAPUT	Jeypore(K)	Jeypore(K)	HO	764001
486	ODISHA	BERHAMPUR	KORAPUT	Rayagada(K)	Rayagada(K)	HO	765001
487	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	CUTTACK SOUTH	Athagarh	Athagarh	HO	754029
488	ODISHA	SAMBALPUR	DHENKANAL	Dhenkanal	Dhenkanal	HO	759001
489	ODISHA	SAMBALPUR	SUNDARGARH	Rourkela	Rourkela	HO	769001
490	ODISHA	BERHAMPUR	KALAHANDI	Bhawanipatna	Bhawanipatna	HO	766001
491	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	CUTTACK CITY	Cuttack GPO	Cuttack GPO	HO	753001
492	ODISHA	SAMBALPUR	SAMBALPUR	Sambalpur	Sambalpur	HO	768001
493	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	BALASORE	Balasore	Balasore	HO	756001
494	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	BHADRAK	Bhadrak	Bhadrak	HO	756100
495	ODISHA	SAMBALPUR	SAMBALPUR	Bargarh	Bargarh	HO	768028
496	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	MAYURBHANJ	Baripada	Baripada	HO	757001
497	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	PURI	Puri	Puri	HO	752001
498	ODISHA	SAMBALPUR	KEONJHAR	Keonjhargarh	Keonjhargarh	HO	758001
499	ODISHA	SAMBALPUR	SAMBALPUR	Jharsuguda	Jharsuguda	HO	768201
500	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	CUTTACK NORTH	Kendrapara	Kendrapara	HO	754211
501	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	CUTTACK SOUTH	Jagatsinghpur	Jagatsinghpur	HO	754103
502	ODISHA	SAMBALPUR	SUNDARGARH	Sundargarh	Sundargarh	HO	770001
503	ODISHA	SAMBALPUR	SUNDARGARH	Uditnagar	Uditnagar	HO	769012
504	ODISHA	BERHAMPUR	BERHAMPUR	Parlakhemundi	Parlakhemundi	HO	761200
505	ODISHA	BERHAMPUR	PHULBANI	Phulbani	Phulbani	HO	762001
506	ODISHA	BERHAMPUR	BERHAMPUR	Chatrapur	Chatrapur	HO	761020
507	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	CUTTACK NORTH	Jajpur	Jajpur	HO	755001
508	ODISHA	BERHAMPUR	KORAPUT	Koraput	Koraput	HO	764020
509	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	BALASORE	Jaleswar	Jaleswar	HO	756032
510	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	MAYURBHANJ	Rairangpur	Rairangpur	HO	757043
511	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	PURI	Khurda	Khurda	HO	752055
512	ODISHA	BHUBANESWAR HQ	PURI	Nayagarh	Nayagarh	HO	752069
513	ODISHA	SAMBALPUR	BALANGIR	Balangir	Balangir	HO	767001
514	ODISHA	SAMBALPUR	DHENKANAL	Angul	Angul	HO	759122
515	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	CHANDIGARH	Chandigarh GPO	Chandigarh GPO	HO	160017
516	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	KAPURTHALA	Phagwara	Phagwara	HO	144401
517	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	CHANDIGARH	Ropar	Ropar	HO	140001

518	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	GURDASPUR	Batala	Batala	HO	143505
519	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	GURDASPUR	Gurdaspur	Gurdaspur	HO	143521
520	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	PATIALA	Rajpura	Rajpura	HO	140401
521	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	FARIDKOT	Faridkot	Faridkot	HO	151203
522	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	JALANDHAR	Jalandhar City	Jalandhar City	HO	144001
523	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	LUDHIANA MOFFUSIL	Khanna	Khanna	HO	141401
524	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	FARIDKOT	Moga	Moga	HO	142001
525	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	SANGRUR	Sangrur	Sangrur	HO	148001
526	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	FEROZEPUR	Ferozepur	Ferozepur	HO	152001
527	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	KAPURTHALA	Kapurthala	Kapurthala	HO	144601
528	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	BATHINDA	Bathinda	Bathinda	HO	151001
529	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	PATIALA	Patiala	Patiala	HO	147001
530	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	AMRITSAR	Amritsar GPO	Amritsar GPO	HO	143001
531	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	LUDHIANA CITY	Ludhiana	Ludhiana	HO	141001
532	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	LUDHIANA MOFFUSIL	Jagraon	Jagraon	HO	142026
533	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	AMRITSAR	Tarn Taran	Tarn Taran	HO	143401
534	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	HOSHIARPUR	Hoshiarpur	Hoshiarpur	HO	146001
535	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	HOSHIARPUR	Dasuya	Dasuya	HO	144205
536	PUNJAB	CHANDIGARH HQ	JALANDHAR	Jalandhar Cantt	Jalandhar Cantt	HO	144005
537	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	JAIPUR CITY	Shastri Nagar	Shastri Nagar	HO	302016
538	RAJASTHAN	AJMER	BEAWAR	Nasirabad	Nasirabad	HO	305601
539	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	ALWAR	Alwar	Alwar	HO	301001
540	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	SAWAIMADHOPUR	Sawaimadhopur	Sawaimadhopur	HO	322001
541	RAJASTHAN	JODHPUR	SRIGANGA NAGAR	Hanumangarh Jn	Hanumangarh Jn	HO	335512
542	RAJASTHAN	AJMER	AJMER	Madanganj Kishangarh	Madanganj Kishangarh	HO	305801
543	RAJASTHAN	JODHPUR	CHURU	Ratangarh	Ratangarh	HO	331022
544	RAJASTHAN	AJMER	TONK	Tonk raj	Tonk raj	HO	304001
545	RAJASTHAN	JODHPUR	CHURU	Churu	Churu	HO	331001
546	RAJASTHAN	JODHPUR	PALI	Palimarwar	Palimarwar	HO	306401
547	RAJASTHAN	JODHPUR	JODHPUR	Jodhpur	Jodhpur	HO	342001
548	RAJASTHAN	AJMER	TONK	Bundi	Bundi	HO	323001
549	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	JAIPUR CITY	Jaipur GPO	Jaipur GPO	HO	302001
550	RAJASTHAN	JODHPUR	BARMER	Barmer	Barmer	HO	344001
551	RAJASTHAN	JODHPUR	JODHPUR	Jaisalmer	Jaisalmer	HO	345001
552	RAJASTHAN	AJMER	AJMER	Ajmer	Ajmer	HO	305001
553	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	SAWAIMADHOPUR	Hindaun	Hindaun	HO	322230
554	RAJASTHAN	JODHPUR	NAGAU	Didwana	Didwana	HO	341303
555	RAJASTHAN	AJMER	BEAWAR	Beawar	Beawar	HO	305901
556	RAJASTHAN	JODHPUR	JHUNJHUNU	Jhunjhunu	Jhunjhunu	HO	333001
557	RAJASTHAN	JODHPUR	NAGAU	Nagaur	Nagaur	HO	341001
558	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	ALWAR	Bahrar	Bahrar	HO	301701

559	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	JAIPUR CITY	Jawahar Nagar	Jawahar Nagar	HO	302004
560	RAJASTHAN	AJMER	KOTA	New Grain Mandi Kota	New Grain Mandi Kota	HO	324007
561	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	JAIPUR MOFFUSIL	Shahpura	Shahpura	HO	303103
562	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	BHARATPUR	Bharatpur	Bharatpur	HO	321001
563	RAJASTHAN	AJMER	KOTA	Kota	Kota	HO	324001
564	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	JAIPUR MOFFUSIL	Sambhar Lake	Sambhar Lake	HO	303604
565	RAJASTHAN	AJMER	UDAIPUR	Udaipur	Udaipur	HO	313004
566	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	BHARATPUR	Deeg	Deeg	HO	321203
567	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	JAIPUR MOFFUSIL	Dausa	Dausa	HO	303303
568	RAJASTHAN	AJMER	CHITTORGARH	Chittorgarh	Chittorgarh	HO	312001
569	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	DHOLPUR	Dholpur	Dholpur	HO	328001
570	RAJASTHAN	JAIPUR HQ	SAWAIMADHOPUR	Gangapur	Gangapur	HO	322201
571	RAJASTHAN	JODHPUR	BIKANER	Bikaner	Bikaner	HO	334001
572	RAJASTHAN	JODHPUR	SIROHI	Sirohi	Sirohi	HO	307001
573	RAJASTHAN	JODHPUR	SIKAR	Sikar	Sikar	HO	332001
574	RAJASTHAN	JODHPUR	SIROHI	Jalore	Jalore	HO	343001
575	RAJASTHAN	AJMER	DUNGARPUR	Dungarpur	Dungarpur	HO	314001
576	RAJASTHAN	JODHPUR	NAGPUR	Makrana	Makrana	HO	341505
577	RAJASTHAN	JODHPUR	SRIGANGANAGAR	Sriganganagar	Sriganganagar	HO	335001
578	RAJASTHAN	AJMER	KOTA	Jhalawar	Jhalawar	HO	326001
579	RAJASTHAN	AJMER	DUNGARPUR	Banswara	Banswara	HO	327001
580	RAJASTHAN	JODHPUR	JHUNJHUNU	Chirawa	Chirawa	HO	333026
581	RAJASTHAN	AJMER	BHILWARA	Bhilwara	Bhilwara	HO	311001
582	RAJASTHAN	AJMER	UDAIPUR	Kankroli	Kankroli	HO	313324
583	RAJASTHAN	JODHPUR	SIKAR	Srimadhopur	Srimadhopur	HO	332715
584	RAJASTHAN	JODHPUR	PALI	Marwar Junction	Marwar Junction	HO	306001
585	TAMILNADU	CHENNAI CITY	TAMBARAM	Tambaram	Tambaram	HO	600045
586	TAMILNADU	WESTERN	ERODE	Bhavani	Bhavani	HO	638301
587	TAMILNADU	SOUTHERN	VIRUDHUNAGAR	Sivakasi	Sivakasi	HO	626123
588	TAMILNADU	WESTERN	NILGIRIS	Udagamandalam	Udagamandalam	HO	643001
589	TAMILNADU	CENTRAL	VRIDDHACHALAM	Kallakurichi	Kallakurichi	HO	606202
590	TAMILNADU	CENTRAL	MAYILADUTHURAI	Mayiladuthurai	Mayiladuthurai	HO	609001
591	TAMILNADU	CENTRAL	PUDUKKOTTAI	Pudukkottai	Pudukkottai	HO	622001
592	TAMILNADU	SOUTHERN	DINDIGUL	Palani	Palani	HO	624601
593	TAMILNADU	WESTERN	COIMBATORE	Coimbatore	Coimbatore	HO	641001
594	TAMILNADU	WESTERN	POLLACHI	Pollachi	Pollachi	HO	642001
595	TAMILNADU	CHENNAI CITY	CHENNAI CITY CENTRAL	Mylapore	Mylapore	HO	600004
596	TAMILNADU	CENTRAL	KUMBakonam	Kumbakonam	Kumbakonam	HO	612001
597	TAMILNADU	SOUTHERN	TIRUNELVELI	Tirunelveli	Tirunelveli	HO	627001
598	TAMILNADU	SOUTHERN	DINDIGUL	Dindigul	Dindigul	HO	624001
599	TAMILNADU	CHENNAI CITY	ANNA ROAD	Anna Road	Anna Road	HO	600002

600	TAMILNADU	WESTERN	ERODE	Erode	Erode	HO	638001
601	TAMILNADU	SOUTHERN	TIRUNELVELI	Palayankottai	Palayamkottai	HO	627002
602	TAMILNADU	CENTRAL	THANJAVUR	Thanjavur	Thanjavur	HO	613001
603	TAMILNADU	CENTRAL	TIRUCHIRAPALLI	Tiruchirappalli	Tiruchirappalli	HO	620001
604	TAMILNADU	WESTERN	SALEM EAST	Salem	Salem	HO	636001
605	TAMILNADU	CHENNAI CITY	CHENNAI CITY SOUTH	St.Thomas Mount	St.Thomas Mount	HO	600016
606	TAMILNADU	CHENNAI CITY	CHENNAI CITY NORTH	Park Town	Park Town	HO	600003
607	TAMILNADU	SOUTHERN	KOVILPATTI	Kovilpatti	Kovilpatti	HO	628501
608	TAMILNADU	CENTRAL	SRIRANGAM	Srirangam	Srirangam	HO	620006
609	TAMILNADU	CENTRAL	PATTUKOTTAI	Pattukottai	Pattukottai	HO	614601
610	TAMILNADU	CENTRAL	TIRUCHIRAPALLI	Lalgudi	Lalgudi	HO	621601
611	TAMILNADU	CENTRAL	KARUR	Kulittalai	Kulittalai	HO	639104
612	TAMILNADU	CENTRAL	CUDDALORE	Cuddalore	Cuddalore	HO	607001
613	TAMILNADU	SOUTHERN	KOVILPATTI	Tenkasi	Tenkasi	HO	627811
614	TAMILNADU	SOUTHERN	MADURAI	Arasaradi	Arasaradi	HO	625016
615	TAMILNADU	SOUTHERN	TUTICORIN	Tuticorin	Tuticorin	HO	628001
616	TAMILNADU	WESTERN	SALEM EAST	Atur	Atur	HO	636102
617	TAMILNADU	WESTERN	TIRUPATTUR	Tirupattur	Tirupattur	HO	635601
618	TAMILNADU	WESTERN	TIRUPUR	Mettupalayam	Mettupalayam	HO	641301
619	TAMILNADU	CHENNAI CITY	CHENGALPATTU	Chengalpattu	Chengalpattu	HO	603001
620	TAMILNADU	CENTRAL	CUDDALORE	Chidambaram	Chidambaram	HO	608001
621	TAMILNADU	CENTRAL	MAYILADUTHURAI	Sirkali	Sirkali	HO	609110
622	TAMILNADU	CENTRAL	NAGAPATTINAM	Tiruvarur	Tiruvarur	HO	610001
623	TAMILNADU	CENTRAL	SRIRANGAM	Perambalur	Perambalur	HO	621212
624	TAMILNADU	CENTRAL	SRIRANGAM	Turaiyur	Turaiyur	HO	621010
625	TAMILNADU	CENTRAL	THANJAVUR	Mannargudi	Mannargudi	HO	614001
626	TAMILNADU	CHENNAI CITY	TAMBARAM	Avadi Camp	Avadi Camp	HO	600054
627	TAMILNADU	SOUTHERN	KOVILPATTI	Sankarankovil	Sankarankovil	HO	627756
628	TAMILNADU	SOUTHERN	RAMANATHAPURAM	Ramanathapuram	Ramanathapuram	HO	623501
629	TAMILNADU	SOUTHERN	TIRUNELVELI	Ambasamudram	Ambasamudram	HO	627401
630	TAMILNADU	SOUTHERN	TUTICORIN	Srivaikuntam	Srivaikuntam	HO	628601
631	TAMILNADU	WESTERN	NILGIRIS	Coonoor	Coonoor	HO	643101
632	TAMILNADU	WESTERN	SALEM WEST	Suramanagalam	Suramanagalam	HO	636005
633	TAMILNADU	CENTRAL	PATTUKOTTAI	Tiruturaipundi	Tiruturaipundi	HO	614713
634	TAMILNADU	CENTRAL	THANJAVUR	Papanasam	Papanasam	HO	614205
635	TAMILNADU	CHENNAI CITY	TAMBARAM	Ambattur	Ambattur	HO	600053
636	TAMILNADU	SOUTHERN	MADURAI	Tallakulam	Tallakulam	HO	625002
637	TAMILNADU	SOUTHERN	THENI	Bodinayakanur	Bodinayakanur	HO	625513
638	TAMILNADU	WESTERN	COIMBATORE	Rathinasabapathyapuram	Rathinasabapathyapuram	HO	641002
639	TAMILNADU	WESTERN	KRISHNAGIRI	Krishnagiri	Krishnagiri	HO	635001
640	TAMILNADU	WESTERN	TIRUPATTUR	Gudiyattam	Gudiyattam	HO	632602

641	TAMILNADU	WESTERN	TIRUPUR	Tirupur	Tirupur	HO	641601
642	TAMILNADU	CENTRAL	KUMBAKONAM	Melakaveri	Melakaveri	HO	612002
643	TAMILNADU	CENTRAL	NAGAPATTINAM	Nagapattinam	Nagapattinam	HO	611001
644	TAMILNADU	SOUTHERN	TUTICORIN	Tiruchendur	Tiruchendur	HO	628215
645	TAMILNADU	SOUTHERN	VIRUDHUNAGAR	Rajapalayam	Rajapalayam	HO	626117
646	TAMILNADU	WESTERN	DHARMAPURI	Dharmapuri	Dharmapuri	HO	636701
647	TAMILNADU	WESTERN	TIRUPUR	Dharapuram	Dharapuram	HO	638656
648	TAMILNADU	CHENNAI CITY	KANCHIPURAM	Kanchipuram	Kanchipuram	HO	631501
649	TAMILNADU	SOUTHERN	VIRUDHUNAGAR	Aruppukottai	Aruppukottai	HO	626101
650	TAMILNADU	CENTRAL	KARUR	Karur	Karur	HO	639001
651	TAMILNADU	CHENNAI CITY	ARAKKONAM	Arakkonam	Arakkonam	HO	631001
652	TAMILNADU	CHENNAI CITY	KANCHIPURAM	Tiruvallur	Tiruvallur	HO	602001
653	TAMILNADU	CHENNAI CITY	TIRUVANNAMALA I	Tiruvannamalai	Tiruvannamalai	HO	606601
654	TAMILNADU	SOUTHERN	VIRUDHUNAGAR	Virudhunagar	Virudhunagar	HO	626001
655	TAMILNADU	CENTRAL	VRIDDHACHALAM	Vriddhachalam	Vriddhachalam	HO	606001
656	TAMILNADU	CHENNAI CITY	ARAKKONAM	Ranipet	Ranipet	HO	632401
657	TAMILNADU	CHENNAI CITY	VELLORE	Vellore	Vellore	HO	632001
658	TAMILNADU	SOUTHERN	KANNIYAKUMARI	Nagercoil	Nagercoil	HO	629001
659	TAMILNADU	SOUTHERN	KARAIKUDI	Devakottai	Devakottai	HO	630302
660	TAMILNADU	SOUTHERN	SIVAGANGA	Manamadurai	Manamadurai	HO	630606
661	TAMILNADU	CHENNAI CITY	PONDICHERRY	Villupuram	Villupuram	HO	605602
662	TAMILNADU	CHENNAI CITY	TIRUVANNAMALA I	Arni	Arni	HO	632301
663	TAMILNADU	SOUTHERN	KANNIYAKUMARI	Thuckalay	Thuckalay	HO	629175
664	TAMILNADU	WESTERN	POLLACHI	Udamalpet	Udamalpet	HO	642126
665	TAMILNADU	SOUTHERN	RAMANATHAPURAM	Paramakudi	Paramakudi	HO	623707
666	TAMILNADU	CHENNAI CITY	PONDICHERRY	Tindivanam	Tindivanam	HO	604001
667	TAMILNADU	CHENNAI CITY	PONDICHERRY	Pondicherry	Pondicherry	HO	605001
668	TAMILNADU	SOUTHERN	DINDIGUL	Nilakottai	Nilakottai	HO	624208
669	TAMILNADU	SOUTHERN	MADURAI	Madurai	Madurai	HO	625001
670	TAMILNADU	WESTERN	ERODE	Gobichettipalayam	Gobichettipalayam	HO	638452
671	TAMILNADU	CHENNAI CITY	CHENNAI GPO	Chennai GPO	Chennai GPO	HO	600001
672	TAMILNADU	CENTRAL	VRIDDHACHALAM	Tirukovilyur	Tirukovilyur	HO	605757
673	TAMILNADU	SOUTHERN	SIVAGANGA	Sivaganga	Sivaganga	HO	630561
674	TAMILNADU	WESTERN	NAMAKKAL	Namakkal	Namakkal	HO	637001
675	TAMILNADU	SOUTHERN	THENI	Periyakulam	Periyakulam	HO	625601
676	TAMILNADU	WESTERN	NAMAKKAL	Tiruchengodu	Tiruchengodu	HO	637211
677	TAMILNADU(PIP)	CHENNAI CITY	CHENNAI CITY CENTRAL	Thygarayanagar	Thygarayanagar	HO	600017
678	TAMILNADU(PIP)	SOUTHERN	KARAIKUDI	Karaikudi	Karaikudi	HO	630001
679	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	LUCKNOW	Lucknow Chowk	Lucknow Chowk	HO	226003
680	UTTAR PRADESH	KANPUR	FATEHPUR	Fatehpur	Fatehpur	HO	212601

681	UTTAR PRADESH	BAREILLY	SAHARANPUR	Saharanpur	Saharanpur	HO	247001
682	UTTAR PRADESH	AGRA	AGRA	Agra	Agra	HO	282001
683	UTTAR PRADESH	AGRA	ETAH	Etah	Etah	HO	207001
684	UTTAR PRADESH	BAREILLY	BAREILLY	Bareilly	Bareilly	HO	243001
685	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	GORAKHPUR	Gorakhpur	Gorakhpur	HO	273001
686	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	ALLAHABAD	Allahabad	Allahabad	HO	211001
687	UTTAR PRADESH	BAREILLY	MEERUT	Meerut Cantt	Meerut Cantt	HO	250001
688	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	PRATAPGARH	Pratapgarh	Pratapgarh	HO	230001
689	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	VARANASI WEST	Varanasi Cantt	Varanasi Cantt	HO	221002
690	UTTAR PRADESH	BAREILLY	KHERI	Kheri	Kheri	HO	262701
691	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	AZAMGARH	Azamgarh	Azamgarh	HO	276001
692	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	SULTANPUR	Amethi	Amethi	HO	227405
693	UTTAR PRADESH	BAREILLY	MUZAFFARNAGAR	Muzaffarnagar	Muzaffarnagar	HO	251001
694	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	FAIZABAD	Faizabad	Faizabad	HO	224001
695	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	RAE BAREILLY	Raebarely	Raebarely	HO	229001
696	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	BALLIA	Ballia	Ballia	HO	277001
697	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	DEORIA	Deoria	Deoria	HO	274001
698	UTTAR PRADESH	KANPUR	KANPUR CITY	Kanpur	Kanpur	HO	208001
699	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	SITAPUR	Sitapur	Sitapur	HO	261001
700	UTTAR PRADESH	KANPUR	KANPUR CITY	Kanpur Cantt	Kanpur Cantt	HO	208004
701	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	BARABANKI	Barabanki	Barabanki	HO	225001
702	UTTAR PRADESH	BAREILLY	BIJNOR	Bijnor	Bijnor	HO	246701
703	UTTAR PRADESH	BAREILLY	BAREILLY	Pilibhit	Pilibhit	HO	262001
704	UTTAR PRADESH	KANPUR	FATEHGARH	Fatehgarh	Fatehgarh	HO	209601
705	UTTAR PRADESH	AGRA	MATHURA	Mathura	Mathura	HO	281001
706	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	ALLAHABAD	Allahabad Kutchery	Allahabad Kutchery	HO	211002
707	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	JAUNPUR	Jaunpur	Jaunpur	HO	222001
708	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	GONDA	Gonda	Gonda	HO	271001
709	UTTAR PRADESH	KANPUR	KANPUR CITY	Nawabganj	Nawabganj	HO	208002
710	UTTAR PRADESH	KANPUR	KANPUR MOFUSSIL	Unnao	Unnao	HO	209801
711	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	GHAZIABAD	Noida	Noida	HO	201301
712	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	VARANASI EAST	Varanasi	Varanasi	HO	221001
713	UTTAR PRADESH	BAREILLY	MEERUT	Baraut	Baraut	HO	250611
714	UTTAR PRADESH	KANPUR	BANDA	Hamirpur	Hamirpur	HO	210301
715	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	FAIZABAD	Akbarpur	Akbarpur	HO	224122
716	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	GONDA	Balrampur	Balrampur	HO	271201
717	UTTAR PRADESH	KANPUR	BANDA	Banda	Banda	HO	210001
718	UTTAR PRADESH	BAREILLY	HARDOI	Hardoi	Hardoi	HO	241001
719	UTTAR PRADESH	BAREILLY	MEERUT	Meerut City	Meerut City	HO	250002
720	UTTAR PRADESH	BAREILLY	MORADABAD	Amroha	Amroha	HO	244221
721	UTTAR PRADESH	BAREILLY	BIJNOR	Dhampur	Dhampur	HO	246761
722	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	GHAZIPUR	Ghazipur	Ghazipur	HO	233001

723	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	GHAZIABAD	Hapur	Hapur	HO	245101
724	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	LUCKNOW GPO	Lucknow GPO	Lucknow GPO	HO	226001
725	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	SULTANPUR	Sultanpur(Avadh)	Sultanpur(Avadh)	HO	228001
726	UTTAR PRADESH	BAREILLY	BUDAUN	Budaun	Budaun	HO	243601
727	UTTAR PRADESH	BAREILLY	SHAHJAHANPUR	Shahjahanpur	Shahjahanpur	HO	242001
728	UTTAR PRADESH	AGRA	ALIGARH	Aligarh	Aligarh	HO	202001
729	UTTAR PRADESH	AGRA	BULANDSHAHR	Bulandshahr	Bulandshahr	HO	203001
730	UTTAR PRADESH	AGRA	BULANDSHAHR	Khurja	Khurja	HO	203131
731	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	AZAMGARH	Mau	Mau	HO	275101
732	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	BAHRAICH	Bahraich	Bahraich	HO	271801
733	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	BALLIA	Rasra	Rasra	HO	221712
734	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	DEORIA	Padrauna	Padrauna	HO	274304
735	UTTAR PRADESH	AGRA	JHANSI	Jhansi	Jhansi	HO	284001
736	UTTAR PRADESH	AGRA	MAINPURI	Mainpuri	Mainpuri	HO	205001
737	UTTAR PRADESH	ALLAHABAD	MIRZAPUR	Mirzapur	Mirzapur	HO	231001
738	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	GORAKHPUR	Kunraghat	Kunraghat	HO	273008
739	UTTAR PRADESH	AGRA	AGRA	Agra Fort	Agra Fort	HO	282003
740	UTTAR PRADESH	BAREILLY	MORADABAD	Rampur	Rampur	HO	244901
741	UTTAR PRADESH	AGRA	ETAWAH	Etawah	Etawah	HO	206001
742	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	BASTI	Basti	Basti	HO	272001
743	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	GHAZIABAD	Ghaziabad	Ghaziabad	HO	201001
744	UTTAR PRADESH	AGRA	JHANSI	Orai	Orai	HO	285001
745	UTTAR PRADESH	BAREILLY	MORADABAD	Moradabad	Moradabad	HO	244001
746	UTTAR PRADESH	AGRA	MAINPURI	Firozabad	Firozabad	HO	283203
747	UTTAR PRADESH	AGRA	ETAWAH	Auraiya	Auraiya	HO	206122
748	UTTAR PRADESH	GORAKHPUR	BASTI	Bansi	Bansi	HO	272153
749	UTTAR PRADESH	LUCKNOW HQ	RAE BAREILLY	Lalganj(Raebare li)	Lalganj(Raebarel i)	HO	229206
750	UTTAR PRADESH	AGRA	JHANSI	Lalitpur	Lalitpur	HO	284403
751	UTTARAKHAND	DEHRADUN	DEHRADUN	Dehradun Cantt	Dehradun Cantt	HO	248003
752	UTTARAKHAND	DEHRADUN	DEHRADUN	Dehradun GPO	Dehradun GPO	HO	248001
753	UTTARAKHAND	DEHRADUN	PAURI	Kotdwara	Kotdwara	HO	246149
754	UTTARAKHAND	DEHRADUN	NAINITAL	Nainital	Nainital	HO	263002
755	UTTARAKHAND	DEHRADUN	CHAMOLI	Gopeshwar	Gopeshwar	HO	246401
756	UTTARAKHAND	DEHRADUN	ALMORA	Almora	Almora	HO	263601
757	UTTARAKHAND	DEHRADUN	PAURI	Lansdowne	Lansdowne	HO	246155
758	UTTARAKHAND	DEHRADUN	PAURI	Pauri	Pauri	HO	246001
759	UTTARAKHAND	DEHRADUN	PITHORAGARH	Pithoragarh	Pithoragarh	HO	262501
760	UTTARAKHAND	DEHRADUN	TEHRI	Tehri	Tehri	HO	249001
761	UTTARAKHAND	DEHRADUN	ALMORA	Ranikhet	Ranikhet	HO	263645
762	UTTARAKHAND	DEHRADUN	DEHRADUN	Roorkee	Roorkee	HO	247667
763	UTTARAKHAND	DEHRADUN	NAINITAL	Haldwani	Haldwani	HO	263139

764	WEST BENGAL	KOLKATA	SOUTH KOLKATA	Tollygunge	Tollygunge	HO	700033
765	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	DARJEELING	Siliguri	Siliguri	HO	734001
766	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	COOCHBEHAR	Coochbehar	Coochbehar	HO	736101
767	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	NORTH HOOGHLY	Chinsurah	Chinsurah	HO	712101
768	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	JALPAIGURI	Jalpaiguri	Jalpaiguri	HO	735101
769	WEST BENGAL	KOLKATA	BARABAZAR	Barabazar	Barabazar	HO	700007
770	WEST BENGAL	KOLKATA	BARASAT	Barasat	Barasat	HO	700124
771	WEST BENGAL	KOLKATA	NADIA NORTH	Krishnanagar	Krishnanagar	HO	741101
772	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	MIDNAPORE	Midnapore	Midnapore	HO	721101
773	WEST BENGAL	KOLKATA	CALCUTTA NORTH PRESIDENCY	Belgharia	Belgharia	HO	700056
774	WEST BENGAL	KOLKATA	KOLKATA CENTRAL	Park Street	Park Street	HO	700016
775	WEST BENGAL	KOLKATA	KOLKATA NORTH	Cossipore	Cossipore	HO	700002
776	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	WEST DINAJPUR	Balurghat	Balurghat	HO	733101
777	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	BANKURA	Bankura	Bankura	HO	722101
778	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	CONTAI	Contai	Contai	HO	721401
779	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	TAMLUK	Tamluk	Tamluk	HO	721636
780	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	JALPAIGURI	Mal	Mal	HO	735221
781	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	MIDNAPORE	Jhargram	Jhargram	HO	721507
782	WEST BENGAL	KOLKATA	KOLKATA EAST	Beleghata	Beleghata	HO	700010
783	WEST BENGAL	KOLKATA	ALIPORE	Alipore	Alipore	HO	700027
784	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	PURULIA	Purulia	Purulia	HO	723101
785	WEST BENGAL	KOLKATA	MURSHIDABAD	Berhampore	Berhampore	HO	742101
786	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	ASANSOL	Durgapur	Durgapur	HO	713201
787	WEST BENGAL	KOLKATA	MURSHIDABAD	Kandi	Kandi	HO	742137
788	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	MALDA	Malda	Malda	HO	732101
789	WEST BENGAL	KOLKATA	BIRBHUM	Rampurhat	Rampurhat	HO	731224
790	WEST BENGAL	KOLKATA	CALCUTTA SOUTH PRESIDENCY	Baruipur	Baruipur	HO	700144
791	WEST BENGAL	KOLKATA	NADIA NORTH	Nabadwip	Nabadwip	HO	741302
792	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	BURDWAN	Katwa	Katwa	HO	713130
793	WEST BENGAL	KOLKATA	BIRBHUM	Suri	Suri	HO	731101
794	WEST BENGAL	KOLKATA	CALCUTTA SOUTH PRESIDENCY	Diamond Harbour	Diamond Harbour	HO	743331
795	WEST BENGAL	KOLKATA	MURSHIDABAD	Raghunathganj	Raghunathganj	HO	742225
796	WEST BENGAL	KOLKATA	NADIA SOUTH	Ranaghat	Ranaghat	HO	741201
797	WEST BENGAL	KOLKATA	NADIA SOUTH	Kalyani	Kalyani	HO	741235
798	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	HOOGHLY SOUTH	Serampore	Serampore	HO	712201
799	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	HOOGHLY NORTH	Arambagh	Arambagh	HO	712601
800	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	HOWRAH	Salkia	Salkia	HO	711106
801	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	HOWRAH	Howrah	Howrah	HO	711101
802	WEST BENGAL	KOLKATA	BARASAT	Basirhat	Basirhat	HO	743411
803	WEST BENGAL	KOLKATA	CALCUTTA NORTH PRESIDENCY	Barrackpore	Barrackpore	HO	700120

804	WEST BENGAL	KOLKATA	Kolkata GPO	Kolkatta GPO	Kolkatta GPO	HO	700001
805	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	ASANSOL	Asansol	Asansol	HO	713301
806	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	ASANSOL	Raniganj	Raniganj	HO	713347
807	WEST BENGAL	SOUTH BENGAL	BURDWAN	Burdwan	Burdwan	HO	713101
808	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	DARJEELING	Darjeeling	Darjeeling	HO	734101
809	WEST BENGAL	NORTH BENGAL & SIKKIM	SIKKIM	Gangtok	Gangtok	HO	737101
810	WEST BENGAL	Kolkata	A-N Islands	Port Blair	Port Blair HO	HO	744101

Annexure III

(Refer to para 2(b) of notification dated April , 2019)

List of recognised stock exchanges authorised as receiving offices for the Sovereign Gold Bonds 2019-20 – Series I

1. National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)
2. Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)